

इसे वेबसाइट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 128]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 18 अप्रैल 2024-चैत्र 29, शक 1946

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2024

फा. क्र.-1141-2024-इक्कीस-ब (दो).- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (क्रमांक 2 सन् 1974) की धारा 21 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए प्रदेश के 34 जिलों के कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारियों द्वारा प्रेषित अतिरिक्त/संशोधित प्रस्ताव संलग्न सूची के अंतर्गत अधिकारियों/कर्मचारियों को लोक सभा निर्वाचन 2024 का कार्य सम्पन्न कराये जाने हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त करता है और उन्हें उक्त कार्य के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां अधिसूचना जारी होने के दिनांक से मतदान प्रक्रिया समाप्त होने तक के लिए प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धर्मपाल सिंह सिवाच, सचिव.

कार्यालय, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश निर्वाचन सदन, 17, अरेरा हिल्स, भोपाल - 462 011

फा.क्र.9(क)-चार-2024-सेक्टर म.-6184

भोपाल, दिनांक 16 अप्रैल 2024

लोक सभा निर्वाचन 2024-सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी नियुक्त किए जाने एवं विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां

प्राप्त पत्रों की सूची

स. क्र.	जिले का नाम	पत्र क्रमांक एवं दिनांक	सेक्टर अधिकारी/ SST/VST/FST/ की संख्या
1	मुरैना	ले0स0 निर्वा./प्रस्ताव/2024/1702, दिनांक 11.04.2024	51
2	भिण्ड	क्यू/25/लो.निर्वा./म.द.ग./2024/152, दिनांक 10.04.2024	140
3	दतिया	ले.स.नि./2024/982, दिनांक 14.04.2024	31
4	शिवपुरी	623/लो.स.निर्वा./से.मजि./2024, दिनांक 10.04.2024	16
5	सागर	945/सेक्टर/निर्वाचन/चु0पर्य0/2024, 12.04.2024	24
6	टीकमगढ़	25/सामा0निर्वा0/2024/857, दिनांक 11.04.2024	137
7	छतरपुर	939/निर्वाचन/पोस्टल बैलेट/2024, दिनांक 12.04.2024	28
8	दमोह	एफ-13-24(लोकसभा)/निर्वा./2024/374, दिनांक 12.04.2024	23
9	रीवा	732/15/निर्वा0/कार्य0दण्डा./2024, दिनांक 11.04.2024	41
10	सीधी	1413/निर्वाचन/2024, 10.04.2024	6
11	सिंगरौली	1280/सा.निर्वा./लो.स./2024, दिनांक 10.04.2024	36
12	अनूपपुर	856/सामा./निर्वा./2024, दिनांक 11.04.2024	11
13	जबलपुर	1125/सामा.निर्वा./सेक्टर म./2024, दिनांक 10.04.204	90
14	मण्डला	लो/स./निर्वा./2024/1003, दिनांक 10.04.2024	43
15	बालाघाट	743/सामा.निर्वा./सेक्टर/2024, दिनांक 11.04.2024	83
16	नरसिंहपुर	1005/लोसनि/2024/सेक्टर, दिनांक 12.04.2024	50
17	छिन्दवाड़ा	लो.स.निर्वा./2024/1082, दिनांक 09.04.2024	47
18	बैतूल	ईएल/2024/2157, दिनांक 15.04.2024	16
19	हरदा	1291/लो.स.2024/SO/2024, दिनांक 10.04.2024	11
20	रायसेन	901/23-भा.निर्वा./2024, दिनांक 11.04.2024	2
21	विदिशा	एस-4/निर्वा.सा./2024/1851, दिनांक 11.04.2024	55
22	भोपाल	1619/सामान्य निर्वाचन/2024, दिनांक 15.04.2024	239
23	सीहोर	913/निर्वा./2024, दिनांक 11.04.2024	69
24	राजगढ़	985/14/निर्वाचन/2024, दिनांक 15.04.2024	57
25	शाजापुर	निर्वाचन/2024/708, दिनांक 12.04.2024	21
26	खण्डवा	सा.नि.शा./सा.लि./S.O.M.P./2024/1455, दिनांक 11.04.2024	224
27	बुरहानपुर	क/निर्वा./भण्डार/2024/1006, दिनांक 13.04.2024	12
28	अलीराजपुर	भा.निर्वा./2024/1029, दिनांक 12.04.2024	83
29	धार	1728/निर्वाचन/2024, दिनांक 13.04.2024	5
30	इंदौर	2392/भा.निर्वा./कर्म.व्य-स्था./सेक्टर म., दिनांक 11.04.2024	94
31	उज्जैन	निर्वाचन/सेक्टर/2024/1123, दिनांक 10.04.2024	19
32	रतलाम	1360/फा.क्र. 36/भा.नि./2024, दिनांक 15.04.2024	2
33	मंदसौर	1153/भारत निर्वाचन-कानून व्य./2024, दिनांक 15.04.2024	61
34	नीमच	भा.निर्वा./सेक्टर मजि./2024/1070, 15.04.2024	29
	कुल		1856

राजेश कुमार कौल, अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मुरैना

क्रमांक-लो.स. निर्वा.-प्रस्ताव-2024-1702

मुरैना, दिनांक 11 अप्रैल 2024

लोकसभा आम निर्वाचन 2024					
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव					
जिले का नाम :- मुरैना					
स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	श्री रिपिकेश शर्मा	उपयंत्री	मुख्य नगर पालिका अधिकारी जौरा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
2	श्री बाण एस जादोन	प्राचार्य	शा बी डी जैन मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
3	श्री कमल नावै	सहायक संचालक	मत्स्य विभाग मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
4	श्री अरविन्द महेश्वरी	महाप्रबंधक	उद्योग व्यापार मंडल मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
5	श्री सुरेश सिंह तोमार	विकास अधिकारी	बिना पंचायत मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
6	श्री अजय प्रताप सिंह	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास खडियाहार	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
7	श्री भरत बादिल	उपयंत्री	जनपद पंचायत मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
8	श्री महेश कुमार गुप्ता	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग अम्बाह	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
9	श्री रामअवतार सिंह सिकववार	छण्ड द्योत समन्वयक	जनपद शिक्षा केन्द्र पोसा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
10	श्री कुलदीप जादोन	ड.मा.शि	शासकीय प० मारका पुरा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
11	श्री सुरेन्द्र गुप्ता	बीएससी	जनपद शिक्षा केन्द्र सवलगढ़	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
12	श्री राकेश गिरी	बीसी	जनपद पंचायत सवलगढ़	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
13	श्री निवास बघेल	बीएससी	जनपद शिक्षा केन्द्र सवलगढ़	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
14	श्री विजय सिंह जादोन	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र सवलगढ़	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
15	श्री जीतन्द्र यादव	सहायक पशु अधी०	पशु चिकित्सालय सेमडर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
16	श्री अभिषेक गर्ग	लेखाधिकारी	जल संसाधन सबलगढ़	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
17	श्री रामजीलाल शर्मा	एडीओ	जनपद पंचायत सबलगढ़	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
18	श्री तुलाराम टेंगोर	पीसीओ	जनपद पंचायत जौरा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले

19	श्री अरुण गुप्ता	प्राचार्य	शासकीय उ मा वि कुमैरी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
20	श्री अरुण तिवारी	पीसीओ	जनपद पंचायत जौरा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
21	श्री रामेश्वर सिंह बरेलिया	आरईओ	क्राये विभाग		
22	श्री मुरारीलाल धाकड	प्राचार्य	शास0 उ0मा0वि0 बर्ड	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
23	श्री रामचरण चारौलिया	पी0सी0ओ0	जनपद पंचायत कैलारस	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
24	श्री सियाराम जाटव	पशु चिकित्सक	पशुविभाग पसाडगढ	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
25	श्री नागेश्वर पाण्डेय	उपयंत्री	नगर परिषद कैलारस	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
26	श्री आर0के0 सेमिल	उपयंत्री	आरईएस मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
27	श्री नीपूस कंपनी	वैधानिक	रूपि विज्ञान केन्द्र मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
28	श्री लोकेन्द्र गुर्जर	सीएसी	जनपद शिक्षा केन्द्र मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
29	श्री विकास सिंह भदौरिया	वाणिज्यकर निरीक्षक	वाणिज्यकर विभाग मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
30	श्री मुकेश धाकड	मा0 शिक्षक	शास हा0शं0 स्कूल बानपीर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
31	श्री सोमनाथ कुर्मी	आरएसईओ	उपान विभाग मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
32	श्री विकास शर्मा	सहायक उप निरीक्षक	मण्डी मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
33	श्री राजेश नागर	प्राचार्य	शासकीय हा0स्कूल धिरुआ आम्बाह	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
34	श्री देवेन्द्र सिंह तोमर	प्राचार्य	शासकीय उ मा वि सिहौनिया	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले

श्री हरेन्द्र सिंह	सहायक उप निरीक्षक	कृषि उपज मण्डी मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
36 श्री राघवेंद्र शर्मा	उ शिक्षक	शासकीय उय मा वि संगो ैली	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
37 श्री रघुवीर सिंह करोरिया	बीसी	जनपद पंचायत अम्बाह	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
38 श्री नितिन केन	उप अंकेक्षक	कार्यालय उपायुक्त सहकारिता मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
39 श्री एसबीएस चौहान	वैज्ञानिक	कृषि विज्ञान केन्द्र मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
40 श्री अनिल शर्मा	उ मा शिक्षक	शासकीय उ मा वि कुमैरी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
41 श्री बारे लाला सेमिल	एडीपीसी	सहकारिता निरीक्षक मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
42 श्री अभिषेक सिंह तोमर	सहायक उप निरीक्षक	कृषि उपज मण्डी अम्बाह	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
43 श्री राकेश जौहरी	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र अम्बाह	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
44 श्री राजकुमार सिंह तोमर	मा शिक्षक	शासकीय विवेकानन्द उ मा वि रूपहटी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
45 श्री हरिओम बंसल	उप निरीक्षक	कृषि उपज मण्डी समिति मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
46 श्री एसके श्रीवास्तव	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य उपा खण्ड अम्बाह	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
47 श्री विनोद सिंह गुर्जर	बीआरसी	अम्बाह	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
48 श्री सियराम राठौर	पीसीओ	जनपद पंचायत अम्बाह	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
49 श्री आईएस गोरी	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्ालय मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
50 श्री आरएस भदौरिया	उपयंत्री	जनपद पंचायत अम्बाह	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले
51 श्री हेमंत मीणा	कृषि अधिकारी	कृषि विभाग मुरैना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भिण्ड, मध्यप्रदेश

क्र. क्यू-25-लो.निर्वा.-म.द.ग.-2024-152

भिण्ड, दिनांक 10 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम :- भिण्ड

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा / सवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जानी प्रस्तावित है।
1	अंकिता तोमर	उच्च माध्यमिक शिक्षक	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
2	अंजना माहोर	उच्च माध्यमिक शिक्षक	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
3	अंजनाचौधरी	सहायक पशुचिकित्सा क्षेत्र	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
4	अंशु मिश्रा	उच्च माध्यमिक शिक्षक	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
5	अजय कुमार	उपयंत्री	Water Resources Department (जल संसाधन विभाग)	3	संपूर्ण जिले के लिये
6	गजराज सिंह गुर्जर	ए व्ही फ ओ	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
7	अनीता भदौरिया	ग्रामीण उद्यान विस्तार अओ	Horticulture (उद्यानिकी)	3	संपूर्ण जिले के लिये
8	अनुराग गुप्ता	उपयंत्री	Urban Welfare (शहरी कल्याण)	3	संपूर्ण जिले के लिये
9	अरुण कुमार तोमर	व्याख्याता	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
10	अरुणेंद्र नाथ शर्मा	सहायक यंत्री	Water Resources Department (जल संसाधन विभाग)	2	संपूर्ण जिले के लिये
11	अवधेश कुमार	उच्च माध्यमिक शिक्षक	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
12	अश्वनी कुमार श्रीवास्तव	प्राचार्य	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
13	आकाश प्रताप सिंह तोमर	सहायक सांख्यिकीय अधिकारी	School Education (स्कूल शिक्षा)	3	संपूर्ण जिले के लिये
14	आनंद सिंह कुशवाह	व्याख्याता	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
15	आरती राजपूत	सहायक प्रबंधक	Commerce & Industry (वाणिज्य एवं उद्योग)	3	संपूर्ण जिले के लिये
16	आशुतोष शुक्ला	मण्डल संयोजक	Tribal Welfare (जनजाति कल्याण)	3	संपूर्ण जिले के लिये
17	कमल सिंह गाई	वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक	Co-operation (सहकारिता)	3	संपूर्ण जिले के लिये
18	कमलाकांत त्रिपाठी	उच्च माध्यमिक शिक्षक	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
19	कविता श्रीवास्तव	उच्च माध्यमिक	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये

		शिक्षक			
20	डॉ राहुल तोमर	सहायक पशुचिकित्सा क्षे	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
21	के एल खेस	प्राचार्य	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
22	गजेन्द्र सिंह भदौरिया	व्याख्याता	School Education (स्कूल शिक्षा)	3	संपूर्ण जिले के लिये
23	गरिमा कनोरिया	उपयंत्री	Urban Welfare (शहरी कल्याण)	3	संपूर्ण जिले के लिये
24	गौरव तिवारी	उपयंत्री-विद्युत-फूल टाइम	Energy Department (ऊर्जा विभाग)	3	संपूर्ण जिले के लिये
25	प्रशान्त त्यागी	ए व्ही फ ओ	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
26	चांदनी शर्मा	सहायक पशुचिकित्सा क्षे	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
27	अरविन्द सिंह राठौर	सहायक पशुचिकित्सा क्षे	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
28	जितेन्द्र सिंह तोमर	उपयंत्री	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
29	जीतेन्द्र कुमार दोहरे	उच्च माध्यमिक शिक्षक	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
30	जीतेन्द्र सिंह	सहायक पशुचिकित्सा क्षे	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
31	जूली राठौर	उपयंत्री	Water Resources Department (जल संसाधन विभाग)	3	संपूर्ण जिले के लिये
32	ज्योति अहिरवार	उपयंत्री	Public Works (लोक निर्माण कार्य)	3	संपूर्ण जिले के लिये
33	डॉ आकांक्षा गरुड	औषधि निरीक्षक	Public Health & Family Welfare (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	3	संपूर्ण जिले के लिये
34	डॉ आर पी एस तोमर	वरिष्ठ वैज्ञानिक	Agriculture (कृषि)	1	संपूर्ण जिले के लिये
35	डॉ ईश्वर सिंह डावर	सहायक प्राध्यापक	Higher Education (उच्च शिक्षा)	1	संपूर्ण जिले के लिये
36	डॉ कुसुमलता गौतम	सहायक पशुचिकित्सा क्षे	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
37	चौबेलाल कोठारी	पीसीओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
38	डॉ राधा	सहायक पशुचिकित्सा क्षे	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
39	प्रदीप सिंह नरवरिया	सहायक पशुचिकित्सा क्षे	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
40	धर्मेंद्र सिंह परमार	सहायक संचालक मत्स्योद्योग	Fisheries (मत्स्य पालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
41	मयंक शर्मा	ए व्ही फ ओ	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये

42	निधी श्रीवास्तव	नाप तौल निरीक्षक	Food and Civil Supplies (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)	3	संपूर्ण जिले के लिये
43	प्रदीप शर्मा	उच्च माध्यमिक शिक्षक	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
44	प्रवीण कुमार गुप्ता	ए व्ही फ ओ	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
45	प्रेम नारायण शिवहरे	उपयंत्री	Water Resources Department (जल संसाधन विभाग)	3	संपूर्ण जिले के लिये
46	प्रेम सिंह	प्राचार्य हाईस्कूल	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
47	बालकृष्ण पचौरी	प्राचार्य हाईस्कूल	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
48	जितेन्द्र सिंह गुर्जर	एडीईओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
49	ब्रजेश शेखर	ए व्ही फ ओ	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
50	भजनलाल अहिरवार	वरिष्ठ सहायक	Co-operation (सहकारिता)	3	संपूर्ण जिले के लिये
51	पवन प्रताप सिंह तोमर	एडीईओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
52	मथुरा प्रसाद कुम्हार	सहायक संचालक कृषि	Agriculture (कृषि)	2	संपूर्ण जिले के लिये
53	मयंक पचौरी	उपयंत्री	Public Health Engineering (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)	3	संपूर्ण जिले के लिये
54	प्रशांत पाण्डेय	मंडी सचिव	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
55	महाराज बाथम	प्राचार्य	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
56	महिमा शिवहरे	सहायक पशुचिकित्सा क्षे	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
57	महेन्द्र कुमार दांतरे	प्राचार्य	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
58	योगेन्द्र रावत	विकासखण्ड समन्वयक	Women and Child Development (महिला एवं बाल विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
59	योगेश कुमार शाक्य	उपयंत्री	Urban Welfare (शहरी कल्याण)	3	संपूर्ण जिले के लिये
60	रविन्द्र सिंह भदौरिया	प्राचार्य हाईस्कूल	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
61	राजेश सिंह सेंगर	प्राचार्य हाईस्कूल	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
62	राजेशकुमार चौधरी	वरिष्ठ सहायक	Food and Civil Supplies (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)	3	संपूर्ण जिले के लिये
63	राधे श्याम गुप्ता	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	DCCB (जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित)	1	संपूर्ण जिले के लिये
64	राम बिहारी समाधिया	प्राचार्य हाईस्कूल	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
65	रामकिशोर शर्मा	प्राचार्य	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये

66	रीमा मितल	सहायक पशुचिकित्सा क्षे	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
67	रेनू कुशवाह	ग्रामीण उद्यान विस्तार अ०	Horticulture (उद्यानिकी)	3	संपूर्ण जिले के लिये
68	लोकेश सिंह कोरकू	एडीईओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
69	वर्षा दोहरे	उच्च माध्यमिक शिक्षक	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
70	विकास लोधी	सहायक पशुचिकित्सा क्षे	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
71	विजय कुमार	ए व्ही फ ओ	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
72	विवेक विन्चुरकर	परियोजना अधिकारी	Women and Child Development (महिला एवं बाल विकास)	2	संपूर्ण जिले के लिये
73	वेद प्रकाश सिंह	उपयंत्री-विद्युत-फूल टाइम	Energy Department (ऊर्जा विभाग)	3	संपूर्ण जिले के लिये
74	शिवराज सिंह कुशवाह	व्याख्याता	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
75	श्री गोधन सिंह सेमर	पीसीओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
76	श्री राजीव निगम	उपयंत्री	Public Works (लोक निर्माण कार्य)	3	संपूर्ण जिले के लिये
77	श्री शिवेन्द्र गुप्ता	उपयंत्री	Public Works (लोक निर्माण कार्य)	3	संपूर्ण जिले के लिये
78	श्रीमती नेहा शर्मा	सहायक पशुचिकित्सा क्षे	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
79	श्रीमती रीना बंसल	खाध सुरक्षा अधिकारी	Public Health & Family Welfare (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	3	संपूर्ण जिले के लिये
80	संजेष	सहायक गुणवत्ता नियंत्रक	Food and Civil Supplies (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)	3	संपूर्ण जिले के लिये
81	संदीप सिंह गुर्जर	सहायक पशुचिकित्सा क्षे	Animal Husbandary (पशुपालन)	3	संपूर्ण जिले के लिये
82	सचिन धनोलिया	उपयंत्री	Public Health Engineering (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)	3	संपूर्ण जिले के लिये
83	सर्चींद्र मोहन बसेड़िया	उच्च माध्यमिक शिक्षक	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
84	सपना लोधी	उपयंत्री	Public Health Engineering (लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी)	3	संपूर्ण जिले के लिये
85	सुनील कुमार	उपयंत्री	Water Resources Department (जल संसाधन विभाग)	3	संपूर्ण जिले के लिये
86	सुनील थाकड	एडीईओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं	3	संपूर्ण जिले के लिये

			ग्रामीण विकास)		
87	सुमन चौहान	व्याख्याता	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
88	सुश्री रेखा सोनी	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	Public Health & Family Welfare (लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण)	3	संपूर्ण जिले के लिये
89	सौरभ शर्मा	नाप तौल निरीक्षक	Food and Civil Supplies (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति)	3	संपूर्ण जिले के लिये
90	हरनारायण दीक्षित	उच्च माध्यमिक शिक्षक	School Education (स्कूल शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
91	बी.डी.पुरोहित	प्राचार्य	Higher Education (उच्च शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
92	श्रीमती रूपल पुरोहित	प्रभारी विभागाध्यक्ष	Higher Education (उच्च शिक्षा)	2	संपूर्ण जिले के लिये
93	रोहित सिंह तोमर	एडीईओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
94	मनीष भारती	एडीईओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
95	रवि कुमार	एडीईओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
96	सौरभ व्यास	एडीईओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
97	साधु ना भदौरिया	एडीईओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
98	प्रवीण राजोरिया	प्रशिक्षण अधिकारी	Technical Education & Skill development (तकनीकी शिक्षा एवं कौशल विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
99	राहुल डोडे	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
100	लखन सिंह पवार	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
101	धर्मन्द्र सिंह	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
102	इन्द्रास मोरे	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
103	शुभम मेवाडा	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
104	उदित्य बच्चन	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
105	केशराम सोलंकी	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
106	बबिता मण्डलोई	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
107	विवेक शर्मा	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
108	सोनिला भंवर	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये

109	अनूप कुमार जाटव	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
110	आकाश शर्मा	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
111	ऋषभ श्रीवास्तव	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
112	लक्ष्मण सोलंकी	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
113	नीरज बिरला	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
114	सौरभ	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
115	विकाश पटेल	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
116	पंकज कुमार	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
117	कैलाश चन्द्र सागरिया	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
118	मोना	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
119	राकेश सिंह कौशल	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
120	अनिल सिंह राजावत	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
121	अरूण कुमार	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
122	विक्रान्त शर्मा	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
123	सुनील डोडवे	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
124	राजेश विसोरिया	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
125	प्रतिभा नरवरिया	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
126	रविन्द्र सिंह नरवरिया	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
127	दिनेश बड़ोले	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
128	पवन साद	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
129	राधा	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
130	निर्मला मंडलोई	ग्रा.कृ.वि.अधि.	Agriculture (कृषि)	3	संपूर्ण जिले के लिये
131	बासुदेव	सहायक प्रबंधक	Commerce & Industry (वाणिज्य एवं उद्योग)	3	संपूर्ण जिले के लिये
132	शुभम राजपूत	सहायक प्रबंधक	Commerce & Industry (वाणिज्य एवं उद्योग)	3	संपूर्ण जिले के लिये
133	योगेन्द्र आर्य	सहायक यंत्री	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	2	संपूर्ण जिले के लिये
134	कपिल सिंह	सहायक यंत्री	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	2	संपूर्ण जिले के लिये
135	राहुल सिंह	सहायक यंत्री	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं	2	संपूर्ण जिले के लिये

			ग्रामीण विकास)		
136	संजय शर्मा	एडीईओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
137	अर्चिता गुप्ता	एडीईओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
138	जय कुमार चोपे	एडीईओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
139	कुलदीप रावत	एडीईओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये
140	सुधीर बघेल	एडीईओ	Panchyat & Rural Development (पंचायत एवं ग्रामीण विकास)	3	संपूर्ण जिले के लिये

हस्ता./-
(संजीव श्रीवास्तव)
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी.

**कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी,
संयुक्त कार्यालय भवन, ग्वालियर रोड, दतिया, मध्यप्रदेश**

क्रमांक 982-लो.स.नि.-2024

दतिया,, दिनांक 14 अप्रैल 2024

लोकसभा आम निर्वाचन 2024-सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

लोकसभा आम निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम - दतिया

मुनिप के पत्र क्रमांक फा.क्र. 9(क)/चार/2024 सेक्टर म./5508 भोपाल दिनांक 09.04 2024

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	गैना/मंनर्ग का नाम	क्षेत्र जिलाके जिले कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	4	8
1	श्री मनीष माहोर	एडीईओ	जनपद सेवदा	राज्य	संपूर्ण जिला
2	श्री प्रशांत भिक्षा	बीएसी	बीआरसी दतिया	राज्य	संपूर्ण जिला
3	श्री अभिनव सोनी	एडीईओ	जनपद सेवदा	राज्य	संपूर्ण जिला
4	श्री हेमंत सिंह सिकरवार	एडीईओ	जनपद सेवदा	राज्य	संपूर्ण जिला
5	श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा	बीएसी	बीआरब भाण्डेर	राज्य	संपूर्ण जिला
6	सुश्री प्रीति पाल	एडीईओ	जनपद भाण्डेर	राज्य	संपूर्ण जिला
7	श्री अरविंद कुमार	निरीक्षक	पिछडा वर्ग भाण्डेर	राज्य	संपूर्ण जिला
8	श्री उद्धव ओझा	एडीईओ	जनपद भाण्डेर	राज्य	संपूर्ण जिला
9	श्री देवेश साहू	सहा.प्रबंधक	प्र.मंनरा.से.यो.	राज्य	संपूर्ण जिला
10	श्री बी.के.अहिरवार	उपयंत्री	नियंत्रक	राज्य	संपूर्ण जिला
11	श्री विजय तिवारी	उपयंत्री	जनपद दतिया	राज्य	संपूर्ण जिला
12	श्रीमती प्रार्थना पाराशर	उपयंत्री	जनपद दतिया	राज्य	संपूर्ण जिला
13	श्रीमती कीर्ति अरजरिया	समग्र सुरक्षा विस्तार अधिकारी	नगर पालिका दतिया	राज्य	संपूर्ण जिला
14	श्री रविन्द्र रावत	मत्सय निरीक्षक	मत्सय विभाग सेवदा	राज्य	संपूर्ण जिला
15	श्री जे.एस. भदौरिया	प्रबंधक	वेयर हाउस सेवदा	राज्य	संपूर्ण जिला
16	श्री जवाहर यादव	उपयंत्री	शिक्षा विभाग	राज्य	संपूर्ण जिला
17	श्री श्रीकृष्ण शिवहरे	बीएसी	बीआरसी सेवदा	राज्य	संपूर्ण जिला
18	सुश्री पूजा कोरका	एडीईओ	जनपद दतिया	राज्य	संपूर्ण जिला
19	श्री रामनिवास त्रिपाठी	एडीईओ	जनपद दतिया	राज्य	संपूर्ण जिला
20	श्री उदित भारद्वाज	एडीईओ	जनपद दतिया	राज्य	संपूर्ण जिला
22	श्री गौरव कुशवाहा	एडीईओ	जनपद दतिया	राज्य	संपूर्ण जिला
22	श्री सुनील परिहार	एडीईओ	जनपद दतिया	राज्य	संपूर्ण जिला
23	श्री भरतराम भगत	पीसीओ	जनपद भाण्डेर	राज्य	संपूर्ण जिला
24	श्री महेन्द्र सिंह	पीसीओ	जनपद भाण्डेर	राज्य	संपूर्ण जिला
25	श्री थान सिंह सुमन	एडीईओ	जनपद भाण्डेर	राज्य	संपूर्ण जिला
26	श्री शंभुदयाल शर्मा	उपयंत्री	जनपद सेवदा	राज्य	संपूर्ण जिला
27	श्री ओमप्रकाश सेंगर	उपयंत्री	जनपद सेवदा	राज्य	संपूर्ण जिला
28	श्री गोविन्ददास कोरी	उपयंत्री	जनपद सेवदा	राज्य	संपूर्ण जिला
29	श्री वीरेन्द्र कुमार दांगी	उपयंत्री	जनपद सेवदा	राज्य	संपूर्ण जिला
30	श्री दिनेश गुप्ता	पीसीओ	जनपद सेवदा	राज्य	संपूर्ण जिला
31	श्री सुरेश गहलोतिया	पीसीओ	जनपद सेवदा	राज्य	संपूर्ण जिला

(कलेक्टर महोदय द्वारा अनुमोदित)

हस्ता./-

उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शिवपुरी, मध्यप्रदेश

क्र.-623-लो.स.निर्वा.-से.मजि.-2024

शिवपुरी, दिनांक 10 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी का शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव
जिले का नाम : शिवपुरी

सं.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं।
1	2	3	4	5	6
01	श्री रविन्द्र जैन	उपयंत्री	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
02	श्री रामकुमार सिनोरिया	उपयंत्री	स्वास्थ्य विभाग	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
03	श्री मनोज कुमार	सहायक यंत्री	सिंध परियोजना शिवपुरी	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
04	श्री सुभाष नारोलिया	उपयंत्री	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
05	श्री एम.पी.सिंह	उपयंत्री	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
06	श्री मनोज कुमार गुप्ता	उपयंत्री	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
07	श्री सतेन्द्र सिंह	सहायक यंत्री	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
08	डॉ. अजेन्द्र सिंह पाल	पशु चिकित्सा अधिकारी	पशुपालन विभाग	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
09	डॉ. शिवकरण सिंह धाकड	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशुपालन विभाग	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
10	डॉ. गिराज माहौर	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशुपालन विभाग	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
11	डॉ. अरविन्द जाटव	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशुपालन विभाग	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
12	डॉ. विनय कुमार इन्दौरिया	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशुपालन विभाग	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
13	डॉ. बालकृष्ण शर्मा	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशुपालन विभाग	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
14	डॉ. मनीष बांदिल	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशुपालन विभाग	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
15	डॉ. दीपक जौहरी	पशु चिकित्सा सहा शल्यज्ञ	पशुपालन विभाग	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
16	श्री मनोहर बोराटे	कार्यपालन यंत्री	जल संसाधन विभाग	प्रथम श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

हस्ता./-

अपर कलेक्टर एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला सागर, मध्यप्रदेश

क्र.-945-सेक्टर-निर्वाचन-चु.पर्य.2024

सागर, दिनांक 12 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम : सागर

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
1	तुलसीराम रायकवार	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग रारा उपसभाग सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
2	अभिलाष राय	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा क्रमांक-2 सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
3	श्री मृत्युंजय कुमार सिंह	क्रीडा अधिकारी	शास0 महाविद्यालय खुरई	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
4	भरत सिंह दांगी	उपयंत्री	जनपद पंचायत खुरई	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
5	बृजेन्द्र कुमार शर्मा	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र बीना	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
6	राजेन्द्र वैध	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र रहली	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
7	आर.डी. लडिया	ग्रा.कृषि विस्तार अधिकारी	कार्या. वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी विकासखण्ड सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
8	दिनेश जैन	उपयंत्री	जनपद पंचायत शाहगढ	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
9	सुमत सिंघई	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र रहली	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
10	जितेन्द्र दांगी	उपयंत्री	जनपद पंचायत बण्डा	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
11	रामभजन तिवारी	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र बण्डा	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
12	मनीष पाण्डेय	उच्च माध्यमिक शिक्षक	बालक शा.उ.मा.वि. ढाना	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
13	चिनय भूसन रोहित	सहायक यंत्री	परियोजना संचालक बीना PMU सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
14	मृगेंद्र दुबे	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र बंडा	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
15	देवेन्द्र कुमार अनुरागी	मानचित्रकार	कार्या0सहा0 भूमि संरक्षण रनगुवा गढाकोटा	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
16	डॉ0 अभिषेक गोयल	क्रीडा अधिकारी	शास0 नेहरू महाविद्यालय देवरी	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
17	अजय पांडेय	उपयंत्री	अनुविभागीय अधिकारी लोक	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
18	उपेन्द्रसिंह चौहान	उप यंत्री	परियोजना संचालक बीना PMU	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
19	आदित्य पाण्डेय	उप यंत्री	परियोजना संचालक बीना PMU	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
20	अतहर कुरैशी	उप यंत्री	परियोजना संचालक बीना PMU	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
21	दरयाव मरकाम	पंचायत सम. अधिकारी	जनपद पंचायत रहली	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
22	अशोक कुमार चढार	पंचायत सम. अधिकारी	जनपद पंचायत बण्डा	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
23	जमना प्रसाद चौधरी	पंचायत सम. अधिकारी	जनपद पंचायत राहतगढ	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए
24	शिवनारायण त्रिपाठी	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सागर	कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिए

उपरोक्त अधिकारियों को निर्वाचन की घोषणा से समाप्ति तक विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त किया जाना है ।

हस्ता./-
(दीपक आर्य)
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, टीकमगढ़, मध्यप्रदेश

क्र.-25-सामा.निर्वा.-2024-857

टीकमगढ़, दिनांक 11 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024

सेक्टर अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम- टीकमगढ़

क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री. अमरेश शर्मा	सहायक	राष्ट्रीय यांत्रिकी सेवाएं टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
2	श्री. मन्मथ विहारी	सहायक यंत्री	राष्ट्रीय यांत्रिकी सेवाएं, टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
3	श्री. आर. के. मंगेशकर	महाप्रबंधक	कॉर्पोरेटिव बैंक टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
4	श्री. प्रशांत विहारी	सहायक खनिज अधिकारी	खनिज विभाग टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
5	श्री. इमरत शर्मा	प्राचार्य	आईटीआई बल्देवगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
6	श्री. मोहम्मद शान	सहायक यंत्री	यांत्रिकी यांत्रिकी सेवाएं टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
7	श्री. भास्कर उपा निह	प्राध्यापक-स्कूल 1	प्राचार्य शासकीय कीर्तगंगा अंबेदी वार्ड लोधी महाविद्यालय टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
8	श्री. राजेश्वर पाण्डे	महाप्रबंधक-म्याई	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
9	श्री. नवीन प्रवीण झा	प्राध्यापक-स्कूल 1	प्राचार्य शासकीय कीर्तगंगा अंबेदी वार्ड लोधी महाविद्यालय टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
10	श्री. इन्द्रजीत जैन	प्राध्यापक-स्कूल 1	प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
11	श्री. म. दी. खरे	प्राध्यापक-स्कूल 1	प्राचार्य शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
12	श्री. वी.एस. विहार	प्रधान वैज्ञानिक	ज०ने०क०वि०वि० कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
13	श्री. एफ. व. खान	उप प्राचार्य-स्कूल शिक्षा-पुल राहम	जवाहर नवोदय विद्यालय कुण्डेश्वर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
14	श्री. प्रमोद रात सिद्ध	प्राचार्य-म्याई	जवाहर नवोदय विद्यालय कुण्डेश्वर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
15	श्री. यु.एस. धाकर	वैज्ञानिक	ज०ने०क०वि०वि० कृषि महाविद्यालय टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
16	श्री. राजेश यादव	महायक प्राध्यापक-स्कूल 2	प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय बल्देवगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
17	श्री. बुजेंद्र सिंह यादव	महायक प्राध्यापक-स्कूल 2	प्राचार्य, शासकीय नवीन महाविद्यालय विधौरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
18	श्री. उत्कर्ष अग्रवाल	व्याख्याता तकनीकी स्कूल 1	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
19	श्री. शिवत रावत	व्याख्याता तकनीकी स्कूल 1	शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक

लोकसभा निर्वाचन 2024

स्टेटिक सर्विलेस टीम (Static Servilance Team-SST) को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम:- टीकमगढ़

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री दीपक विश्वकर्मा	उपयंत्री	नगर पालिका टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
2	श्री एस.के. खरे	आरईओ	कृषि विभाग, डिकौली	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
3	श्री चन्द्रदेव पाठक	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवा, टीकमगढ़,	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
4	श्री अमित गुप्ता	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
5	श्री कन्हैयालाल ठाकुर	आरईओ	कृषि विभाग बड़ागांव	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
6	श्री रामकरण	आरईओ	कृषि विभाग बड़ागांव	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
7	श्री जयहिन्द्र पटेल	उपयंत्री	पीडब्ल्यूडी टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
8	श्री अमित सोलंकी,	उपयंत्री	पीडब्ल्यूडी भवन टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
9	श्री कृष्णा माहोर	उपयंत्री	पीडब्ल्यूडी भवन टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
10	श्री चन्द्रभान अनुरागी	उपयंत्री	आरईएम टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
11	श्री बशीम खान	एन्हीएफओ	एन्हीएफओ, पठा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक

12	श्री मौरभ मेन	एव्हीएफओ	पशु चिकित्सालय टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
13	श्री राजेश सिंह खंगार	एव्हीएफओ	एव्हीएफओ, वैरवार	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
14	श्री प्रशांत गोस्वामी	आरईओ	कृषि विभाग, पलेरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
15	श्री अनुराज सिंह घोष	एडीईओ	एडीईओ, जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
16	श्री भरजू निचारी	उपयंत्री	आर.एम.के., जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
18	श्री दिनेश अहिरवार	एडीईओ	एडीईओ, पलेरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
19	श्री हरिकान्त पटेल	एव्हीएफओ	एव्हीएफओ, बम्हीरीकला	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
20	श्री कामन मण्डलोइ	आरईओ	कृषि विभाग जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
21	श्री मंदीप चौपडा	आरईओ	कृषि विभाग, जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
22	श्री दुर्गा मिश्र लोधी	एडीईओ	एडीईओ जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
23	श्री शिवेन्द्र कुमार निचारी	एव्हीएफओ	एव्हीएफओ, हीरानगर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
24	श्री हिमांशु मुत्रकार	एडीईओ	एडीईओ, जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
25	श्री मुकुन्द पाठक	उपयंत्री	पीडब्ल्यूडी, जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
26	श्री फूलचन्द्र अहिरवार	उपयंत्री	जल संसाधन, टीकमगढ़,	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
27	श्री जी.पी. अहिरवार	म0प्र0 गृह निर्माण	म0प्र0 गृह निर्माण, टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
28	श्री राघवेंद्र नामदेव	एडीईओ	एडीईओ बल्देवगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक

29	श्री वीरेन्द्र कुमार पटेल	उपयंत्री	नगरपरिषद खरगापुर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
30	श्री विद्यन साहू	आरईओ	कृषि विभाग बल्देवगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
31	श्री सौरभ शुक्ला	एडीईओ	एडीईओ बल्देवगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
32	श्री कृष्णविहारी शॉडिल्य	एव्हीएफओ	पशु औषधालय खरगापुर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
33	श्री कुणाल शिवनानी	उपयंत्री	जल संसाधन (नहर), उप संभाग बल्देवगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
34	श्री शंकर दयाल शर्मा	आरईओ	कृषि विभाग छिदारी	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
35	श्री हरिओम मुकाती	एव्हीएफओ	एव्हीएफओ आलमपुरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
36	श्री केलाश प्रनाद वर्मा	एव्हीएफओ	एव्हीएफओ थूरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
37	श्री रंजीत सिंह कुशवाहा	सहायक यंत्री	केन वेतवा, टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
38	श्री आर.पी. चतुर्वेदी	आरईओ	कृषि विभाग दिगौडा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
39	श्री नितिन अग्रवाल	उपयंत्री	जल संसाधन, उप संभाग, जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
40	श्री शिवसहाय अहिरवार	एव्हीएफओ	एव्हीएफओ दिगौडा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
41	श्री रमेश कुमार संजा	आरईओ	कृषि विभाग मोहनगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
42	श्री द्वारका प्रसाद	एव्हीएफओ	एव्हीएफओ लिधौरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
43	श्री बाबूलाल अहिरवार	एव्हीएफओ	एव्हीएफओ दिगौडा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
44	श्री बाबूलाल सौर	एव्हीएफओ	एव्हीएफओ मंजना	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक

45	श्री मनीष प्रजापति	एव्हीएफओ	एव्हीएफओ टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
46	श्री चेतन सिंह नरगावे	आरईओ	कृषि विभाग टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
47	श्री लेशराज अहिरवार	एव्हीएफओ	एव्हीएफओ देरी	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
48	मोहम्मद कामरान	एव्हीएफओ	एव्हीएफओ खरगापुर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
49	श्री अनुग्रह तिवारी	आरईओ	कृषि विभाग जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक

लोकसभा निर्वाचन 2024

वीडियो निगरानी दल (VST) को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम:- टीकमगढ़

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री मनोज बडकुल	उपयंत्री (संविदा), मनरेगा	जनपद पंचायत टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
2	श्री रवि कुमार द्विवेदी	समन्वयक	आजीविका मिशन टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
3	श्री प्रदीप चतुर्वेदी	समन्वयक	आजीविका मिशन टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
4	श्री आशीष पट्टेरिया	उपयंत्री (संविदा), मनरेगा	जनपद पंचायत जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
5	श्री राजेन्द्र कोरी	उपयंत्री (संविदा), मनरेगा	जनपद पंचायत जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
6	श्री आशीष विहारी मिश्रा	उपयंत्री (संविदा), मनरेगा	जनपद पंचायत जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
7	श्री कृष्णवलराम दीक्षित	उपयंत्री (संविदा), मनरेगा	जनपद पंचायत पलेरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
8	श्री प्रमोद कुभार चतुर्वेदी	उपयंत्री (संविदा), मनरेगा	जनपद पंचायत पलेरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
9	श्री हरिओर राय	उपयंत्री (संविदा), मनरेगा	जनपद पंचायत पलेरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
10	श्री प्रमोद माहू	उपयंत्री (संविदा), मनरेगा	जनपद पंचायत बल्देवगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
11	श्री सतीश उपाध्याय	उपयंत्री (संविदा), मनरेगा	जनपद पंचायत बल्देवगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक

12	श्री विक्रान्त चौधे	उपयंत्री (संविदा), मनरेगा	जनपद पंचायत बल्देवगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
13	श्री अनिल यादव	उपयंत्री (संविदा), मनरेगा	जनपद पंचायत जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
14	श्री अरूण प्रजापति	एवीएफओ	पशु चिकित्सा सेवायें टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
15	श्री संतोष सिंह पट्टिहार	उपयंत्री	मनरेगा वाटरशेड, जनपद पंचायत जतारा,	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
16	श्री नवीन खरे	उपयंत्री	मनरेगा, जनपद पंचायत जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
17	श्री जे पी यादव	उपयंत्री	मनरेगा, जनपद पंचायत टीकमगढ़ --	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
18	श्री प्रभात सिंह ठाकुर	उपयंत्री	मनरेगा वाटरशेड, जनपद पंचायत टीकमगढ़,	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
19	श्री दीपक शर्मा	उपयंत्री	पीएमकेएसबाय-डब्ल्यूडी, जनपद पंचायत जतारा,	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक

लोकसभा निर्वाचन 2024

उड़न दस्ता दल (Flying Squad-FST) को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम:- टीकमगढ़

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं	अवधि
1	2	3	4	5	6	7
1	श्री सनौना प्रभाद चौधरी	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक शहर टीकमगढ़,	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
2	श्री संजय कुमार खरे	ग्रा.कृ.वि.अधि.	ग्रा.कृ.वि.अधि., मबई	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
3	श्री प्ररूप प्रताप सिंह गदव	ए.व्ही.एफ.ओ.	ए.व्ही.एफ.ओ., अहार	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
4	श्री प्रदीप कुमार कुशवाहा	राजस्व निरीक्षक,	राजस्व निरीक्षक, समर्रा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
5	श्री ऋषिकान्त सेन	ए.व्ही.एफ.ओ.	पशु चिकित्सा सेवायें	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
6	श्री ब्रजेश कुमार अद्विखार	आरईओ	कृषि विभाग रानीपुरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
7	श्री सुरेश कुमार वर्मा	आरईओ	आरईओ, कार्यालय, टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
8	श्री पंकज सौर्या,	मत्स्य निरीक्षक	मत्स्य निरीक्षक, टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
9	श्री अमित कुमार शर्मा,	ए.व्ही.एफ.ओ.	ए.व्ही.एफ.ओ., अमताोन	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
10	श्री दिनेश माहू	नायब तहसीलदार	नायब तहसीलदार, समर्रा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
11	श्री नीरज घोष	आरईओ	आरईओ, बुडेरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
12	श्री के. के. गुप्ता	सहकारिता निरीक्षक,	सहकारिता विभाग, बुडेरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक

13	श्री राजीव घटैरिया	एनआरएलएम	एनआरएलएम, टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
14	श्री घनश्याम दाम यादव	आरईओ	आरईओ, कार्यालय जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
15	श्री राहुल परिहार	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
16	श्री भरमनलाल कुशवाहा	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक, जतारा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
17	श्री लक्ष्मी प्रसाद राजपूत	प्रभारी राजस्व निरीक्षक	प्रभारी राजस्व निरीक्षक, बराना	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
18	श्री अक्षय मेरे	आरईओ	कृषि विभाग टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
19	श्री आम सिंह	महायक अधीक्षक	भू-अभिलेख, टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
20	श्री रमजान खान	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक, स्यावनी	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
21	श्री धर्मेन्द्र करोदिया	एनआरएलएम	एनआरएलएम, लिधौरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
22	श्री प्रमोद श्रीवास	ए.व्ही.एफ.ओ	ए.व्ही.एफ.ओ पलेरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
23	श्री सुरेन्द्र कुमार मंगेले	आरईओ	आरईओ, कार्यालय चंदेरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
24	श्री अशोक कुमार चाल्मीकि	एव्हीएफओ	पशु औषधालय वीरपुरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
25	श्री शिवम खरे	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक, बल्देवगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
26	श्री अमृत लाल अहिरवार	ए.व्ही.एफ.ओ	ए.व्ही.एफ.ओ., सूरजपुर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
27	श्री शिवचरण अहिरवार	आरईओ	आरईओ, नारायणपुर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक

28	श्री तुलसीदास पाठक	ए.व्ही.एफ.ओ	ए.व्ही.एफ.ओ, खरगापुर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
29	श्री ईश्वर प्रसाद अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक, खरगापुर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
30	श्री जयसिंह दोहरे	आरईओ	आरईओ, बल्देवगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
31	श्री देशराज अहिरवार	एनआरएलएम	एनआरएलएम, पलेरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
32	श्री कामता प्रसाद अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक, पलेरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
33	श्री मणीर खान	उपयंत्री आरएसके	आरएसके, पलेरा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
34	श्री सुरेश कुमार पटैरिया	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक, कुडीला	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
35	श्री मनमोहन तिवारी	प्रभारी राजस्व निरीक्षक	प्रभारी राजस्व निरीक्षक, डारगुवाँ	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
36	श्री अयुब कुरेशी	एनआरएलएम	एनआरएलएम बल्देवगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
37	श्री रज्जन सिंह	सहायक अधीक्षक	भू-अभिलेख, टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
38	श्री सी.बी. प्रजापति	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक, मण्डल, दिगौडा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
39	श्री रामचरन अहिरवार	ग्रा.कृ.वि.अधि	ग्रा.कृ.वि.अधि. बछौडा	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
40	श्री जयराम खंगार	एनआरएलएम	एनआरएलएम, मोहनगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
41	श्री पवन बडोदे	आरईओ	आरईओ, टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
42	श्री कन्हैया लाल सोलंकी	उपयंत्री	जल संसाधन (नहर) उप संभाग बल्देवगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक

43	श्री मनीष कुमार जैन	नायब तहसीलदार	राजस्व मण्डल, गोर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
44	श्री नंदराम यादव	राजस्व निरीक्षक	राजस्व निरीक्षक, मण्डल गोर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
45	श्री जगभान कुम्हार	एनआरएलएम	एनआरएलएम, गोर	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
46	सुश्री प्राची जैन	परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदार	परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदार, टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
47	श्री पलक जैन	परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदार	परिवीक्षाधीन नायब तहसीलदार	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
48	श्री रामप्रसाद अहिरवार	राजस्व निरीक्षक	मजूल टीकमगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
49	श्री श्रीराम समेले	राजस्व निरीक्षण	राजस्व निरीक्षण मण्डल मोहनगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक
50	श्री राजेश साहू,	एनआरएलएम	एनआरएलएम, मोहनगढ़	राज्य संवर्ग	सम्पूर्ण जिले के लिए	अधिसूचना दिनांक से मतदान समाप्ति तक

हस्ता./-
(अवधेश शर्मा)
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

क्र.-939-निर्वाचन-पोस्टल बैलेट-2024

छतरपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024-हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट एवं उड़नदस्ता/स्थैतिक निगरानी टीम के दलों में संशोधन या अतिरिक्त अधिकारी नियुक्त किये जाने वाले अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करने का प्रस्ताव का विवरण-

सं. क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1.	श्री पी.डी. तिवारी,	उप.परि. प्रबन्धक	एम.पी.यू.डी.सी. छतरपुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
2	श्री दयाराम खरते	सहा.प्राध्यापक	शा. महाविद्यालय हरपालपुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
3	श्री संतोष कुमार मिश्रा,	कृषि विकास अधिकारी	उप संचालक कृषि विभाग छतरपुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
4	श्री डालचंद बाथम	वरिष्ठ उप पंजीयक छतरपुर	वरिष्ठ उप पंजीयक छतरपुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
5	श्री हरि ओम वर्मा	कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी	जिला आपूर्ति अधिकारी छतरपुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
6.	श्री अरविन्द कुमार पटेल	सहा.प्राध्यापक	शा. महाविद्यालय हरपालपुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
7	श्री सी.व्ही.अहिरवार	प्रभारी अधीक्षण यंत्री	जल संसाधन मंडल छतरपुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
8.	श्री रघुवीर सिंह भोजक	पीसीओ	जनपद पंचायत बड़ामलहरा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
9	श्री कल्याण सिंह	पीसीओ	जनपद	द्वितीय	सम्पूर्ण जिला के लिए

10	श्री मयंक वाजपेयी	सब इंजीनियर	पंचायत बड़ामलहरा जनपद पंचायत बड़ामलहरा	श्रेणी द्वितीय	सम्पूर्ण जिला के लिए
11	श्री सुरेश राम रवि	सहायक उप निरीक्षक	कृषि उपज मंडी लवकुशनगर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
12	श्री अशरफ खान्	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी कृषि विभाग छतरपुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
13	श्री राजेन्द्र कुमार जैन,	सहायक उप निरीक्षक	कृषि उपज मंडी छतरपुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
14	श्री राजेन्द्र प्रसाद जाटव	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि प्रशिक्षण केन्द्र नौगाँव	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
15	श्री जगदीश प्रसाद गंगेले	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	कृषि प्रशिक्षण केन्द्र नौगाँव	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
16	श्री नारायण दास अहिरवार	ग्रा.कृ.वि. अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी कृषि बिजावर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
17	श्री कमल नयन पाठक,	सामाजिक सु. वि. अधिकारी	जनपद पंचायत बिजावर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
18	श्री कन्हैया लाल रजक,	ग्रा.कृ.वि.अ.	अनुविभागीय अधिकारी कृषि राजनगर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
19	श्री मु. खालिद अंसारी	ग्रा.कृ.वि.अधि. छतरपुर	अनुविभागीय अधिकारी कृषि छतरपुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
20	श्री जगदीश प्रसाद मनया	ग्रा.कृ.वि.अधि.	अनुविभागीय अधिकारी कृषि मलहरा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
21	श्री पुरुषोत्तम लाल प्रजापति	सहा.उप निरीक्षक कृषि	कृषि उपज मंडी मलहरा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
22	श्री मिजाजीलाल विश्वकर्मा	ग्रा.कृ.वि.अ.	ग्रा.कृ.वि. अधि. मलहरा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
23	श्री कृष्ण कुमार	ग्रा.कृ.वि.अ.	अनुविभागीय	द्वितीय	सम्पूर्ण जिला के लिए

	चौरसिया,		अधिकारी कृषि लवकुशनगर	श्रेणी	
24.	श्री रामप्रसाद अहिरवार	पंचायत समन्वयक	जनपद पंचायत मलहरा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
25.	श्री मुकेश कुमार नगरिया	पी.सी.ओ.	जनपद पंचायत मलहरा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
26.	भगवत प्रसाद सूत्रकार	सहायक संचालक कृषि	उप संचालक कृषि विभाग छतरपुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
27.	श्री किशोरी लाल पटैरिया	ग्रा.कृ.वि.अ.	अ.वि.अ.कृषि विभाग बिजावर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए
28.	श्री जगदीश सिंह मुजाल्दा	सहायक संचालक	सहायक संचालक उद्यान छतरपुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला के लिए

हस्ता./-
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (निर्वाचन शाखा) दमोह

क्र.-एफ.-13-24(लोकसभा)-निर्वाचन-2024-374

दमोह, दिनांक 12 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024
विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में संशोधित प्रस्ताव
जिला-दमोह (MORO)

क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/सर्वग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	श्री. वी. प्रसाद खरे	अनुभाषा अधिकारी	लोक निर्माण विभाग उपभाग तेन्दूखेडा	लोक निर्माण विभाग	सेक्टर ऑफिसर संपूर्ण विधानसभा क्षेत्र जिला दमोह
2	श्री. सुदीप अजायरे	उपवर्ती	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा दमोह	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	
3	श्री. अरुण शर्मा	उपवर्ती	जल संसाधन विभाग दमोह	जल संसाधन विभाग	
4	श्री. इरफान बिलखार	पशु चिकित्सा सहा. शल्य अधिकारी	पशु चिकित्सा विभाग तेन्दूखेडा जिला दमोह	पशु चिकित्सा विभाग	
5	श्री. दीपक शर्मा	उपवर्ती	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी हटा जिला दमोह	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	
6	श्री. अमित शर्मा	उपवर्ती	मू-जल सर्वेक्षण इकाई जलसंसाधन विभाग दमोह	जलसंसाधन विभाग	
7	श्री. अमित शर्मा	उपवर्ती	पशु चिकित्सा सहा. शल्य अधिकारी	पशु चिकित्सा विभाग	
8	श्री. अमित शर्मा	सहायक निरीक्षक	सहकारिता विभाग दमोह	सहकारिता विभाग	
9	श्री. अमित शर्मा	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हटा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	
10	श्री. अमित शर्मा	निता कार्यरत अधिकारी	महिला एवं बाल विकास दमोह	महिला बाल विकास विभाग	
11	श्री. अमित शर्मा	उपवर्ती	म.प्र. ग्रामीण अड्डक विकास प्राधि. पी. आई. यू. दमोह	संस्कृत विकास प्राधिकरण	
12	श्री. अमित शर्मा	उपवर्ती	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी दमोह	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	
एफ.एस.टी. टीम (उड़न दस्ता दल)					
क्र. सं.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/सर्वग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	श्री. अमित शर्मा	सहायक विकासखंड प्रबंधक	जनपद पंचायत पथरिया	पंचायत विभाग	एफ.एस.टी. दल संपूर्ण जिला दमोह
2	श्री. अमित शर्मा	जिला सहायक	कियाण कल्याण कृषि विभाग दमोह	कियाण कल्याण कृषि विभाग	
3	श्री. अमित शर्मा	सहायक विकासखंड प्रबंधक	जनपद पंचायत दमोह	पंचायत विभाग	
4	श्री. अमित शर्मा	जिला सहायक	जनपद पंचायत दमोह	पंचायत विभाग	
5	श्री. अमित शर्मा	सहायक विकास विभाग अधिकारी	जनपद पंचायत दमोह	पंचायत विभाग	
6	श्री. अमित शर्मा	सहायक विकासखंड प्रबंधक	जनपद पंचायत जनेरा	पंचायत विभाग	
7	श्री. अमित शर्मा	जिला सहायक	जनपद पंचायत हटा	पंचायत विभाग	

दुर्गाव तारकाल		ए.एस.टी. (स्थैतिक निगरानी टीम)		क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यालयिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है	
अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/सर्वर का नाम	5	6
2	3	4	5	6	
श्री जयेश चंद्रिया	सहायक विकासखंड प्रबंधक	जनपद पंचायत पथरिया	पंचायत विभाग	ए.एस.टी. दल संपूर्ण जिला-दमोह	
श्री दीपक सोनी	सहायक लोक प्रबंधक	जनपद पंचायत जबरवा	पंचायत विभाग		
श्री अशोक वर्मा	विकासखंड समन्वयक	जनपद पंचायत तेन्दूखेडा	पंचायत विभाग		
श्री रामरत्न	सहायक विकासखंड प्रबंधक	जनपद पंचायत हटा	पंचायत विभाग		
श्री अजयकाश मिश्रा	सहायक विकासखंड प्रबंधक	जनपद पंचायत पट्टेरा	कृषि विभाग		
श्री अशोक सोहन	विकासखंड तकनीकी प्रबंधक	परियोजना संचालक आत्मा दमोह	पंचायत विभाग		
श्री अशोक राय	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	जनपद पंचायत दमोह	शिक्षा विभाग		
श्री अशोक राय	विकासखंड अकार्यात्मक समन्वयक	जनपद शिक्षा केन्द्र, दमोह	कृषि विभाग		
श्री अशोक कुमार पोद्दार	विकासखंड तकनीकी प्रबंधक	परियोजना संचालक आत्मा दमोह	कृषि विभाग		
श्री अशोक नाथलाल	एडीओ	कृषि विभाग, दमोह	पंचायत विभाग		
श्री अशोक मिश्रा	एडीओ	जनपद पंचायत जबरवा	पंचायत विभाग		
श्री अशोक कुर्मा	एडीओ	जनपद पंचायत जबरवा	पंचायत विभाग		
श्री अशोक मिश्रा	पंचायत समन्वयक अधिकारी	जनपद पंचायत जबरवा	पंचायत विभाग		

(मीना मसराम)

अपर कलेक्टर

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी

उप-जिला निर्वाचन अधिकारी

हस्ता./-

(मीना मसराम)

अपर कलेक्टर

एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रीवा, मध्यप्रदेश

क्र.-732-15-निर्वा.-कार्य.दण्डा.-2024

रीवा, दिनांक 11 अप्रैल 2024

लोकसभा आम निर्वाचन 2024-अतिरिक्त नियुक्त किये गये सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों FST को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

10-रीवा लोकसभा आम निर्वाचन, 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

स. क.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	श्री अंशुल नारायण प्रसाद	सहायक अभियंता	कार्यालय अभियंता (संचा/संधा) रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
2	श्री विमलेश मिश्रा	सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता (सं/सं.) रीवा वृत्त	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
3	श्री राकेश कुमार श्रीवास्तव	सहायक अभियंता	अधीक्षण यंत्री (सिविल)-1 म0प्र0 पा0 जं0क0 लि0 रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
4	श्री अतुल धर द्विवेदी	सहायक अभियंता	कार्यपालन अभियंता विद्युत वितरण ,गोडहर रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
5	श्री प्रशांत सिंह परिहार	सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता (सं/सं.) म0प्र0 पा0 जं0 क0 लि0 रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
6	श्री धर्मेन्द्र सिंह	सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता (सं/सं.) म0प्र0 पा0 जं0 क0 लि0 रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
7	श्री राजेश कुमार कुशावाहा	सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता (सं/सं.) म0प्र0 पा0 जं0 क0 लि0 रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
8	श्री अर्जुन सिंह	सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता (सं/सं.) म0प्र0 पा0 जं0 क0 लि0 रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
9	श्री आलोक कुमार मिश्रा	सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता (सं/सं.) म0प्र0 पा0 जं0 क0 लि0 रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
10	श्री ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह	सहायक अभियंता	कार्यपालन अभियंता (एस.टी.एम.एस.)पावर हाउस गल्ला मंडी अमहिया रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
11	श्री विनोद कुमार	सहायक अभियंता	कार्यपालन अभियंता सं0 संधा0 संभाग त्योंथर	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
12	श्री अमित कुमार सिंह	सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता (सं0/सं0) रीवा पावर हाउस गल्ला मंडी अमहिया रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
13	श्री अभय मिश्रा	सहायक अभियंता	मुख्य अभियंता (टीएचपी)म0प्र0 पा0 जं0 क0 लि0 रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
14	श्री अंकित मेश्राम	सहायक अभियंता	कार्यपालन अभियंता सं0 संधा0 संभाग त्योंथर	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
15	श्री विजय कुमार पाठक	सहायक अभियंता	मुख्य अभियंता (टीएचपी)म0प्र0 पा0 जं0 क0 लि0 रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
16	श्री अरुण कुमार ठाकुर	सहायक अभियंता	कार्यपालन अभियंता सं0/संधा0 मऊगंज रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
17	श्री संदीप कुमार सुनारिया	सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता (सं0/सं0)म0प्र0 पा0 जं0 क0 लि0 रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
18	श्री संतोष कुमार तिवारी	सहायक अभियंता	कार्यपालन अभियंता सं0/सं0 म0प्र0 नेहरू नगर रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
19	श्री लक्ष्मण डामोर	सहायक अभियंता	कार्यपालन अभियंता(संचा0/संधा0) रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला

17

20	श्री अनूप सिंह तिवारी	सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता (सं०/सं०)वि गृ 2 सिलपरा रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
21	श्री एस०एम० कुरैशी	सहायक अभियंता	अधीक्षण अभियंता (सं०/सं०)म०प्र० पा० ज० कं० लि० रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
22	श्री चन्द्रमणि भास्कर कुमार	सहायक अभियंता	कार्यपालन अभियंता शहर संभाग गल्ला मंडी के पास अमहिया रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
23	श्री राकेश सनोडिया	सहायक अभियंता	कार्यपालन अभियंता शहर संभाग गल्ला मंडी के पास अमहिया रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
24	श्री संजय कुमार गुप्ता	जूनियर इंजीनियर	कार्यपालन अभियंता सं०/संघा० संभाग त्योंथर	सेक्टर/3	सम्पूर्ण जिला
25	श्री रामकिशोर पटेल	जूनियर इंजीनियर	अधीक्षण यंत्री (सिविल)-3 म०प्र० रीवा	सेक्टर/3	सम्पूर्ण जिला
26	शिखा तिवारी	जूनियर इंजीनियर	कार्यपालन अभियंता शहर संभाग गल्ला मंडी के पास अमहिया रीवा	सेक्टर/3	सम्पूर्ण जिला
27	श्री नवीन कुमार तिवारी	जूनियर इंजीनियर	अधीक्षण यंत्री वि० सु० एवं उप मुख्य कला मंदिर रोड, बैंक आफ बड़ौदा रीवा	सेक्टर/3	सम्पूर्ण जिला
28	श्री शुभम कोरी	जूनियर इंजीनियर	अधीक्षण यंत्री वि० सु० एवं उप मुख्य कला मंदिर रोड, बैंक आफ बड़ौदा रीवा	सेक्टर/3	सम्पूर्ण जिला
29	श्री अभिषेक कुमार शुक्ला	कार्यपालन अभियंता	कार्यपालन अभियंता (एस.टी.एम.एस.)पावर हाउस गल्ला मंडी अमहिया रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
30	श्री दुर्गेश कुमार बेगा	कनिष्ठ अभियंता	अधीक्षण यंत्री (सिविल)-1 म०प्र० पा० जं०कं० लि० रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
31	श्री मिलन सिसोदिया	कनिष्ठ अभियंता	अधीक्षण यंत्री (सिविल)-1 म०प्र० पा० जं०कं० लि० रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
32	श्री पियूष चतुर्वेदी	कनिष्ठ अभियंता	कार्यपालन अभियंता सं./संघा० संभाग त्योंथर रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
33	डॉ० शोमोश कुमार मेश्राम	सहायक प्राध्यापक	पशु चिकित्सा विज्ञान एवं पशुपालन महाविद्यालय रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
34	श्री रविकर पाण्डेय	प्राचार्य	शासकीय उच्चतर माध्यम विद्यालय क०१ रीवा (म०प्र०)	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
35	श्री आर०पी० सिंह	अनुविभागीय अधिकारी	क्योटी नहर संभाग रीवा	सेक्टर/2	सम्पूर्ण जिला
36	श्री अमरीश द्विवेदी	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	खाद्य एवं औषधि प्रशासन रीवा	FST/3	सम्पूर्ण जिला
37	श्री इंद्रजीत सिंह	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	खाद्य एवं औषधि प्रशासन रीवा	FST /3	सम्पूर्ण जिला
38	श्री अमित तिवारी	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	खाद्य एवं औषधि प्रशासन रीवा	FST /3	सम्पूर्ण जिला
39	श्री शाबिर अली	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	खाद्य एवं औषधि प्रशासन रीवा	FST /3	सम्पूर्ण जिला
40	डॉ० बृजभान साकेत	प्राध्यापक	शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय रीवा	FST /2	सम्पूर्ण जिला
41	डॉ० आर.एन. तिवारी	प्राध्यापक	शास. टी.आर.एस. महाविद्यालय रीवा	FST/2	सम्पूर्ण जिला

हस्ता./-
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन सदन, जिला सीधी, मध्यप्रदेश

क्र.-1413-निर्वाचन-2024

सीधी, दिनांक 10 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारी को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिराके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	श्री संदीप देव पाण्डेय मो. 7705982249	सहा.प्राध्यापक (विधि)	शा.संजय गोंधी स्वशासी महा.वि. सीधी	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले अर्न्तगत
2	श्री विपिन सिंह मो.9452458746	सहा.प्राध्यापक (विधि)	शा.संजय गोंधी स्वशासी महा.वि. सीधी	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले अर्न्तगत
3	श्री पी.एल. कुशवाहा मो.8839418136	अनुविभागीय अधिकारी कृषि	कृषि विभाग सीधी	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले अर्न्तगत
4	श्री शिवम तिवारी मो.6267363037	सहायक यंत्री	पी.एच.ई.डी सीधी	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले अर्न्तगत
5	श्री वृजेन्द्र कुमार बुनकर मो. 9589524722	मण्डल संयोजक	जनजातीय कार्य विभाग	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले अर्न्तगत
6	श्री सतेन्द्र सिंह बागरी मो. 9560913240	सहायक यंत्री	पी.डब्लू. डी सीधी	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले अर्न्तगत

हस्ता./-

अपर कलेक्टर एवं
उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश

क्र.-1280-सा.निर्वा.-लो.स.-2024

सिंगरौली, दिनांक 10 अप्रैल 2024

लोक सभा निर्वाचन-2024
विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव
जिले का नाम - सिंगरौली

सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारी					
क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम	रिमांक	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	श्री अशुमान सिंह	उ०मा०शि०	शा०उत्कृ०उ०मा० वि०चितरंगी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
2	श्री आद्या पाण्डेय	उ०मा०शि०	शा०उ०मा०वि० कुशाही	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
3	श्री राजेन्द्र कुमार उपाध्याय	उ०मा०शि०	शा०उ०मा०वि० कन्या चितरंगी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
4	श्री बालेश्वर प्रसाद तिवारी	उ०मा०शि०	शा०उ०मा०वि० कन्या चितरंगी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
5	श्री रमा शंकर वैश्य	उ०मा०शि०	शा०उत्कृ०उ०मा० वि०चितरंगी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
6	श्री चन्द्र प्रताप त्रिपाठी	उ०मा०शि०	शा०उ०मा०वि० बर्दी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
7	श्री पदमाकर प्रसाद मिश्रा	उ०मा०शि०	शा०उ०मा०वि०सीएम०राईस में	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
8	श्री अमरेश चन्द पाठक	उ०मा०शि०	शा०उ०मा०वि०पोंडी बरगवों	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
9	श्री संदीप त्रिपाठी	उ०मा०शि०	शा०उ०मा०वि०गोरबी कालरी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
10	श्री राजेश्वर प्रसाद पाण्डेय	उ०मा०शि०	शा०उ०मा०वि० जयंत	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
11	डॉ. एस.डी.पाण्डेय	उ०मा०शि०	शा० मॉडल उ०मा०वि. बैढ़न	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
12	श्री राधेश्याम गुप्ता	उ०मा०शिक्षक	शा०उत्कृ०उ०मा०वि० वैढ़न	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
13	श्री अजय कुमार मिश्रा	उ०मा०शिक्षक	शा०उ०मा०वि०विन्ध्यनगर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
14	श्री अशोक कुमार मिश्रा	उ०मा०शिक्षक	शा०उ०मा०वि०कन्या वैढ़न	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
15	श्री शंकर प्रसाद कुशावाहा	उ०मा०शिक्षक	शा०उ०मा०वि०कचनी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
16	डॉ० गोविन्द बाथम	स०प्रा०	शा० महाविद्यालय माडा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
17	डॉ. राजेश धुर्वे	स०प्रा०	शा० महाविद्यालय माडा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
18	डॉ.गुलाम मोइद्दीन	स०प्रा०	शा० महाविद्यालय वैढ़न	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
19	श्री चन्द्रिका प्रसाद वैश्य	उ०मा०शि०	शा०उत्कृ०उ०मा०वि० वैढ़न	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
20	श्री अनिल कुमार त्रिपाठी	व्याख्याता	शा०उ०मा०वि०उत्कृ० वैढ़न	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
21	श्री संजय कुमार मिश्रा	उ०मा०शिक्षक	शा०उ०मा०वि०जयंत	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए
22	श्री अरूण कुमार दुवे	उ०मा०शि०	शा०उ०मा०वि० गडहरा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले क लिए

अधिकारी का नाम	पदनाम	विभाग का नाम	रिजर्व	सर्व प्रथम दिन सेनापति आयुर्विधि विभाग डी.डी.ए. प्र.प्र.डी. जिला प्रशासन
22. श्री अरवि कुमार शर्मा	उ०मा०शि०	शा०उ०मा०शि० खुटा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला ज.प्र.डी.
23. श्री राम मकल पटेल	प्राध्यापक	शा०उ०मा०शि० बरगवा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला ज.प्र.डी.
24. श्री यश कुमार तिवारी	उपप्राध्यापक	शा०उ०मा०शि०एन० राईज वि. बरगवा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला ज.प्र.डी.
25. श्री अरवि कुमार द्विवेदी	उ०मा०शि०	शा०उ०मा०शि०कन्या मण्डल	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला ज.प्र.डी.
26. श्री आम प्रकाश मिश्रा	उ०मा०शि०	शा०उ०मा०शि०मंडल वदतर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला ज.प्र.डी.
27. श्री सतीश कुमार शुक्ला	उ०मा०शि०	शा०कन्या उ०मा०शि०वदतर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला ज.प्र.डी.
28. श्री कमलेश्वर प्रसाद द्विवेदी	उ०मा०शि०	शा०उ०मा०शि०कन्या वदतर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला ज.प्र.डी.
29. श्री अजीत कुमार वर्मा	उ०मा०शि०	शा०उ०मा०शि०बरगवा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला ज.प्र.डी.
30. श्री गरुण कुमार गर्ग	उ०मा०शि०	हा०त०स्कूल जयत	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला ज.प्र.डी.
31. श्री राजेश उपाध्याय	उ०मा०शि०	शा०उ०मा०शि०विद्यालय वदतर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला ज.प्र.डी.
32. श्री युवराज कुम्हार	सहा प्राध्यापक	शा०नहा० बरगवा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला ज.प्र.डी.
33. श्री प्रवीण जायसवाल	उ०मा०शिक्षक	शा०क०उ०मा०शि० वदतर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला ज.प्र.डी.
34. श्री प्रभात कुमार तिवारी	उ०मा०शिक्षक	सी.एन.राईज वि. बरगवा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला ज.प्र.डी.
35. श्री दिलीप कुमार वैश्य	उ०मा०शिक्षक	सी.एन.राईज वि. बरगवा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला ज.प्र.डी.

हस्ता./-
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला अनूपपुर, मध्यप्रदेश

क्र.-856-सामा.-निर्वा.-2024

अनूपपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं।
1	2	3	4	5	6
1	डॉ. देवेन्द्र सिंह बागरी	सहायक प्रध्यापक	शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनुपपुर	राज्य संवर्ग	संपुर्ण जिला
2	श्री अजय राज सिंह राठौर	सहायक प्रध्यापक	शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनुपपुर	राज्य संवर्ग	संपुर्ण जिला
3	श्री शाहबाज़ खान	सहायक प्रध्यापक	शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनुपपुर	राज्य संवर्ग	संपुर्ण जिला
4	श्री ज्ञान प्रकाश पांडेय	सहायक प्रध्यापक	शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनुपपुर	राज्य संवर्ग	संपुर्ण जिला
5	डॉ. हीरा सिंह गोंड	सहायक प्रध्यापक	शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनुपपुर	राज्य संवर्ग	संपुर्ण जिला
6	श्री राजेंद्र कुमार पिवहरे	सहायक प्रध्यापक	शासकीय तुलसी महाविद्यालय अनुपपुर	राज्य संवर्ग	संपुर्ण जिला
7	राकेश कुमार पवार	सहायक प्रध्यापक	शासकीय महाविद्यालय कोतमा	राज्य संवर्ग	संपुर्ण जिला
8	नीरज जयसवाल	सहायक प्रध्यापक	शासकीय महाविद्यालय जैतहरी	राज्य संवर्ग	संपुर्ण जिला
9	गजेंद्र कुमार सिंह	सहायक प्रध्यापक	शासकीय महाविद्यालय जैतहरी	राज्य संवर्ग	संपुर्ण जिला
10	रामसजीवन धुर्वे	सहायक प्रध्यापक	शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़	राज्य संवर्ग	संपुर्ण जिला
11	हेमलाल देवांगन	सहायक प्रध्यापक	शासकीय महाविद्यालय पुष्पराजगढ़	राज्य संवर्ग	संपुर्ण जिला

हस्ता./-
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (सामान्य निर्वाचन), जबलपुर, मध्यप्रदेश

क्र.-1125-सामा.निर्वा.-सेक्टर म.-2024

जबलपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम - जबलपुर

सेक्टर अधिकारियों की सूची

स.क्र.	नियुक्त अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	अधिकारी का मोबाईल नंबर	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6	7
1	पंकज श्रीवास्तव,	वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी	किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग जबलपुर	9893304602	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
2	एल. के. बाटले,	उपायुक्त	उपायुक्त म. प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास धनवंतरी नगर	9406912025	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
3	पुनीत मरवाह	सहायक प्राध्यापक	शोभा सिंह यादव शासकीय महाविद्यालय पाटन जबलपुर	9425323716	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
4	श्री आर.डी. जर्हा	संयुक्त संचालक	संभागीय योजना एवं सांख्यिकी	9425485222	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
5	राजेन्द्र कुसुराम	राज्य कर अधिकारी	संभागीय उपयुक्त, वाणिज्य कर, संभाग - 1, धंटाधर जबलपुर	7869731772	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
6	विनीत रजक	महाप्रबंधक	जिला उद्योग एवं व्यापार केन्द्र जबलपुर	9424988321	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
7	सी.बी. मोहने	प्रभारी क्षेत्रिय प्रबंधक	मध्यप्रदेश मत्स्य महासंघ सहकारी मर्यादित जबलपुर	7999693221	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
8	अनिल कुमार पाटीदार,	सहायक यंत्री	क्षेत्रीय प्रबंधक म.प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम	9098392485	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
9	अजय कुमार नेमा	सहायक यंत्री	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जबलपुर विकास प्राधिकरण	9826493735	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
10	श्री वीरेन्द्र सिंह ठाकुर	सहायक यंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, जबलपुर संभाग जबलपुर	7389495588	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
11	डी के मित्तल	सहायक प्रबंधक	महाप्रबंधक म.प्र.ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण परि.क्रिया, ईकाई क्र. 2	9479694054	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला

स.क्र.	नियुक्त अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	अधिकारी का मोबाईल नंबर	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
12	संदीप कुमार जैन	कार्यपालन अभियंता	कार्यपालक निदेशक (परियोजना उत्पादन) म. प्र. पा. ज. क-जबलपुर	9425808575	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
13	अनिल गजभिये	सहायक प्रबंधक	म.प्र. सडक विकास प्राधिकरण जबलपुर	9826175353	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
14	संकल्प श्रीवास्तव,	कार्यपालन यंत्री	उप संचालक मिट्टी एवं धातु परीक्षण संभाग-जबलपुर, पचपेड़ी	9425824550	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
15	श्रीमती श्वेता तड़वे,	उपसंचालक	कार्यालय संयुक्त संचालक महिला बाल विकास जबलपुर	8770545767	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
16	मुदिता श्रीवास्तव	रसायनज्ञ	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय-जबलपुर	9425357188, 9340030241	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
17	डॉ त्रिलोक सिंह पटले	सहायक भौमिकीविद	संचालनालय भौमिकी तथा खनिकर्म, क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर	9575982371	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
18	श्री डालचंद्र राही,	सहायक प्राध्यापक	इंजीनियरिंग कालेज जबलपुर	9827215208	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
19	एलोरा चक्रवर्ती	कार्यपालन अभियंता	कार्यपालक निदेशक अभियांत्रिकी म प्र पा ज कं लि-जबलपुर	9425808672, 9424682702	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
20	भवन किशोर	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री गुणवत्ता नियंत्रण सं.क्र. 29	9754431155	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
21	आर हाड़गे	प्रशासनिक अधिकारी	निदेशक खरपतवार विज्ञान अनुसंधान निदेशालय आधारताल जबलपुर	9424704191	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
22	संजय अब्राहम	सहायक संचालक	महिला एवं बाल विकास विभाग	9425152779	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
23	सुरेश कुमार तेंकाम,	कार्यपालन यंत्री	अधीक्षण यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा मण्डल जबलपुर	8959525775	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला

स.क्र.	नियुक्त अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	अधिकारी का मोबाईल नंबर	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
24	मनीष कुमार दाहिया	कार्यपालन अभियंता	मुख्य अभि.(ईंधन प्रबंधन) संभाग म.प्र.पा ज.क.लि. ब्लॉक नं. 11 तृतीय तल शक्ति भवन जबलपुर	9425808582	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
25	सुनील कुमार पाण्डे	सहायक यंत्री	आयुक्त नगर निगम जबलपुर	8770329629	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
26	प्रभात तिवारी	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय कुण्डम	9425868939	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
27	श्री राजेश महोबिया	उपयंत्री,	कार्यालय कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर	9424626052	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
28	विनयकांत सोनवानी,	कृषि यंत्री	कृषि अभियांत्रिकी संभाग, आधारताल, जबलपुर	9893421277	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
29	अमन कुमार श्रीवास्तव	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 4 सिहोरा	8962239711	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
30	भूपेन्द्र सिंह,	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग सिहोरा	9165513750	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
रिजर्व	मनोज तिवारी	कार्यपालन अभियंता	कार्यपालक निदेशक (परियोजना उत्पादन) म. प्र. पा. ज. क -जबलपुर	9425806676	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
रिजर्व	सुनील कुमार तेकाम	कार्यपालन अभियंता	मुख्या अभियंता (उत्पा.भंडार) म प्र पा ज कं लि. जबलपुर	9425610245	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
रिजर्व	गोविंद सिंह गौर	कार्यपालन अभियंता	मुख्या अभियंता (उत्पा.भंडार) म प्र पा ज कं लि. जबलपुर	9425806468	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
रिजर्व	संजय गौतम	कार्यपालन अभियंता	मुख्य अभियंता (मा.संसा.एवं.प्रशा.) म प्र पा ज कं लि. जबलपुर	9575185734	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
रिजर्व	विकास कुमार शुक्ला	कार्यपालन अभियंता	मुख्य अभि.(ईंधन प्रबंधन) संभाग म.प्र.पा ज.क.लि. ब्लॉक नं. 11 तृतीय तल शक्ति भवन जबलपुर	9425806674	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला

स.क्र.	नियुक्त अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	अधिकारी का मोबाईल नंबर	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
रिजर्व	विष्णु डेहरीया	कार्यपालन अभियंता	मुख्य वित्तीय अधिकारी म प्र पा ज कं लि जबलपुर	9425806469	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
रिजर्व	सियाराम शर्मा	विधि अधिकारी	मुख्य अभियंता (मा.संसा. एवं प्रशा.) म प्र पा ट्रा कंपनी लि जबलपुर	9425801254	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
रिजर्व	ख्वाजा तबरेज चौधरी	उप निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी म प्र पा ट्रा कंपनी लि जबलपुर	9425805287	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
रिजर्व	राजेश भयारे	उप निदेशक	मुख्य वित्तीय अधिकारी म प्र पा ट्रा कंपनी लि जबलपुर	9425806934	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
स्थैतिक निगरानी दल (S.S.T)						
1	श्री राजीव कुमार सोनी,	सहायक अभियंता	अधीक्षण यंत्री (परी./संचा.) मप्रपाट्राकंलि. नयागांव जबलपुर	8871913636	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
2	श्री आर के नेमा,	सहायक अभियंता	कार्यपालन निदेशक (सिविल) म प्र पा ज कं लि जबलपुर	9425806484	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
3	श्री हीरालाल पटेल,	सहायक अभियंता	मुख्य अभियंता (योजना एवं रूपांकन) मप्रपाट्रा जबलपुर	9826656320	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
4	डॉ. दिनेश सिंह,	वैज्ञानिक,	कृषि विज्ञान केन्द्र जबलपुर	9407001304, 6261546761	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
5	श्री सैय्यद आजम अली,	सहायक अभियंता	अधीक्षण यंत्री (परी./संचा.) मप्रपाट्राकंलि. नयागांव जबलपुर	7089839450	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
6	श्री लोकेश कुमार श्रीवास्तव	लेखाधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी मप्रपाट्राकंलि.जबलपुर	9425805281	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
7	श्री मिथलेश सिंह	लेखाधिकारी	मुख्य वित्तीय अधिकारी मप्रपाट्राकंलि.जबलपुर	9425807265	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
8	श्री दिनेश सिंह राजपूत,	लेखाधिकारी	कार्यपालन निदेशक (वित्त एवं प्रशा.) म.प्र.पा.मे. जबलपुर	8510872207	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला

सं.क्र.	नियुक्त अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	अधिकारी का मोबाईल नंबर	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
9	श्री मुकेश बिडवाल,	लेखाधिकारी	कार्यपालन-निर्देशक (वित्त एवं प्रशा.) म.प्र.पा.मे. जबलपुर	9893723102	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
10	श्री संदीप जैन,	सहायक अभियंता	कार्यपालन निर्देशक (सिविल) म.प्र.पा.ज.कं.लि. जबलपुर	9425836958	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
11	श्री अशीष कुमार सिन्हा,	विकास अधिकारी	शाखा प्रभारी भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्या. सिहोरा	9039411403	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
12	श्री अरूण कुमार पटेल	प्रबंधक	एम.पी. इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लिमि. क्षेत्रीय कार्यालय उद्योग भवन जबलपुर	8076038946	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
13	श्री सत्यपति रावत	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर निर्माण वृत्त-2	9407333533	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
14	श्री अन्नीलाल उईके	वाणिज्यिक कर अधिकारी	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर निर्माण वृत्त-2	0424718295	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
15	श्री प्रकाश चंद साहू,	राज्य कर	अधिकारी वाणिज्यिक कर अधिकारी जबलपुर वृत्त-4	9425612011	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
16	श्री संग्राम सिंह करचुली,	विकास अधिकारी	शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय सिहोरा,	9425363260	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
17	श्री रवि सोनी,	विकास अधिकारी,	शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय सिहोरा	8349046672	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
18	श्री पल्लव बेंद्रे,	विकास अधिकारी,	शाखा प्रबंधक, भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय सिहोरा,	8770294093	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
19	श्री एसपी पाण्डेय	उपयंत्री	कार्या. कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यंत्री जबलपुर	9893504868	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
20	श्री बृजेश कुमार पटेल	विकास अधिकारी	शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा सिहोरा	9752141100	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला

स.क्र.	नियुक्त अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	अधिकारी का मोबाईल नंबर	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
21	श्री कौशल कुमार	पर्यवेक्षक	24/2222243	9424778554	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
22	श्री ललित कुमार श्रीवास	लेखा परीक्षक	15/2222234	6265695776	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
23	श्री वैभव साहू	प्रबंधक	मध्यप्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, जबलपुर	8519037752	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
24	श्री एस.एस. रघुवंशी	वरिष्ठ अनु. अधि.	संचालक राज्य वन अनुसंधान संस्थान जबलपुर	9826319273	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
25	श्री राजेश कुमार कौशले	सहायक प्रबंधक	एम.पी. इंडो डेव्लोपमेंट लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय उद्योग भवन जबलपुर	9826564716	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
26	डॉ. अजय गुप्ता	सह प्राध्यापक	वाणिज्य शासकीय महाविद्यालय पनागर जबलपुर	8827337599	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
27	श्री सत्यार्चन सिंह	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जबलपुर	8819948219	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
28	श्री सत्यम बालादित्य भलावी	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जबलपुर	8989055444	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
29	श्री रोहित पटेल	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जबलपुर	9131323337	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
30	श्री रविन्द्र कुमार चौधरी	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जबलपुर	7830996636	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
31	श्री मणिराज मिश्रा	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जबलपुर	9630223113	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
32	श्री अमित कुमार चतुर्वेदी	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जबलपुर	8963979293	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला

स.क्र.	नियुक्त अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	अधिकारी का मोबाईल नंबर	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
33	श्री जितेश सलामे	सहायक आंतरिक लेखा परीक्षण अधिकारी	संभागीय संयुक्त संचालक कोष एवं लेखा जबलपुर	8109378098	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
34	श्री आयुष महोबिया	विकास अधिकारी	शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय सिहोरा	9752667040	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
35	श्री पुरुषोत्तम सिंह तोकाम	प्रशासनिक अधिकारी	शाखा प्रबंधक भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय सिहोरा	9893640601	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
36	श्री रचित मिश्रा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वा.यांत्रिकी खण्ड जबलपुर दमोहनाका,	8770713099	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
37	श्री शैलेन्द्र कुमार साहू	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वा.यांत्रिकी मेकेनिकल खंड वेदीनगर	8770344343	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
38	श्री वीरेन्द्र कुचया	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा. सा.बाई तट. नहर संभाग - 2 बरगी हिल्स,	7000120154	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
39	श्री रितेश गुरु	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 2 पनागर,	8602333860	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
40	श्री मनोज कुमार वर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री वि/ या संभाग क्र 2 बरगी नगर	9479495826	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
41	श्री शैलेन्द्र प्रधान	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जबलपुर तहसीली चौक	9424658311	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
42	श्री संदीप जैन	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री वि/ या संभाग क्र 2 बरगी नगर	9425860844	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
43	श्री हंसराज दुबे	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री वि/ या संभाग क्र 2 बरगी नगर	9893302761	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
44	श्री राजेश कुमार लड़िया	उपयंत्री	उप संचालक मिट्टी एवं धातु परिक्षण संभाग-जबलपुर पचपेदी	7000506480	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला

स.क्र.	नियुक्त अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	अधिकारी का मोबाईल नंबर	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रवृत्त की जाना प्रस्तावित है।
45	श्री सुरेश कुमार शर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री रा.अ.बा. सा.बाई तट नहर संभाग - 2 बरगी हिल्स]	9826522177	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
46	श्री राजा राम रोहित	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री रा .अव.बा. सा. बांया.मैसनरी बांध- जबलपुर बरगी नगर	9424659240	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
47	श्री एबी शर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री हिरन जल संसाधन संभाग जबलपुर पचपेढी	9826154029	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
48	श्री नीरज	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री गुणवत्ता नियंत्रण सं. क्र . 29 बरगी हिल्स	9425160519	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
49	श्री एस के गुप्ता	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लो.स्व.यांत्रिकी खण्ड जबलपुर दमोहनाका	9425159661	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
50	श्री प्रमोद कुमार गालखेडे	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग क्र 4 बरगी हिल्स जबलपुर	9826188302	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला
उड़नदस्ता दल (F.S.T.)						
1	श्री पुरुषोत्तम पाण्डेय	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	सहायक आयुक्त वाणिज्यिक कर निर्माण वृत्त-2,	9425181558	राज्य सेवा संवर्ग	सम्पूर्ण जिला

हस्ता./-
संयुक्त कलेक्टर
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, मण्डला, मध्यप्रदेश

क्र.-लो.स.निर्वा.-2024-1003

मण्डला, दिनांक 10 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम-- मण्डला

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
1	श्री तेजसिंह वर्मा	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा कमांक-02	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
2	श्री जोशुआ पीटर	अति.मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जिला पंचायत मण्डला	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
3	श्री प्रमोद भोंडेकर	उपयंत्री	जनपद पंचायत विछिया	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
4	श्री सतीश हरदाहा	उपयंत्री	जनपद पंचायत मवई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
5	श्री मनोज कुमार परते,	उपयंत्री	जनपद पंचायत विछिया	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
6	श्री प्रदीप पाठक	विकासखण्ड प्रबंधक	एन.आर.एल.एम	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
7	हरेसिंह परते	विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी	जिला शिक्षा केन्द्र	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
8	श्री साहेबलाल सूर्यवंशी,	सहायक विकासखण्ड प्रबंधक	एन.आर.एल.एम	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
9	श्री मुकेश डोहरे	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
10	श्रीमति लक्ष्मी रजक	सहायक विकासखण्ड प्रबंधक	एन.आर.एल.एम	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
11	श्री प्रसन्न झारिया	विकासखण्ड प्रबंधक	एन.आर.एल.एम.	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

12	श्री श्री बुधसेन तिवारी	कार्यवाहक	उपवनक्षेत्रपाल परिक्षेत्र टिकरिया (सा.)	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
13	श्रीमति सरस्वती नीखर	सहायक विकासखण्ड प्रबंधक	एन.आर.एल.एम	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
14	श्रीमति पूजा शर्मा	सहायक विकासखण्ड प्रबंधक	एन.आर.एल.एम	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
15	श्री राकेश कुमार झारिया	सहायक विकासखण्ड प्रबंधक	एन.आर.एल.एम	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
16	श्री मनमोहन अहिरवार	सहायक विकासखण्ड प्रबंधक	एन.आर.एल.एम	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
17	श्रीमति शालिनी तिवारी	परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास विभाग	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
18	श्री संजीव तिग्गा	सहायक विकासखण्ड प्रबंधक	एन.आर.एल.एम	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
19	श्री अशोक कुमार भलावी	कृषि वि.अधिकारी	सहायक संचालक कृषि	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
20	श्री संतरी लाल वरकडे	सहायक विकासखण्ड प्रबंधक	एन.आर.एल.एम	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
21	श्री विवेक कुमार झारिया,	सहायक उपनिरीक्षक	कृषि उपज मंडी	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
22	श्री नवलसिंह मरावी	सहायक उपनिरीक्षक	कृषि उपज मंडी	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
23	श्री मोहन सिंह परस्ते	पंचायत समन्वयक अधिकारी	जनपद पंचायत नारायणगंज	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
24	श्री महेन्द्र उइके	पंचायत समन्वयक अधिकारी	जनपद पंचायत मोहगांव	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
25	श्री राजकुमार यादव	सहायक विकासखण्ड प्रबंधक	एन.आर.एल.एम	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

26	श्री मोहनलाल पन्द्रो	पंचायत समन्वयक अधिकारी	जनपद पंचायत नारायणगंज	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
27	श्री एस.के.राजौरिया,	मानचित्रकार	जल संसाधन विभाग	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
28	श्री द्वारका प्रसाद चीचाम	ब्लाक समन्वयक	जनपद पंचायत मवाई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
29	श्री दीपक बाजपेई	सहायक विकासखण्ड प्रबंधक	एन.आर.एल.एम.	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
30	श्री फूलचंद मरावी	पंचायत समन्वयक अधिकारी	जनपद पंचायत घुघरी	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
31	श्री दीपक भारतीया	समग्र सा.सु.पे. अधिकारी	जनपद पंचायत	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
32	श्री पारस चौरसिया	उपयंत्री	जनपद पंचायत घुघरी	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
33	श्री हामिद खान खोरखर	बी.ए.सी.	जिला शिक्षा केंद्र	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
34	श्री मोहनसिंह मरावी	वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी	सहायक संचालक उद्यान	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
35	श्री कृष्ण चन्द्र पटैल	बी.ए.सी.	जिला शिक्षा केंद्र	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
36	श्री सुरेश मर्सकोले	राजस्व निरीक्षक	तहसील कार्यालय नारायणगंज	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
37	श्री संतोष मेश्राम	ब्लाक समन्वयक	जनपद पंचायत नारायणगंज	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
38	श्री संजय जोशी	विकासखण्ड समन्वयक अधिकारी	जनपद पंचायत मोहगांव	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
39	श्री राकेश उइके	पंचायत समन्वयक अधिकारी	जनपद पंचायत	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
40	श्री राजेश कुमार विश्वकर्मा	बी.ई.ओ.	जिला शिक्षा केंद्र	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
41	श्री राजू मरावी	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत मण्डला	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

42	श्री हेमराज कोरी	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत नैनपुर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
43	श्री राजेन्द्र बुरडे	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत नैनपुर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

हस्ता./-
(सलोनी सिडाना)
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बालाघाट, मध्यप्रदेश

क्र.-743-सामा.निर्वा.-सेक्टर-2024

बालाघाट, दिनांक 11 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में संशोधित प्रस्ताव

जिले का नाम :- बालाघाट

स. क.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	श्री ललित टेकाम	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्या. वरि.कृ.वि.अधि. बिरसा	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
2	श्री संदीप कुमार गेड़ाम,	सहायक प्राध्यापक	डॉ.एस.एस.एन.शासकीय महाविद्यालय मलाजखण्ड	सेक्टर अधिकारी/2	सम्पूर्ण जिला
3	सुश्री पूनम पटले,	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिरसा	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
4	श्री पप्पू सिंह	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी,	कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी परसवाड़ा	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
5	डॉ. श्रीमती दीपरत्ना मासूलकर	सहायक प्राध्यापक	शासकीय अरण्य भारती महाविद्यालय बैहर,	सेक्टर अधिकारी/2	सम्पूर्ण जिला
6	श्री धनेन्द्र बघेल	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्यालय वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी बिरसा	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
7	श्री गगनदीप उईके	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्या. वरि.कृ.वि.अधिकारी लांजी	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
8	श्री अतुल तुरकर	प्रशिक्षण अधिकारी,	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किरनापुर	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
9	श्री विशाल कौडापे	प्रशिक्षण अधिकारी,	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लांजी	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
10	श्री रूपदास उपवनसी,	सुपरवाइजर,	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
11	श्री आशीष पटेल	प्रशिक्षण अधिकारी	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लांजी	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
12	श्री संजय कुमार जंधेला	प्रशिक्षण अधिकारी,	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लांजी	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
13	श्री आशीष ठाकुर	प्रशिक्षण अधिकारी	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था लांजी	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
14	श्रीमती पदमावती परते	परियोजना अधिकारी	कार्या0 जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास बालाघाट	सेक्टर अधिकारी/2	सम्पूर्ण जिला
15	श्री विनोद कुमार पारधी,	प्रशिक्षण अधिकारी,	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था किरनापुर	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
16	श्री अमीरचंद पटले,	सुपरवाइजर	कार्या0 मु.चि.एवं स्वा. अधिकारी. बालाघाट	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
17	श्री खेमराज मरावी,	खण्ड पंचायत अधिकारी	जनपद पंचायत परसवाड़ा	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला

16	श्री प्रवीण कुमार पटेल	सहायक सत्री	वैनगंगा रांभाग बालाघाट	सेक्टर अधिकारी/2	सम्पूर्ण जिला
19	श्री नीरज विश्वकर्मा	स्वास्थ्य सुरक्षा अधिकारी	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी बालाघाट	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
20	श्री नेवरलाल उर्के	मलेरिया इंस्पेक्टर	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बालाघाट	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
21	श्री नरेश सोलखे	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय लालबर्वा	सेक्टर अधिकारी/2	सम्पूर्ण जिला
22	श्री प्रदीप कुमार गजभिरे	सहायक प्राध्यापक	शासकीय कमला नेहरू कन्या महाविद्यालय बालाघाट	सेक्टर अधिकारी/2	सम्पूर्ण जिला
23	डॉ. चंद्रशेखर कट्टे	सहायक प्राध्यापक	शास. महाविद्यालय लामता, बालाघाट	सेक्टर अधिकारी/2	सम्पूर्ण जिला
24	श्री प्रवीण पन्ने	सहायक प्राध्यापक	शासकीय शंकरसाव पटेल महाविद्यालय बारासिवनी	सेक्टर अधिकारी/2	सम्पूर्ण जिला
25	श्री नवीन कोरट	फिडा अधिकारी	शासकीय रानी अवंतीबाई महाविद्यालय खैरलांजी	सेक्टर अधिकारी/2	सम्पूर्ण जिला
26	श्री भीवेन्द्र धुर्वे	सहायक प्राध्यापक	शासकीय राजागोज महाविद्यालय कटंगी	सेक्टर अधिकारी/2	सम्पूर्ण जिला
27	श्री एस.के. अब्दूल शमीम	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय खैरलांजी	सेक्टर अधिकारी/2	सम्पूर्ण जिला
28	श्री विशेष बांगडे	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्यालय वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी कटंगी	सेक्टर अधिकारी/3	सम्पूर्ण जिला
29	श्री नरेन्द्र कुमार परते	उपयंत्री	जनपद पंचायत बिरसा	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
30	श्री सुदर्शन बाल ओडरे	ग्रथपाल	शा.महा.परसवाड़ा	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
31	श्री आनंद कुमार पटले	ग्रा.उ.वि.अधि.	सहायक संचालक उद्यानिकी बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
32	श्री बालेश्वर अमूले	ग्रा.उ.वि.अधि.	सहायक संचालक, उद्यानिकी बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
33	श्री राजेन्द्र कुमार गनवीर	उपवनक्षेत्रपाल	वन विभाग बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
34	श्री वरमेश कुमार मेरावी	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्यालय सहायक संचालक, उद्यान बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
35	श्री योगेश वाहने	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्या.उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
36	श्री ललित गेडाम	पंचायत सगन्धय अधिकारी	कार्या.जनपद पंचायत किरनापुर	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
37	श्री विजय कुमार भलावी	वनपाल	वनगंडलाधिकारी, द.उ. वनगंडल बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
38	श्री दिनेश लिहारे	उपयंत्री	जनपद पंचायत किरनापुर	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
39	श्री विजय कुमार	उपवनक्षेत्रपाल	रांभागीय प्रबंधक लागता	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
40	श्री दिनेश रामटेके	उपवनक्षेत्रपाल	रांभागीय प्रबंधक, लागता	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला

41	श्री दुर्गा सिंह उईके	सहा.पशुचिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाये बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
42	श्री अरविंद परते	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाये बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
43	श्री एस.एल.उईके	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्या0उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
44	श्री मदनशाह वरकडे	उपवनक्षेत्रपाल	उ.सा.वनमंडल बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
45	श्री एस.के.खोन्नागडे	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्या0उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
46	श्री सुरेन्द्र चिचखेडे	उपवनक्षेत्रपाल	संभागीय प्रबंधक, लामता	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
47	श्री अशोक कुमार मेश्राम	सहा0उप निरीक्षक	कृषि उपज मंडी वारासिवनी	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
48	श्री गजानंद मेश्राम	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्या0उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
49	श्री विजय कुमार मेश्राम	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्या0उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
50	श्री शारदा प्रसाद ब्रम्हे	उपवनक्षेत्रपाल	द.सा.वनमंडल बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
51	श्री युगलकिशोर गेडाम	उपवनक्षेत्रपाल	द.सा.वनमंडल बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
52	श्री संतकुमार डहेरिया	सचिव	कृ.उ.मं.समिति कटंगी	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
53	श्री अरुण कुमार जैन	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्या0उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
54	श्री पवन कुमार स्वामी	उपयंत्री	ग्रा.या.सेवा उपसंभाग बालाघाट	प्रभारी अधिकारी FST/3	सम्पूर्ण जिला
55	श्री एम.डी.मेश्राम	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्या0उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
56	श्री डी.पी.मेरावी	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्या0उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
57	श्री यशवंत लिल्हारे	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाये बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
58	श्री दिनेश मरावी	प्रशिक्षण अधिकारी	शा.औ.प्र.सं. पालडोंगरी	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
59	श्री विनय प्रकाश बागडे	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्या0उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
60	श्री कमलेश कुमार भालाधरे	पंचायत समन्वयक अधिकारी	जनपद पंचायत लांजी	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
61	श्री सितेश खंडवाहे	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाये बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
62	श्री लक्ष्मी नारायण उईके	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाये बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
63	श्री राघोलाल हरदे	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाये बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला

64	श्री राजकुमार अहिरवार	अधिकारी उपयंत्री	जनपद पंचायत परसवाड़ा	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
65	श्री डी.के.नंदागौली	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्यालय उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
66	श्री एस.के.मड़के	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्यालय उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
67	श्री आर.के.पाटिल	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्यालय उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
68	श्री सुनिल कुमार बागडे	कृ.वि.अधि.	कार्यालय उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
69	श्री उत्तम रंगारे	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्यालय उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
70	श्री श्यामराव मर्सकोले	ग्रा.उ.वि.अधि.	सहायक संचालक उद्यानिकी बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
71	श्री जागेन्द्र वासनिक	मंडल संयोजक	विकासखंड अधिकारी परसवाड़ा	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
72	श्री आर.पी.मर्सकोले	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्यालय उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
73	श्री देवराज बेलेकर	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्यालय उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
74	श्री रामेश्वर पांचे	सहायक उपनिरीक्षक	कृ.उ.मंडी समिति कटंगी	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
75	श्री अनिल कुमार नखाते	ग्रा.उ.वि.अधि.	सहायक संचालक उद्यानिकी बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
76	श्री नितेश परानी	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कार्यालय उपसंचालक कृषि बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
77	श्री सत्येन्द्र सिरसाम	सहायक पशु.चि.क्षे. अधि.	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाये बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
78	श्री भरतलाल नारनौरे	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत खैरलांजी	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
79	श्री दुर्गाप्रसाद मनघटे	सहायक मत्स्य अधिकारी	उप संचालक मत्स्योद्योग बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
80	श्री दिगंबर सिंह	उपयंत्री	जनपद पंचायत कटंगी	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
81	श्री विकास साहू	किड़ा अधिकारी	शा.संकरसाव महा. वारासिवनी	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
82	श्री आशीष सहारे	उपयंत्री	जनपद पंचायत लांजी	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला
83	श्री नागेन्द्र सिंह धुर्वे	उपयंत्री	कार्या. कार्यपालन यंत्री ग्रा. या.सेवा.बालाघाट	प्रभारी अधिकारी SST/3	सम्पूर्ण जिला

हस्ता./-
(गिरीश कुमार मिश्रा)
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश

पत्र क्र.-1005-लोसनि 2024-सेक्टर

नरसिंहपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2024

संशोधित पत्र

लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव
जिले का नाम - नरसिंहपुर

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	रोया/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिले के लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	रश्मि बोहरे	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास गोटेगांव	द्वितीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
2	अमृता अग्रिहोत्री	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी विभाग गोटेगांव	द्वितीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
3	श्री आनंद गोल्हानी	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग, नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
4	श्री पुनीत लिटोरिया	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
5	श्री राजकुमार चौबे 9826104188	सहा. जिला वाणिज्यिक कर अधिकारी नरसिंहपुर	कार्यालय वाणिज्यिक कर अधिकारी नरसिंहपुर	द्वितीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
6	श्रीमति सुनीता यादव	जिला खेल अधिकारी	जिला खेल एवं युवा कल्याण विभाग नरसिंहपुर	द्वितीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
7	श्री अभिषेक दुवे	उपसंचालक	गन्ना विभाग नरसिंहपुर	द्वितीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
8	श्री रामकृष्ण लोधी	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
9	श्री अतिशेखर जैन	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
10	डॉ. संजय मांझी	व्हीईओ	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाये नरसिंहपुर	द्वितीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
11	श्री अनुपम मेहरा	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला

12	डॉ. श्रीमति पूनम दोहरे	पशु चिकित्सा सहायक शलज	कार्यालय पशु चिकित्सालय गाडरवारा	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
13	श्री शुबम पटेल	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
14	श्री एच.एस.भुल्लर	उपयंत्री	लाईट मशीनरी एवं विद्युत यांत्रिकी, गाडरवारा	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
15	श्री बी.डी.कोष्टी	सहायक प्राध्यापक	शास.ठाकुर निरंजन सिंह महाविद्यालय, गोटेगांव	द्वितीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
16	श्री संजय दुबे	सहकारिता निरीक्षक	कार्यालय सहकारिता विभाग नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
17	श्री राजेन्द्र सिंह राजपूत	क्रीडा अधिकारी	शास.ठाकुर निरंजन सिंह महाविद्यालय, गोटेगांव	द्वितीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
18	श्री अर्पित सक्सेना	क्रीडा अधिकारी	शास.पी.जी.कालेज नरसिंहपुर	द्वितीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
19	श्री भूपेन्द्र मर्सकोले	उपयंत्री	म.प्र.ग्रामीण सडक विकास प्राधिकरण नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
20	श्री मोहम्मद सलीम महमद	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
21	श्री सतीश बैस, सहायक	सहायक प्राध्यापक	शास.पी.जी.कालेज नरसिंहपुर	द्वितीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
22	श्री शैलेन्द्र कोल	प्राचार्य	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तेंदूखेडा	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
23	डॉ. दीपक लाल कुमार	पशु चिकित्सा सहायक शलज	कार्यालय पशु चिकित्सालय नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
24	डॉ. श्रैया दुबे	पशु चिकित्सा सहायक शलज	कार्यालय पशु चिकित्सालय करेली	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
25	डॉ. दीपेन्द्र पटेल	पशु चिकित्सा सहायक शलज	कार्यालय पशु चिकित्सालय सालीचीका	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
26	श्री प्रीतम सिंह.गोड	खण्ड विस्तार प्रशिक्षक	कार्यालय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गोटेगांव	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
27	श्री पवन पटेल	कृषि विस्तार अधिकारी	कार्यालय कृषि विभाग, गोटेगांव	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
28	श्री आशीष सोनी	प्रशिक्षण अधिकारी	शास. आईटीआई गोटेगांव	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
29	श्री शिवनारायण झरिया	पंचायत समन्वयक	जनपद पंचायत गोटेगांव	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला

30	श्री श्री.पी.मेहरा	ग्रामीण विस्तार अधिकारी	कृषि	कार्यालय कृषि विभाग गोटेगांव	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
31	श्री जहरसिंह ठाकुर	पंचायत सलंगन	सचिव	जनपद पंचायत गोटेगांव	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
32	श्री मुकेश कुमार धुर्वे	प्रशिक्षण अधिकारी		शासकीय आईटीआई नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
33	श्री तुलाराम ठाकुर	पंचायत समन्वय अधिकारी		जनपद पंचायत नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
34	श्री आशीष पटेल	उपयंत्री		जनपद पंचायत चावरपाठा	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
35	श्री द्वारिकाप्रसाद मेहरा	पंचायत समन्वयक		जनपद पंचायत साईखेडा	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
36	श्री अमित चौहान	ग्रामीण विस्तार अधिकारी	कृषि	कृषि विभाग	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
37	आशीष नेमा	उपयंत्री		लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
38	श्री प्रीतम सिंह मुडिया	पंचायत समन्वयक अधिकारी		जनपद पंचायत गोटेगांव	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
39	श्री राजेश कुमार	उपयंत्री		जनपद पंचायत गोटेगांव	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
40	श्री फागूलाल मेहरा	पंचायत समन्वयक अधिकारी		जनपद पंचायत नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
41	श्री तेजराम डेहरिया	उपयंत्री		जिला पंचायत नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
42	श्री राजकिशोर चौबे	उपयंत्री		जिला पंचायत नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
43	श्री शिवराम उइके	पंचायत समन्वयक अधिकारी		जनपद पंचायत चावरपाठा	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
44	श्री कुलदीप श्रीवास्तव	उपयंत्री		वाटरशेड जनपद पंचायत चावरपाठा	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
45	श्री अंकित श्रीवास्तव	प्रशिक्षण अधिकारी		शासकीय आईटीआई गोटेगांव	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
46	श्री संजय गुप्ता	उपयंत्री		ग्रामीण यांत्रिकी सेवा नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
47	श्री धर्मेन्द्र जाट	सहायक विकासखण्ड प्रबंधक		एनआरएलएम नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला

48	श्री प्रदीप धुर्वे	उपयंत्री		लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग नरसिंहपुर	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
49	श्री परसराम ठाकुर	प्रशिक्षण अधिकारी		शासकीय आईटीआई तेन्दूखेडा	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला
50	श्री संतलाल डेहरिया	उपयंत्री		जनपद पंचायत साईखेडा	तृतीय वर्ग	सम्पूर्ण जिला

हस्ता./-
अपर कलेक्टर
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला छिंदवाड़ा, मध्यप्रदेश

क्र.-लो.स.निर्वा.-2024-1082

छिन्दवाड़ा, दिनांक 9 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव
जिते का नाम -छिंदवाड़ा

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/सर्वग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
1	श्री दयानंद डेहरिया	उपवन क्षेत्रपाल	पूर्व वनमंडल छिंदवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
2	श्री कीर्तिराज सिंह ठाकुर	वनपाल	पूर्व वनमंडल छिंदवाड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
3	श्री राजेश साहू	पंचायत समन्वयक अधिकारी	मुख्य कार्य. अधिकारी हरई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
4	श्री कमल सिंह ठाकुर	कराधान सहायक	वाणिज्यिक कर अधिकारी छिंदवाड़ा वृत्त 2	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
5	श्री अशोक माधुर	वनपाल	पश्चिम वनमंडल	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
6	श्री जितेन्द्र सिंह	वनरक्षक	उपवनमंडल सौसर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
7	श्री कौशल लवानिया	वनरक्षक	उपवनमंडल सौसर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
8	श्री दिनेश कुमार	वनरक्षक	उपवनमंडल सौसर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
9	श्री ज्ञानेश्वर अनेराव	सहायक विकास अधिकारी	जनपद पंचायत सौसर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
10	श्री शंख सज्जन कुरेशी	वनरक्षक	उपवनमंडल सौसर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
11	श्री रविन्द्र सोनकुवर	ग्रा.रो.सहा.	जनपद पंचायत सौसर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
12	श्री अरविंद चटप	ग्रा.रो.सहा.	जनपद पंचायत सौसर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
13	श्री प्रवीण राजुलकर	ग्रा.रो.सहा.	जनपद पंचायत सौसर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
14	श्री शिवशंकर बोबडे	ग्रा.रो.सहा.	जनपद पंचायत सौसर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
15	श्री सुनिल रागसे	ग्रा.रो.सहा.	जनपद पंचायत सौसर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
16	श्री गुणवता रूपचंद वासनिक	ग्रा.रो.सहा.	जनपद पंचायत सौसर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
17	श्री पी के माकडे	एव्हीएफओ	पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
18	श्री राजेश कुमार	एडीईओ	जनपद पंचायत पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
19	श्री एस आर झलके	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
20	श्री मनोहर उडके	एव्हीएफओ	पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
21	श्री रत्नाकर शोकडे	पंचायत समन्वयक अधिकारी	जनपद पंचायत पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
22	श्री रामदास साहू	एडीईओ	जनपद पंचायत पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
23	श्री चतरुलाल सलामे	उपवन क्षेत्रपाल	परिक्षेत्र पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
24	श्री व्ही आर घाघरे	एव्हीएफओ	पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
25	श्री दिलीप दुपारे	एव्हीएफओ	पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
26	श्री बी पी. कोराईक	एव्हीएफओ	पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

	श्री रमेश कुमार गौतम	वनपाल	परिक्षेत्र पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
28	श्री केशरशाह वाडिवा	वनपाल	परिक्षेत्र पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
29	श्री शंकर सिरसाम	एड्डीएफओ	पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
30	श्री गया प्रसाद अहिरवार	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
31	श्री रामदास वाडिवा	वनपाल	परिक्षेत्र पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
32	श्री आर एस पाटनकर	पी.सी.ओ.	जनपद पंचायत पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
33	श्री प्रहलाद सोनेकर	वनपाल	परिक्षेत्र पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
34	श्री एस के रेवतकर	एड्डीएफओ	पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
35	श्री रवि सिंह बैस	सहायक मानचित्रकार	जलसंसाधन उप संभाग पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
36	श्री राहुल सरियाम.	कृषि विस्तार अधिकारी	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
37	श्री विनोद लोखंडे.	कृषि विस्तार अधिकारी	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
38	श्री गुलाब राव धूर्ते.	कार्यवाहक वनपाल	परिक्षेत्र पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
39	श्री शोख वाहिद खान	पंचायत समन्वयक अधिकारी	जनपद पंचायत चौरई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
40	के के बागडे	सहायक संचालक.	म.प्र. हस्तशिल्प विकास अधिकारी सौंसर	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
41	श्री ठाकुर प्रसाद घोरमारे.	अनुविभागीय अधिकारी	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सौंसर	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
42	श्री एन के चौधरी	जे ई	स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परासिया	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
43	श्री तेजसिंह गौतम	उपयंत्री	नगरपालिका पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
44	श्री पकज दामने	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छिन्दवाडा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
45	श्री सुनिल गजभिए	कृषि विस्तार अधिकारी	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी पांडुर्णा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
46	श्री अजय गिरी	ग्रंथपाल	शासकीय महाविद्यालय लोधीखेड़ा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
47	सुश्री नेहा धूर्ते	मुख्य नगर पालिका अधिकारी	नगर पालिका परिषद जुन्नारदेव	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

हस्ता./-
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, बैतूल, मध्यप्रदेश

क्र.-ईएल-2024-2157

बैतूल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के अतिरिक्त प्रस्ताव

जिला- बैतूल

अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/ संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिले के लिये विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है	
2	3	4	5	6	
श्री पर अधिकारियों के लिए -					
1	श्री प्रकाश नागले	ग्रंथपाल	शासकीय महाविद्यालय मुलंताई	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
2	श्री कुलदीप रजोरिया	वनक्षेत्रपाल	वनमंडल उत्पादन बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
3	कु. श्यामलता मरावी	वनक्षेत्रपाल	कार्यआयोजना बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
4	श्री खुशाल सिंह बघेल	वनक्षेत्रपाल	कार्यआयोजना बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
5	श्री नितेश कुमार	वनक्षेत्रपाल	वन विद्यालय बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
6	श्री ए.पी. शर्मा	सहायक यंत्री	लो. स्वा. यां. शाहपुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
एस.एस.टी. के लिए -					
7	श्री देवेश पंवार	प्रशिक्षण अधिकारी	आई.टी.आई. बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
8	श्री राजेश उइके	प्रशिक्षण अधिकारी	आई.टी.आई. बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
9	श्री विनोद कुमार धुर्वे	उपयंत्री	आर.ई.एस. बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
10	श्री नत्थूलाल यादव	वनपाल	वनमंडलाधिकारी उत्तर (सामान्य) बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
11	श्री ओमप्रकाश उइके	ग्रा.कृ.वि. अधि.	शा. कृषि प्र. क्षेत्र गुदगांव भैंसदेही	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
पी.एस.टी. के लिए -					
12	श्री भीम धोटे	माध्यमिक शिक्षक	जनशिक्षा केन्द्र बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
13	श्री आनंद झोड़	ब्लॉक समन्वयक	जनपद पंचायत शाहपुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
14	श्री सचिन पाखले	उपयंत्री	जनपद पंचायत भैंसदेही	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
15	श्री विजय प्रकाश नागले	पंचायत समन्वयक अधिकारी	जनपद पंचायत आठनेर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए
ए.एस.टी. के लिए -					
16	श्री नितीश शर्मा	वन क्षेत्रपाल	वन विद्यालय बैतूल	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिले के लिए

हस्ता./-
(नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी)
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला हरदा, मध्यप्रदेश

क्र.-1291-लो.स.2024-SO-2024

हरदा, दिनांक 10 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024 सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

लोकसभा निर्वाचन 2024						
विशेष कार्यपालिक दंडाधिकारियों की शक्तियों प्रदत्त करने के संबंध में अतिरिक्त प्रस्ताव						
सफक्र०	जिले का नाम	हरदा	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दंडाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	श्री बलवत पटेल	सहायक संचालक शिक्षा हरदा	शिक्षा विभाग हरदा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिला हरदा	
2	श्री संजय इवॉने	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हरदा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिला हरदा	
3	श्री अखिलेश चावरे	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा हरदा	तृतीयश्रेणी	संपूर्ण जिला हरदा	
4	श्री रोशन चौधरी	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	पशु चिकित्सा विभाग हरदा	तृतीयश्रेणी	संपूर्ण जिला हरदा	
5	श्री ललित गुर्जर	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	पशु चिकित्सा विभाग हरदा	तृतीयश्रेणी	संपूर्ण जिला हरदा	
6	श्री जितेन्द्र पटेल	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	पशु चिकित्सा विभाग हरदा	तृतीयश्रेणी	संपूर्ण जिला हरदा	
7	श्री दीपक पटेल	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	पशु चिकित्सा विभाग हरदा	तृतीयश्रेणी	संपूर्ण जिला हरदा	
8	श्री निखिल खडक	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	पशु चिकित्सा विभाग हरदा	तृतीयश्रेणी	संपूर्ण जिला हरदा	
9	श्री कमलेश कुमार सलामे	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	पशु चिकित्सा विभाग हरदा	तृतीयश्रेणी	संपूर्ण जिला हरदा	
10	कु. शीतल तैकाम	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी	पशु चिकित्सा विभाग हरदा	तृतीयश्रेणी	संपूर्ण जिला हरदा	
11	रीचा चक्रधर	सहायक प्रबंधक	उद्योग विभाग	तृतीयश्रेणी	संपूर्ण जिला हरदा	

हस्ता./-
(आदित्य सिंह)
कलेक्टर एवं
जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश

क्र.-901-23-भा.निर्वा.-2024

रायसेन, दिनांक 11 अप्रैल 2024

आगामी लोक सभा निर्वाचन 2024 सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम : रायसेन

क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	संवर्ग का नाम	विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1.	श्री अमन चौरसिया	ADEO	जनपद पंचायत, उदयपुरा	स्थाई	सम्पूर्ण जिला
2.	श्री भुज्जीलाल मीणा	पंचायत समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत, गैरतगंज	स्थाई	सम्पूर्ण जिला

हस्ता./-

उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (सा.निर्वा.), जिला विदिशा, मध्यप्रदेश

क्र.-एस-4-निर्वा.सा.-2024-1851

विदिशा, दिनांक 11 अप्रैल 2024

आगामी लोक सभा निर्वाचन 2024 हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

"अतिरिक्त/संशोधित प्रस्ताव"

वि.स.क्षेत्र का नाम एवं क्र.	सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारी के कार्य हेतु लगाये गए अधिकारी/कर्मचारी की संख्या (रिजर्व सहित)	SST टीम की संख्या	SST के कार्य हेतु लगाये गए अधिकारी/कर्मचारी की संख्या	VST टीम की संख्या	VST के कार्य हेतु लगाये गए अधिकारी/कर्मचारी की संख्या	FST टीम की संख्या	FST के कार्य हेतु लगाये गए अधिकारी/कर्मचारी की संख्या	SST, FST & VST रिजर्व हेतु अधि./कर्म. की संख्या
144-विदिशा	08	03	03	01	01	03	05	00
145-बासौदा	05	03	06	01	01	03	09	00
146-कुरवाई	03	03	01	01	00	03	00	00
147-सिरोंज	00	03	02	01	00	03	01	05
148-शमशाबाद	01	03	00	01	00	03	04	00
योग :-	17	15	12	05	02	15	19	05

“लोकसभा निवोचन 2024”
सेक्टर ऑफिसर को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में
अतिरिक्त/संशोधित प्रस्ताव

जिले का नाम – विदिशा

स. क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं।
1	2	3	4	5	6
// संसदीय क्षेत्र-18 विदिशा, विधानसभा क्षेत्र 144-विदिशा //					
1	श्री नरेन्द्र सिंह	जिला प्रबंधक	म.प्र. वेयर हाउस एवं लॉजिस्टिक कार्पो. विदिशा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
2	श्री सोनम गोयल	उप पंजीयक	पंजीयन विभाग विदिशा	तृतीय श्रेणी	
3	सुश्री नीलम रजक	उपयंत्री	नगरपालिका परिषद विदिशा	तृतीय श्रेणी	
4	श्री बलभद्र सिंह मीना	बी.आर.सी.	जनपद शिक्षा केन्द्र विदिशा	तृतीय श्रेणी	
5	श्रीमती नील कमल	सचिव	कृषि उपज मण्डी समिति विदिशा	तृतीय श्रेणी	
6	श्रीमती पारूल जैन	जिला संयोजक	आदिम जाति कल्याण विभाग विदिशा	द्वितीय श्रेणी	
7	श्री इमरत सिंह आर्य	निरीक्षक प्रभारी अधीक्षक	पिछड़ा वर्ग बालक छात्रावास विदिशा	तृतीय श्रेणी	
8	श्री रौनक शेंडे	उपयंत्री	पी.एच.ई. मैकेनिकल उपखण्ड विदिशा	तृतीय श्रेणी	
// संसदीय क्षेत्र-18 विदिशा, विधानसभा क्षेत्र 145-बासौदा //					
1	श्री ओ.पी. धुर्वे	सहायक प्राध्यापक	कृषि महाविद्यालय बासौदा	द्वितीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
2	श्री संजीव कुमार अहिरवार	प्रशिक्षण अधिकारी	शा.औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था बासौदा	तृतीय श्रेणी	
3	श्री रामफूल अहिरवार	सहायक प्राध्यापक	कृषि महाविद्यालय बासौदा	द्वितीय श्रेणी	
4	डॉ.के.के.पाण्डेय	वरिष्ठ पशु चिकित्सा शल्यज्ञ	उप संचालक कार्यालय पशु चिकित्सालय विदिशा	द्वितीय श्रेणी	
5	डॉ. राजमोहन शर्मा	सहायक प्राध्यापक	कृषि महाविद्यालय बासौदा	द्वितीय श्रेणी	
// संसदीय क्षेत्र-05 सागर, विधानसभा क्षेत्र 146-कुरवाई (अ.जा.) //					
1	श्री नीतेश ठाकुर	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत कुरवाई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
2	श्री वेदप्रकाश सिंह नरवरिया	सहायक प्राध्यापक	शासकीय महाविद्यालय विदिशा	द्वितीय श्रेणी	
3	श्री प्रताप सिंह शाक्य	सहायक कृषि यंत्री	कृषि अभियांत्रिकी विभाग विदिशा	द्वितीय श्रेणी	
// संसदीय क्षेत्र-05 सागर, विधानसभा क्षेत्र 148-शमशाबाद //					
1	श्री एच.एस. नामदेव	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग नटेरन	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

“लोकसभा निर्वाचन 2024”

“ FST, SST & VST को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में अतिरिक्त/संशोधित “प्रस्ताव”

जिले का नाम – विदिशा

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं।
1	2	3	4	5	6
// संसदीय क्षेत्र-18 विदिशा, विधानसभा क्षेत्र 144 विदिशा //					
(F.S.T.)					
1.	श्री नीरज चतुर्वेदी	जनशिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र विदिशा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
2.	श्री अतुल साहू	जनशिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र विदिशा	तृतीय श्रेणी	
3.	श्री अखलेश सेन	जनशिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र विदिशा	तृतीय श्रेणी	
4.	श्री हेमन्त घोटे	ए.डी.ई.ओ.	जनपद पंचायत विदिशा	तृतीय श्रेणी	
5.	श्री अशोक श्रीवास्तव	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केन्द्र विदिशा	तृतीय श्रेणी	

(S.S.T.)					
1.	श्री सिराज	जनशिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र विदिशा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
2.	श्री रामरतन मालवीय	साक्षरता सह समन्वयक	धमनोदा	तृतीय श्रेणी	
3.	श्री अनमोल चावला	उपयंत्री	ग्रा.यांत्रिकी सेवा विदिशा	तृतीय श्रेणी	

(V.S.T.)					
1.	श्री कप्तान सिंह कुशवाह	उपयंत्री	सम्राट अशोक सागर संभाग-2 विदिशा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

// संसदीय क्षेत्र-18 विदिशा, विधानसभा क्षेत्र 145 बासौदा //

स. क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं।
1	2	3	4	5	6
(F.S.T.)					
1.	श्री नीतेश मेहता	जनशिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र बासौदा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
2.	श्री हेमंत कुलकर्णी	जनशिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र बासौदा	तृतीय श्रेणी	
3.	श्री प्रकाश दीक्षित	जनशिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र बासौदा	तृतीय श्रेणी	
4.	श्री बलवीर सिंह दांगी	जनशिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र बासौदा	तृतीय श्रेणी	
5.	श्री राजेश कुमार दांगी	प्रशिक्षण अधिकारी	आई.टी.आई. बासौदा	तृतीय श्रेणी	
6.	श्री महेन्द्र गौड़	जनशिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र बासौदा	तृतीय श्रेणी	
7.	श्री नारायण सिंह यादव	वनपाल	वन परिक्षेत्र ग्यारसपुर	तृतीय श्रेणी	
8.	श्री नेतराम गौर	जनशिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र बासौदा	तृतीय श्रेणी	
9.	श्री नरेन्द्र नामदेव	जनशिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र बासौदा	तृतीय श्रेणी	

(S.S.T.)					
1.	श्री अशोक गौर	वनपाल	वन परिक्षेत्र बासौदा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
2.	श्री शंभू सिंह अहिरवार	मा.शिक्षक	मा.शाला डफरयाई	तृतीय श्रेणी	
3.	श्री महेन्द्र ठाकुर	वन रक्षक	वन परिक्षेत्र ग्यारसपुर	तृतीय श्रेणी	
4.	श्री संजय तोमर	जनशिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र बासौदा	तृतीय श्रेणी	
5.	श्री लाखाराम सेन	जनशिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र ग्यारसपुर	तृतीय श्रेणी	
6.	श्री देवेन्द्र शर्मा	जनशिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र ग्यारसपुर	तृतीय श्रेणी	
(V.S.T.)					
01.	श्री कृष्णपाल लोधी	जन शिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र बासौदा	तृतीय श्रेणी	

// संसदीय क्षेत्र-05 सागर, विधानसभा क्षेत्र 146 कुरवाई (अजा) //

(S.S.T.)					
1.	श्री दिनेश बाघमारे	जन शिक्षक	जनपद शिक्षा केन्द्र कुरवाई	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए

// संसदीय क्षेत्र-05 सागर, विधानसभा क्षेत्र 147 सिरोंज //					
F.S.T./S.S.T.					
1.	श्री बरनावत तिग्गा	उ.मा.शिक्षक	शा.उ.मा.वि. चाठौली	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
2.	श्री गजराजसिंह मीना	प्राचार्य	हाई स्कूल जावती	द्वितीय श्रेणी	
3.	श्री रमेश कुमार किरार	बी.आर.सी.	जनपद शिक्षा केन्द्र सिरोंज	तृतीय श्रेणी	
4.	श्री कोमलचंद्र अहिरवार	उपयंत्री	सर्वशिक्षा अभियान ज.शि.केन्द्र लटेरी	तृतीय श्रेणी	
5.	श्री विष्णु साहू	उ.मा.शि.	उ.मा.वि.आनंदपुर, लटेरी	तृतीय श्रेणी	
6.	श्री जितेन्द्र मालवीय	उपयंत्री	सर्वशिक्षा अभियान ज.शि.केन्द्र सिरोंज	तृतीय श्रेणी	
7.	श्री अरविंद रघुवंशी	नर्सरी अधीक्षक	नर्सरी भटोली	तृतीय श्रेणी	
8.	श्री संतोष जैन	प्राचार्य	हाईस्कूल बरेज	तृतीय श्रेणी	

// संसदीय क्षेत्र-05 सागर, विधानसभा क्षेत्र 148 शमशाबाद //

स. क्रं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/ संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं।
1	2	3	4	5	6
F.S.T./S.S.T.					
1.	श्री जी.गिरवाल	वरि.उद्या.वि.अधि.	उद्यान विभाग नटेरन	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
2.	श्री फतेह सिंह चौहान	मण्डी सचिव	कृषि उपज मण्डी शमशाबाद	तृतीय श्रेणी	
3.	श्री प्रमोद भेश्राम	राजस्व निरीक्षक	तहसील कार्यालय शमशाबाद	तृतीय श्रेणी	
4.	श्री अभिषेक जैन	कृषि वि.अधि.	कृषि विभाग नटेरन	तृतीय श्रेणी	

हस्ता./-
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश

क्र.-1619-सामान्य निर्वाचन-2024

भोपाल, दिनांक 15 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन -2024

विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम-भोपाल

स.क्र.	ऑफिसर का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री अतुल सिंह	सहायक यंत्री	संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास मध्यप्रदेश	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
2	श्री आर पी सिंह	संयुक्त संचालक	संचालनालय महिला एवं बाल विकास म0प्र0, विजयाराजे वात्सल्य भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
3	श्री पंकज लाहोटी	परियोजना अधिकारी	महिला एवं बाल विकास भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
4	श्री एस.सी. वर्मा	कार्यपालन यंत्री	प्रमुख अभियंता, लो.नि.वि. निर्माण भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
5	श्रीमती कल्याणी दुबे	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन उप संभाग बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
6	श्री अभित प्रताप सिंह	सहायक संचालक	कृषि उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि डी ब्लॉक पुराना सचिवालय	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
7	डा. एस.के. मिश्रा	उप संचालक	संचालनालय आयुष मध्यप्रदेश	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
8	श्री सुनील कटारे	सहायक संचालक	आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय म0प्र0, भूतल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
9	श्री अरवि कुमार चौरगड़े	संयुक्त संचालक	लोक शिक्षण सम्राट अशोक माध्यमिक शाला	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
10	श्री के के पबिया	सहायक संचालक	कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्री विकास योजनायें	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
11	श्री मनोज बाथम	उप संचालक	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन संशक्तिकरण संचालनालय म0प्र0, पत्रकार कालोनी, लिंक रोड नं.3,	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
12	श्री भगवान दास भूमरकर	उप संचालक	संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास शिवाजी नगर	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये

13	श्री अरविंद दयाल शर्मा	प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
14	श्री संजय कुमार जेन	सहायक प्रबंधक लेखा	क्षेत्रलय प्रबंधक मतस्य महासंघ प्रकोष्ठ	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
15	श्री आर एस कटारा	अपर संचालक	संचालनालय सीनीय निधि संपरीक्षा : म0प्र0, प्रकोष्ठ भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
16	श्रीमती मंगला पुरकाम	असि. रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ म0प्र0, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
17	श्री जी एस चौहान	प्रभारी संयुक्त संचालक	संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विकास, विन्ध्याचल भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
18	श्री धमेन्द्र कोष्ठा	संयुक्त संचालक	मध्यप्रदेश स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डवलप्मेंट कार्पोरेशन लि.	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
19	श्री मनोज अग्रिहोत्री	उप संचालक	मध्यप्रदेश राज्य कोषल विकास गैस राहत आई.टी.आई. बिल्डिंग भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
20	श्री चन्द्रशेखर बागोरा	उप संचालक	प्रधान मुख्य वनसंरक्षक वन भवन तुलसी नगर भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
21	श्री प्रवीण शूरकर	सहायक संचालक	जनजाति कार्य विभाग मध्यप्रदेश	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
22	श्री विश्वजीत रायकवार	संयुक्त संचालक	आर्थिक एवं सांख्यिकीय संचालनालय	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
23	श्री एम जे कुरैशी	असि. रजिस्ट्रार	रजिस्ट्रार, फर्म्स एवं संस्थाएँ म0प्र0, प्रथम तल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
24	श्री विनोद सिंह	संयुक्त संचालक	आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ म0प्र0, विन्ध्याचल भवन, भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
25	श्रीमती सविता ठाकुर	संयुक्त संचालक	मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
26	श्री ओ पी कतिया	संयुक्त संचालक	मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
27	श्री बालाराम मेहरा	प्रबंधक	दि मध्यप्रदेश माइनिंग कार्पोरेशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
28	श्री अनुराग श्रीवास्तव	कार्यपालन यंत्री	लोक स्वास्थ्य यात्रिकी विभाग	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
29	श्री ओ0पी0 झा	उप संचालक	संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म.प्र.	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
30	श्री सतीश कुमार बाथम	सहायक आयुक्त	कार्यालय सहायक आयुक्त	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
31	श्री पी.एल. घागरे	कार्यपालन यंत्री	मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड किसान भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये

32	श्रीमती मंगलेश सिंह	उप संचालक	संभागीय संयुक्त संचालक महिला ए 35 राजीव गांधी भवन परिसर	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
33	सुश्री विअंका धानपुने	कार्यपालन यंत्री	संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0, शिवाजी नगर,	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
34	श्री ओ पी झा	उप संचालक	संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0, शिवाजी नगर,	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
35	श्रीमती निलोफर	उप संचालक	संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास म0प्र0, शिवाजी नगर,	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
36	श्री बी एस सोलंकी	अपर आयुक्त	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, अरेरा हिल्स, भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
37	श्री आलोक तिवारी	कार्यपालन यंत्री	विंध्याचल भवन भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
38	श्री आलोक अग्रवाल	कार्यपालन यंत्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
39	श्री राजेश कुमार दुबें	कार्यपालन यंत्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
40	श्री शैलेश कुमार जैन	कार्यपालन यंत्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता भोपाल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
41	श्री भारत सुमन शर्मा	संयुक्त संचालक	संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
42	श्री एस.के. तोमर	सहायक यंत्री	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन अरेरा हिल्स भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
43	श्रीमती शिरीन बेगम खान	प्रभारी कार्यपालन यंत्री	प्रमुख अभियंता (भवन), लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
44	श्रीमती अनिमा टोप्पो	उप संचालक	आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय म0प्र0, भूतल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
45	श्रीमती प्रेमा खाखा	संयुक्त संचालक	आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय म0प्र0, भूतल, विन्ध्याचल भवन, भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
46	श्री शैलेन्द्र वर्मा	अपर आयुक्त	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, पर्यावास भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
47	श्री राजकुमार सोनी	संयुक्त संचालक	क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधी किसान भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
48	श्री सरदार सिंह वर्मा	कार्यपालन यंत्री सिविल	कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन अरेरा हिल्स	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
49	श्री मनोज कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालन यंत्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता भोपाल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
50	श्री राजेन्द्र गुप्ता	कार्यपालन यंत्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग निर्माण भवन अरेरा हिल्स	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये

51	सजीव कुमार गुप्ता	कार्यपालन यंत्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता भोपाल लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
52	श्री मुकेश खरे	सहायक यंत्री	प्रमुख अभियंता लो.स्वा. यांत्रिकी विभाग जल भवन बाणगंगा	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
53	श्री एम के साहू	उपायुक्त	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं म.प्र. अधोसंरचना विकास मण्डल 2	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
54	श्री पी के पाण्डे	उपायुक्त	कार्यालय आयुक्त, जनजातीय कार्य	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
55	श्रीमती सुधा चन्द्रावत	सहायक आयुक्त	कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्री विकास योजनाएं, राजीवगांधी परिसर	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
56	श्री दीपक चौरसे	सहायक संचालक	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय म0प्र0	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
57	श्री शैलेन्द्र वर्मा	अपर आयुक्त	मध्यप्रदेश- गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, अरेरा हिल्स, भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
58	श्री सुनील शर्मा	सहायक संचालक	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय म0प्र0,	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
59	श्री अनिमेष चौरिसाया	सहायक संचालक	क्षेत्रीय कार्यालय स्थानीय निधी संपरीक्षा	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
60	श्री बालचंद टेन्टवाल	कार्यपालन यंत्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता लोक निर्माण विभाग भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
61	श्री अनिल कुमार पिपरे	कार्यपालन यंत्री	प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
62	श्री दिनेश ठाकुर	सहायक संचालक	उद्योग संचालनालय चतुर्थ तल विन्ध्याचल भवन भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
63	श्री धनसिंह ठाकुर	संयुक्त संचालक	आदर्श आई.टी.आई. गोविन्दपुरा	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
64	श्री सतेन्द्र सिंह तोमर	सहायक संचालक	संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य संस्करण	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
65	श्री अभिषेक गुप्ता	सहायक संचालक	पंचायत-राज्य संचालनालय	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
66	श्री पनमचन्द्र गोलवशी	उप संचालक	कार्यपालन यंत्री ई.वि.या.विशिष्ट सेवा संभाग भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
67	श्री पंकज विजय वर्गीय	कार्यपालन यंत्री	प्रमुख अभियंता लोक स्वा. यांत्रिक विभाग जल भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
68	श्री हरीश खरे	उप संचालक	संचालनालय महिला एवं बाल विकास मध्यप्रदेश विजयराजे वात्सल्य भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
69	सुश्री आकांक्षा सिंह	असिस्टेंट कमिश्नर	कार्यालय स्टेट टेक्स भोपाल डीविजन 1	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
70	श्री शानु मैश्राम	सहायक संचालक	संचालनालय उद्यानिकी तथा खाद्य संस्करण	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये

71	श्रीमती दिव्यानी बिल्लौरै	कार्यपालन यंत्री	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
72	श्रीमती किरण भाबोर	कार्यपालन यंत्री	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, तुलसी नगर	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
73	डॉ० अमिताभ अवस्थी	संयुक्त संचालक	संचालनालय महिला एवं बाल विकास म०प्र०, विजयाराजे वात्सल्य भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
74	श्रीमती अरुणा सैनी	कार्यपालन यंत्री	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
75	श्री आर के खुराना	कार्यपालन यंत्री	प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
76	श्री हरीश वैद्य	अनुभाग अधिकारी	मैलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
77	श्री सौरभ तिवारी	सहायक संचालक	सामाजिक न्याय एवं दिव्याजन लिंक रोड भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
78	श्री कृष्णदास गुप्ता	सहायक संचालक	सामाजिक न्याय एवं दिव्याजन लिंक रोड भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
79	श्री नितेश शर्मा	सहायक यंत्री	बौधी जल संसाधन विभाग	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
80	श्री अमन मांडलिक	सहायक यंत्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग तुलसी नगर	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
81	श्री श्रीराम वर्डकर	प्रभारी सहायक यंत्री	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचा. म०प्र० विन्ध्याचल भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
82	श्री प्रदीप कुमार वर्मा	परियोजना प्रशासक	खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण संचालनालय म०प्र० विन्ध्याचल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
83	श्री रामविलास सेमिल	सहायक संचालक	सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण संचालनालय	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
84	श्री एम पी रघुवंशी	उप संचालक	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण, नर्मदा भवन, अरेरा हिल्स भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
85	श्री वीरेन्द्र सिंह	सहायक आयुक्त	कार्यालय आयुक्त, जनजाति क्षेत्री विकास योजनायें, राजीवगांधी परिसर, श्यामला हिल्स, भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
86	श्री पंकज श्रीवास्तव	कार्यपालन यंत्री	भोपाल विकास प्राधिकरण भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
87	श्री नीरज व्यास	कार्यपालन यंत्री	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण नर्मदा भवन भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
88	श्री देवेन्द्र सिंह	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी उप खण्ड बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
89	श्री रमेश कुमार	उपयंत्री	कार्यालय विकास खण्ड स्रोत केंद्र बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये

90	श्री धर्मन्द्र रामटेक	स.उ.नि.	कृषि उपज मण्डी समिति बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
91	श्री राजेश राज	पंचा. स. अधि.	जनपद पंचायत बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
92	श्री पदम सिंह गोयल	कृषि विकास अधि.	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि डी ब्लॉक	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
93	श्री प्रदीप आचार्य	उपयंत्री	मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प. आर. आर. एन एम.एम.यू. बिल्डिंग वाल्मी	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
94	श्री आरिफ खान	सीएसी	जनपद शिक्षा केन्द्र बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
95	श्री रूपेन्द्र त्रिपाठी	स.उ.नि.	कृषि उपज मण्डी समिति बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
96	श्री प्रवीण लोखण्डे	उपयंत्री	जनपद पंचायत बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
97	श्री अरविन्द सिंह	स.उ.नि.	कृषि उपज मण्डी समिति बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
98	श्री जे पी गुप्ता	सहायक यंत्री	एम.पी.इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
99	श्री राम अयोध्या प्रसाद अहिरवार	वि.ख. शि. अधिकारी	कार्यालय वि.ख. बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
100	डॉ. जयंत तपासे	सहायक संचालक	संयुक्त संचालक राज्य पशु चिकित्सा कैंपस	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
101	श्री कुलदीप शर्मा	सहायक संचालक कृषि	संचालनालय किसान कल्याण तथा कृषि विध्याचल भवन भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
102	श्री प्रभात दाते	संयुक्त संचालक	संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा से सूरज नगर	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
103	श्री विष्णु पांडेय	भू. सं. सर्वे	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी उप. सहायक भूमि अधिकारी उप संभाग	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
104	श्री संजीव कुमार स्वर्णकार	उपयंत्री	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाए द. सूरज नगर	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
105	श्री नर्मदाप्रसाद गोहिया	उपयंत्री	जल संसाधान संभाग	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
106	श्री वासुदेव प्रसाद राठौर	उपयंत्री	वॉटर रिसॉर्स डिवीजन भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
107	श्री रविन्द्र कुमार श्रीवास्तव	उपयंत्री	वॉटर रिसॉर्स डिवीजन भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
108	श्री अंकुर गौस्वामी	उपयंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री राजधानी परियोजना खण्ड कमांक 02 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी कोलार रोड भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
109	श्री बी डी लालवानी	सहा. सांख्यिकी अधिकारी	संभागीय योजना एवं सांख्यिकी	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
110	श्री अशोक कुमार मिश्रा	वरिष्ठ उद्यान विकास अधिकारी	सहायक संचालक उद्यान प्रमुख उद. शाशकीय गुलाब उद्यान	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये

111	श्री बालेश्वर सिंह	ग्रामीण उद्यान विस्तार	सहायक संचालक उद्यान प्रमुख शासकीय गुलाब उद्यान लिंक रोड	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
112	श्री आशीष पालीवाल	सहायक प्रबंधक	उद्योग संचालनालय चतुर्थ तल विंध्याचल भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
113	श्री एम के द्विवेदी	सहायक संचालक	उद्योग संचालनालय, चतुर्थ तल विंध्याचल भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
114	श्री नितेन्द्र सिंह ठाकुर	उपयंत्री	जनपद पंचायत फंदा, जनपद पंचायत फंदा	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
115	श्री द्वारका प्रसाद अहिरवार	उपयंत्री	वाटर रिसोर्स सब डिवीजन भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
116	श्री सुशील वर्मा	उपयंत्री	कार्यपाल यंत्री, नर्मदा विकास	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
117	श्री राजेश कुमार गुप्ता	उपयंत्री	जल संसाधन संभाग भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
118	श्री आयुतोष यादव	उपयंत्री	जल संसाधन संभाग भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
119	श्री प्रदीप मालवीय	ब्याख्याता	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
120	श्री एस के झरवरे	उपयंत्री	प्रमुख अभियंता कार्यालय, जल संसाधन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
121	श्री अनिल कुमार	वाणिज्यिकर अधिकारी -	विस्तार कार्यालय वाणिज्यिकर एवं राज्य कर भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
122	श्री दिलीप राठौर	सहा.वाणिज्यिक अधि.	विस्तार कार्यालय वाणिज्यिकर एवं राज्य कर भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
123	श्री रविकांत साल्वे	सहायक अभियंता	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी महाविद्यालय	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
124	श्री राम किशोर नामदेव	एपीसी	कार्यालय जिला शिक्षा केन्द्र भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
125	श्री जगदीश चन्द्र रायकवार	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	क्षेत्रीय संचालक स्वा सेवाए भ. किलोल पार्क	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
126	श्री विकास गौर	उप प्रबंधक तकनीकी	अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
127	श्री ओमप्रकाश कुशवाह	उप प्रबंधक, स्टेट	अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
128	श्री महफूज अहमद खान	उपयंत्री	जल संसाधन संभाग भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
129	श्री लक्ष्माण सिंह	उपयंत्री	म.प्र. गृह नि. एवं अधोसंरचना वि. सेटलाइट प्लाजा अयोध्या नगर भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
130	श्री सुरेश कुमार झारिया	सहायक संचालक	पंचायत राज संचालनालय, म.प्र. भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
131	श्री सतीश कुमार	क्रीडा अधिकारी	शासकीय डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्ज	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
132	श्री निरज चतुर्वेदी	उपयंत्री	कोलार परियोजना उप संभाग कं.09	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
133	श्री राजेन्द्र प्रसाद महेशवरी	उपयंत्री	वाटर रिसोर्स बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये

134	डॉ. विरेन्द्र कुमार चौरसिया	प्राचार्य	जिला शिक्षा केन्द्र भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
135	श्री प्रवीण केवटे	उपयंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.स्वा. यां.	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
136	श्री अदित्य गर्ग	उपयंत्री राजपत्रित	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
137	श्री संजय कुमार रघुवंशी	उपयंत्री	जल संसाधान संभाग भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
138	श्री अतुल निपांगे	उप संचालक	म0प्र0 राज्य कृषिविणन बोर्ड	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
139	श्री अशोक गायकवाड	उपयंत्री	आयुक्त जनजातीय कार्य विकास मध्य, द्वितीय तल सतपुड़ा भवन भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
140	श्री प्रेम कुमार पाण्डेय	उपायुक्त	आयुक्त जनजातीय कार्य विकास मध्य, द्वितीय तल सतपुड़ा भवन भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
141	श्री पीएन सोलंकी	वरिष्ठ व्याख्याता	सरदार बल्लव भाई पॉलिटेक्निक श्यामला हिल्स	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
142	श्री अरविन्द कुमार गुप्ता	उपयंत्री	मुख्य वास्तविद मध्यप्रदेश लोक, अरेरा हिल्स भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
143	श्री संजय कुमार जैन	उपयंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री गैस, ई5 अरेरा कॉलोनी	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
144	श्री अंकित कुमार मोर्य	सहायक अनुसंधान अधिकारी	नर्मदा बेसिन संगठन, केंद्रिय, भूतल पर्यावास भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
145	श्री सीमांत सक्सेना	सहायक आयुक्त	विस्तार कार्यालय वाणिज्यिक एवं राज्यकर भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
146	श्री राजेंद्र कुमार भार्गव	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	उप संचालक किसान कल्याण तथा कृषि ब्लॉक पुराना सचिवालय	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
147	श्री प्रवीण सिंह भाटी	सहायक संचालक	आयुक्त जनजातीय कार्य विकास मध्य	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
148	श्री दीपेंद्र सूर्यवंशी	उपयंत्री	मध्य प्रदेश निर्माण एवं अधोसर, गोमाटिका परिसर	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
149	श्री राजेंद्र चौहान	उपयंत्री	मध्य प्रदेश निर्माण अधोसर, गोमाटिका	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
150	श्री संदीप बरगले	उपयंत्री सिविल	कार्यपालन यंत्री, नया भोपाल, जवाहर चौक	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
151	श्री मृत्युंजय सिंह	मुख्य सतर्कता सह विधि सलाहाकार	म.प्र.गृह निर्माण एवं अद्योसंरचना विकास मण्डल चतुर्थ तल पर्यावास भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
152	श्री गुलाब राव कोडापे	सहायक यंत्री	कार्यालय प्रमुख अभियंता ग्रामीण यॉ. सेवा	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
153	श्री अरुण कुमार निगम	सहायक संचालक	कार्यालय आयुक्त अनुसूचित जाति ए राजीव गाँधी भवन,	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
154	श्री अतुल शाक्य	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, लो.म. एवं वि. कोलान कॉलोनी	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
155	श्री पुष्पेंद्र कुमार जैन	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, निर्माण संभाग, ई-5 अरेरा कॉलोनी	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
156	श्री राहुल यदवंशी	सहा. यंत्री सिविल	अधीक्षण यंत्री, लोक निर्माण वि.	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये

157	श्री अभिषेक झा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री वी.या. भरी मश, नर्मदा भवन के पीछे	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
158	श्री पृथ्वी राज	सह. अनुसंधान अधि.	आदिमजाति अनुसंधान विकास संस्था,	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
159	श्री सतीश चन्द्र जैन	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, संभाग भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
160	श्री प्रभात सिंह ठाकुर	सहायक संचालक	संचालनालय महिला एवं बाल विकास, विजयाराजे वातसत्य भवन, अरेश	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
161	श्री संदीप बरगले	उपयंत्री सिविल	कार्यपालन यंत्री, नया भोपाल संभाग	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
162	श्री धीरेन्द्र सिंह	सहायक प्राध्यापक	शासकीय कमला नेहरू हायर सेकण्डरी स्कूल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
163	श्री अर्पित नामदेव	सहायक प्राध्यापक	कुलसचिव राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
164	श्री सुरेश कुमार झा	उपयंत्री	कोलार परियोजना उप संभाग कं.09 भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
165	श्री रमेश सोनकर	सहायक संचालक	संचालनालय मत्स्योद्योग, भदभदा	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
166	श्री कमल किशोर गुप्ता	सहा. मत्स्य अधिकारी	संचालनालय मत्स्योद्योग भदभदा	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
167	श्री संजय कुलकर्णी	उपयंत्री सिविल	अधीक्षण यंत्री मंडल निर्माण भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
168	श्री हमेन्द्र सिंह ठाकुर	कार्यपालन यंत्री	उपसंचालक एवं कार्यपालन यंत्री	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
169	श्री मनोज गुप्ता	उपयंत्री सिविल	अधीक्षण यंत्री मंडल निर्माण भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
170	श्री सरजो प्रसाद वर्मा	सहायक अधीक्षक	संचालनालय मत्स्योद्योग	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
171	श्री शिवकुमार नामदेव	उपयंत्री	कोलार परियोजना उप संभाग कं. 09	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
172	श्री उत्कर्ष पाटिल	उपयंत्री	मुख्य अभियंता, चम्बल बेतवा कछ	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
173	श्री हरिहर पाटनकर	सहा नियोजन अधि.	संचालक आदिम जाति क्षेत्रीय विक. सतपुड़ा भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
174	श्री संजय कुमार शर्मा	उपयंत्री	मुख्य अभियंता, चम्बल बेतवा कछ	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
175	श्री दिवाकर शर्मा	सहायक यंत्री	एम.पी. इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड क्षेत्रीय कार्यालय	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
176	श्री प्रभात कुमार मिश्रा	सहायक संचालक	पंचायत राज संचालनालय, म.प्र.भो. हिंदुस्तान पेट्रोल पम्प	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
177	श्री एमशर्मा सी.	ए.ओ.एफ.व्ही.	पशु चिकित्सालय भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
178	श्री धीरेन्द्र वर्मा	बी.ए.सी.	जनपद शिक्षा केंद्र बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
179	श्री तनवीर खान	उपयंत्री	जनपद शिक्षा केंद्र बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
180	श्री आई एस मरावी	प्रशा. अधिकारी	भारतीय जीवन बीमा निगम	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये

181	श्री अनिल रामटेककर	उपयंत्री	जनपद पंचायत बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
182	श्री महेश साहू	ए.ओ.एफ.व्ही.	पशु बैरसिया चि.	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
183	श्री मनोज चौधरी	प्रशा. अधिकारी	भारतीय जीवन बीमा	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
184	श्री एचअहिरवार पी	उपयंत्री	जनपद पंचायत बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
185	श्री तुलसीराम बिरला	ए.ओ.एफ.व्ही.	पशु चिकित्सालय बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
186	श्री उत्कर्ष निगम	प्रशा. अधिकारी	भातीय जीवन बीमा निगम मंडल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
187	श्री नागेन्द्र सिंह सिमोनिया	प्रशा. अधिकारी	भातीय जीवन बीमा निगम मंडल कार्यालय	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
188	श्री आरिफ खान	सीएसी	जनपद शिक्षा केन्द्र बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
189	श्री जमना दास बैरागी	पी.सी.ओ.	जनपद पंचायत बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
190	श्री संजय जोशी	पंचा.सम.अधि.	जनपद पंचायत बैरसिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
191	श्री निकेश भिडे	प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र,	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
192	डॉ. आदर्श महेश शुक्ला	उप संचालक	मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वितीय तल तिलहन संघ	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
193	श्री मकेश कुमार रावत	उपयंत्री सिविल	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.भ.	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
194	डॉ० टी डी भकोरिया	उप संचालक	मध्यप्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति, द्वितीय तल, तिलहन संघ भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
195	श्री अनिल खण्डेलवाल	वरिष्ठ प्रबंधक	दि म.प्र. माइनिंग कार्पोरेशन, पर्यावास भवन, अरेरा हिल्स	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
196	डॉ. विनोद कुमार द्विवेदी	व्याख्याता	राज्य शिक्षा केन्द्र	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
197	श्री केशव प्रसाद मर्सकोले	सहा.वाणिज्यिकर अधिकारी	सहा. वाणिज्यिकर अधिकारी	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
198	श्री रघुनाथ बेले	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	फंदा डी ब्लॉक	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
199	श्री योगेश नागले	सहायक संचालक	म0प्र0 राज्य कृषि विणन बोर्ड	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
200	श्री भगवान पाटिल	सहायक संचालक	माध्यमिक शिक्षा मंडल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
201	श्री अशोक कुमार	व्याख्यात	आदर्श उमा वि. तात्या टोपे नगर भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
202	श्री जितेन्द्र गौर	उपयंत्री	म.प्र. गृह निर्माण एवं अद्यो. विकास मण्डल स.कं.04	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
203	श्री नरेश बहल	सहायक संचालक	विध्याचल भवन भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
204	श्री देवेन्द्र कुमार गौतम	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
205	श्री मनोज पटेल	सहा.प्रशासनिक अधिकारी	भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय क्र. 3	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये

206	श्री राहुल साहू	सहायक कृषि यंत्री	कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
207	श्री सुदीप दास	सहायक संचालक	एम पी एस एस डी ई जी बी गोविंदपुरा	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
208	श्री बृजेश कुमार सक्सेना	सहायक संचालक	सम्राट आशोक माध्यमिक शाला परिसर टीटी नगर	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
209	श्री आशीष पुरिया	व्याख्याता	सरदार बल्लभ भाई पॉलिटेक्निक श्यामला हिल्स	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
210	श्री सुदेश कुमार शर्मा	व्याख्याता	शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आनन्द नगर	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
211	श्री आरपी सिंह	सहायक संचालक	लोक शिक्षण संचालनालय	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
212	श्री राकेश शर्मा	सहायक संचालक	पंचायत राज संचालनालय भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
213	श्री कुलदीप मौर्य	सहायक संचालक	विन्ध्याचल भवन भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
214	श्री अम्बज गौतम	सहायक संचालक	संचालनालय किसान तथा कृषि कल्याण विभाग विन्ध्याचल भवन भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
215	श्री अंकित रघुवंशी	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वा.या. खण्ड भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
216	श्री विशाल नाडकर्णी	संयुक्त संचालक	संचालनालय महिला एवं बाल विकास म0प्र0, विजयाराजे वात्सल्य भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
217	श्री यू.के. सोनी	व्याख्याता	सरदार बल्लभ भाई पॉलिटेक्निक श्यामला हिल्स	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
218	श्री सत्येन्द्र सिंह रघुवंशी	सहायक संचालक	संचालनालय किसान तथा कृषि कल्याण विभाग विन्ध्याचल भवन भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
219	श्री गोपाल पाटीदार	सहायक संचालक	संचालनालय किसान तथा कृषि कल्याण विभाग विन्ध्याचल भवन भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
220	श्री परमानन्द पंचोरे	सहायक संचालक	माध्यमिक शिक्षा मण्डल भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
221	श्री अनुराग जोशी	सहायक संचालक	संचा. महिला एवं बाल विकास विजयाराजे वात्सल्य भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
222	श्री भानूत प्रताप सिंह	सहायक अभियंता	कार्यपालन अभियंता विद्युत निर्माण सदन भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
223	श्री अजय कुमार गोयल	सहायक संचालक	संचालनालय नगर प्रशासन शिवाजी नगर भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
224	श्रीमती सुनीता सिंह	सहायक संचालक	मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, पर्यावास भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
225	श्री अनिल कुमार सोनी	सहायक संचालक	कार्यालय सहायक संचालक कृषि	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
226	श्री वृन्दावन दास वैष्णव	सहायक संचालक	शासकीय बालक उमावि. स्टेशन एरिया भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
227	श्री जिवय कुमार सोलंकी	सहायक अभियंता	भोपाल प्राजेक्ट सर्किल सीपीए अरेरा हिल्स	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
228	श्री निशांत तिवारी	कार्यपालन यंत्री	प्रमुख अभियंता जल संसाधन विभाग जल संसाधन भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
229	श्री राजेन्द्र मिश्रा	उपयंत्री	कार्यालय कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. जवाहर चौक	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये

230	श्री अरविन्द कुमार श्रीवास्तव	कार्यपालन यंत्री	उपसंचालक एवं कार्यपालन यंत्री, भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
231	श्री अशोक सरोने	सहायक प्रबंधक	उद्योग संचालनालय चतुर्थ तल विध्याचल भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
232	डॉ० विकास सोनी	सहायक भौमिकीविद	संचालनालय भौमिकी तथा खनिजकर्म	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
233	श्री प्रताप	असिस्टेंट प्रोफेसर	केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
234	श्री अवधेश सिंह भदौरिया	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
235	श्री नरेन्द्र कुमार अहिरवार	सहायक संचालक	कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, तुलसी नगर भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
236	श्री विवेक खरे	सहायक संचालक	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
237	श्री दिनेश कुमार शर्मा	प्रबंधक	दि मध्यप्रदेश माइनिंग कार्पोरेशन, पर्यावास भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
238	डॉ० पी. सी. शर्मा	अनुज्ञापन अधिकारी	संचालनालय आयुष मध्यप्रदेश, भूतल, सतपुड़ा भवन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये
239	श्री अनूप कुमार तुली	वरिष्ठ व्याख्याता	एस०वी० पॉलिटेक्निक भोपाल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिये

हस्ता./-
डिप्टी कलेक्टर
एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, सीहोर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

क्र.-913-निर्वा.-2024

सीहोर, दिनांक 11 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

निर्वाचन की घोषणा से निर्वाचन की समाप्ति तक के लिये

जिले का नाम:- सीहोर (म.प्र.)

सं. क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
1	श्री हिमांशु अड्डशुले	ए व्ही एफ ओ	पश्चिमिक्तसालय	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
2	श्री मोहिनीश कुमार जैन	व्याख्याता	उच्च शिक्षा	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
3	श्री प्रमोद कुमार गायकवर	व्याख्याता	शिक्षा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
4	श्री रवि कुमार	प्र.प्राचार्य	शिक्षा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
5	श्री एम.के. गोयल	सहा.प्रबंधक	परियोजना कार्यालय	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
6	श्री शुभम डबराल	व्याख्याता	उच्च शिक्षा	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
7	श्री राजेन्द्र गोड	श्रम निरीक्षक	श्रम विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
8	श्री रजनीश कुमार रंजन	व्याख्याता	उच्च शिक्षा	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
9	श्री अनुराग कुमार पटेल	व्याख्याता	उच्च शिक्षा	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
10	श्री विजय कुमार भार्गव	उपयंत्री	कोलार नहर	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
11	श्री एम.के. शर्मा	उप यंत्री	जल संसाधन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
12	श्री प्रभात पवार	उप यंत्री	जल संसाधन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये

13	श्री कपिल सहारे	उप यंत्री	कृषि उपज मंडी	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
14	श्री प्रवीण चौधरी	सचिव	कृषि उपज मंडी	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
15	श्री सुभाष गोस्वामी	सहा प्रबंधक	न.प्र.ग्रा.स.वि.प्रा.सीहोर	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
16	डॉ. ए.के.एस.भदोरिया	उप संचालक	पशु पालन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
17	सुश्री प्रियका बशीवाल	श्रम पदाधिकारी	श्रम विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
18	श्री सुधीर सिंह परिहार	सहा.पशु चिकित्सक	पशु चिकित्सा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
19	श्री सुमत लाल करोरिया	पीसीओ	जनपद पंचायत आष्टा	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
20	श्री शशांक श्रीवासतव	उपयंत्री	जनपद पंचायत इछावर	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
21	श्री महेश कुमार बड़गुजर	ग्रा0कृ0वि0अधि0	कृषि विभाग इछावर	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
22	श्री कामल कांत श्रीवास्तव	उपयंत्री	जनपद पंचायत सीहोर	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
23	श्री रामअवतार बोहान	सहा प्रबंधक	एन.आर.एल.एम.	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
24	श्री अभिषेक चतुर्वेदी	पी.सी.ओ.	जनपद पंचायत बुधनी	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
25	श्री अभिषेक शर्मा	ए.व्ही.एफ.ओ.	पशु चिकित्सा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
26	जितेन्द्र सिंह दागी	पीसीओ	ज0प0 बुधनी	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
27	श्री माखन सिंह	एइओ	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
28	श्री जितेन्द्र वर्मा	पीसीओ	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
29	श्री तुलसी राम मालवीय	पीसीओ	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
30	श्री भगवान सिंह कौर	पीसीओ	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
31	श्री हरिशंकर सूरमा	पीसीओ	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
32	श्री अनोखी लाल पठारी	पीसीओ	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
33	श्री जितेन्द्र कुमार पवार	एइओ	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
34	श्री पवन कुमार तिवारी	एइओ	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
35	श्री राजेन्द्र पाण्डे	सहा रा.नि.	नगर पालिका	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
36	श्री प्रदीप परमार	ग्रा.कृ.वि.अ.	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
37	श्री जेड यू अन्तारी	एव्हीएफओ	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
38	श्री लोकेश निरंजन	ग्रा.कृ.वि.अ.	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
39	श्री जय प्रकाश विश्वकर्मा	सुपरवर्डजर	कोलार परि.	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
40	श्री धमेन्द्र सिंह भदोरिया	उप प्रबंधक	वन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
41	श्री दिलीप सिंह परमार	उद्यान वि. अधिकारी	उद्यानिकी विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
42	श्री दिनेश मोर्य	उपप्रबंधक	वन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
43	श्री रोहित कुमार उदावत	मान चित्रकार	वन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
44	श्री सुरेश कुमार तोलानी	उपप्रबंधक	वन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
45	श्री राम विलास मेवाडा	प्रा. शिक्षक	शिक्षा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
46	श्री रमेश प्रसाद बामनिया	प्रा. शिक्षक	शिक्षा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
47	श्री विनोद मालवीय	मानचित्रकार	वन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
48	श्री बलधीर टोप्यो	पीसीओ	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
49	श्री बजरंग कौशल	सहा.वि.अ.	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
50	श्री एडमिन टोप्यो	प्राचार्य	शिक्षा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
51	श्री मोडर सिंह गौर	एव्हीएफओ	पशु चिकित्सा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
52	श्री रामेश्वर पाटिल	जन शिक्षक	शिक्षा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
53	श्री रूप चन्द्र जोधवानी	लेखापाल	वन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
54	श्री योगेन्द्र ठाकुर	ग्रा.कृ.वि.अ.	कृषि विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
55	श्री मनोज कुमार गुप्ता	लेखापाल	वन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
56	श्री चन्द्र प्रकाश	लेखापाल	वन विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
57	श्री धनवीर दागी	शिक्षक	शिक्षा विभाग	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
58	श्री अशोक सिंह	पीसीओ	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
59	श्री कमलेश शर्मा	उप. नि.	कृषि उपज मण्डी	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
60	श्री ओम प्रकाश पाटिल	सहा.उप.नि.	कृषि उपज मण्डी	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
61	श्री प्रताप सिंह	सहा.उप.नि.	कृषि उपज मण्डी	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
62	श्री गब्बर सिंह सिसोदिया	सहा.उप.नि.	कृषि उपज मण्डी	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
63	श्री उन्मद सिंह	सहा.उप.नि.	कृषि उपज मण्डी	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
64	श्री कमल वर्मा	ब्लॉक स.	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
65	श्री माखन सिंह पिपलादिया	ब्लॉक स.	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
66	श्री संजय आर्य	ब्लॉक कां.	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
67	श्री मनोहर मालवीय	सहा.वि.प्र.	जनपद पंचायत	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
68	श्री सुरेन्द्र सिंह कुशवाह	उपयंत्री	नगर परिषद	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये
69	श्री दीपक कुमार अटेरिसा	उपयंत्री	नगर परिषद	राज्य	सम्पूर्ण जिले के लिये

हस्ता./-

उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर (निर्वाचन), जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश

क्र.-985-14-निर्वाचन-2024

राजगढ़, दिनांक 15 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024
विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के सम्बन्ध में अतिरिक्त प्रस्ताव

जिले का नाम - राजगढ़

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं
1	2	3	4	5	6
1	श्री वी.आर. शिन्दे	उपयंत्री	जल संसाधन विभाग, नरसिंहगढ़	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
2	श्री प्रशांत भीणा	सहायक प्राध्यापक	शा.स्ना. महाविद्यालय नरसिंहगढ़	श्रेणी-2	सम्पूर्ण जिले के लिए
3	श्री संजय कुमार माथुर	सहायक प्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क प्राधिकरण पीआईयू ब्यावरा	श्रेणी-2	सम्पूर्ण जिले के लिए
4	श्री एम.एस. सैफी	क्रीड़ा अधिकारी	शा. महाविद्यालय ब्यावरा	श्रेणी-2	सम्पूर्ण जिले के लिए
5	श्री प्रवीण पाटीदार	सहायक प्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क प्राधिकरण पीआईयू ब्यावरा	श्रेणी-2	सम्पूर्ण जिले के लिए
6	श्री प्रहलाद क्षेत्रे	उप महाप्रबंधक	म.प्र.म.क्षे.वि.वि.क. लिमि. संभाग ब्यावरा	श्रेणी-2	सम्पूर्ण जिले के लिए
7	श्री पीयूष वर्मा	उपयंत्री	मोहनपुरा परियोजना	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
8	श्री बी.एस. मीना	उद्यान अधीक्षक	शा. उद्यान खारच्याखेड़ी	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
9	श्री लोकाेश्वर कुमार झडवड़े	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी विभाग, राजगढ़	श्रेणी-2	सम्पूर्ण जिले के लिए
10	श्री विपिन विहारी खरे	प्राध्यापक	शा.महा.वि. जीरापुर	श्रेणी-1	सम्पूर्ण जिले के लिए
11	श्री बृजेश उपाध्याय	उपयंत्री	नगर परिषद, खिलचीपुर	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
12	श्री अमित नरगेश	अनुविभागीय अधिकारी	लोक निर्माण विभाग, खिलचीपुर	श्रेणी-2	सम्पूर्ण जिले के लिए
13	श्री गलसिंह ठाकुर	सहायक प्राध्यापक	शा. महा वि. जीरापुर	श्रेणी-2	सम्पूर्ण जिले के लिए
14	श्री आनन्द सिंह ठाकुर	सहायक प्राध्यापक	महाविद्यालय, खिलचीपुर	श्रेणी-2	सम्पूर्ण जिले के लिए
15	श्री शिवनाथ कुमार शर्मा	सहायक प्राध्यापक	शा. महा वि. खिलचीपुर	श्रेणी-2	सम्पूर्ण जिले के लिए
16	श्री बी.एल. वर्मा	बीआरसी	सारंगपुर	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
17	श्री दीपक कुमार रानवे	सीएमओ	नगर परिषद, पचोर01	श्रेणी-2	सम्पूर्ण जिले के लिए
18	श्री जिनेश कुमार ठाकुर	सहायक यंत्री	सुठालिया परियोजना, जल संसाधन विभाग, ब्यावरा	श्रेणी-2	सम्पूर्ण जिले के लिए
19	श्री सुनील यादव	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
20	श्री ब्रजेश शर्मा	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
21	श्री रामस्वरूप अहिरवार	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
22	श्री राजेश पाटीदार	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं
1	2	3	4	5	6
23	श्री शिवकुमार चौहान	उप वन क्षेत्रपाल	वन विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
24	श्री जगदीश जी हाडा	कार्यवाहक वनपाल	वन विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
25	श्री महेश कुमार भानोरिया	वनपाल	वन विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
26	श्री चैनसिंह खींची	पी.सी.ओ.		श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
27	श्री अरविंद चौधरी	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
28	श्री मुख्तार अहमद खान	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
29	श्री हरीश यादव	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
30	श्री विष्णु दांगी	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
31	श्री बनेसिंह	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
32	श्री रामनारायण चौहान	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
33	श्री विनोद शर्मा	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
34	श्री गजेन्द्र सिंह सेंगर	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
35	श्री शिवम सक्सेना	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
36	श्री शिवकुमार	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
37	श्री अवधेश मीना	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
38	श्री कमलसिंह यादव	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
39	श्री आर.के.सोनी	अनु.अधिकारी	पीआईयू	श्रेणी-2	सम्पूर्ण जिले के लिए
40	श्री कपिल मोहरे	उपयंत्री	पीआईयू	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
41	श्री अभिनव शर्मा	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
42	श्री अजय मीना	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
43	श्री आदित्य सिंह रजावत	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
44	श्री गिरीराज शर्मा	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
45	श्री परमानंद कुशवाह	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
46	श्री मधुसूदन शर्मा	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
47	श्री योगेन्द्र सेन	ब्लॉककार्डिनेटर	जनपद पंचायत	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
48	श्री रामबाबू दांगी	पटवारी	राजस्व विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
49	श्री अरुण कुमार साकेत	सहायक प्रबंधक अजीविमा मिशन	जिला पंचायत	श्रेणी-2	सम्पूर्ण जिले के लिए
50	श्री प्रेम किशोर	ए.व्ही.एफ.ओ.	पशु चिकित्सा विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
51	श्री ब्रजमोहन जोशी	सहा.उ.निरी.	नगर पालिका	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
52	श्री निर्मल कास्ते	सहायक पशु क्षेत्राधिकारी	पशु चिकित्सा विभाग	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
53	श्री सूरज मालवीय	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
54	श्री कार्तिक राजपूत	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
55	श्री रवि खरे	उपयंत्री	जिला शिक्षा केन्द्र	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित हैं
1	2	3	4	5	6
56	श्री नाहिद खान	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए
57	श्री महेश मण्डलोई	जनशिक्षक	बीआरसी	श्रेणी-3	सम्पूर्ण जिले के लिए

हस्ता./-

उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

क्र.-निर्वाचन-2024-708

शाजापुर, दिनांक 12 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

क्र	अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्यपालन दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना है।
1	2	3	4	5	6
1	श्री योगेश भावसार	विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक शाजापुर	विकासखण्ड शाजापुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
2	श्री राधा वल्लभ कारपेंटर	प्राचार्य	हाई स्कूल टुकराना	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
3	श्री नारायण सिंह	प्राचार्य	हाई स्कूल चायनी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
4	सुश्री नेहा गंगारे	डिप्टी कलेक्टर	कलेक्टर कार्यालय शाजापुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
5	श्री राजेश वर्मा	प्राचार्य	हाई स्कूल छापरी	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
6	श्री सुरेन्द्र गोखले	विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक	शिक्षा विभाग शुजालपुर	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
7	श्री जसमत बैस	विकासखण्ड स्त्रोत समन्वयक	विकासखण्ड कालापीपल	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
8	श्री नरवल सिंह रावत	प्राचार्य	हाई स्कूल देवली	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
9	श्रीराम सिंह सौराष्ट्रीय	प्राचार्य	हाई स्कूल सिमरोल	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
10	श्री रघुनंदन कारपेंटर	प्राचार्य	हाई स्कूल खमलाय	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
11	श्री रमाकांत पाटील	प्राचार्य	हाई स्कूल बकायन	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
12	श्री राजेन्द्र यादव	प्राचार्य	हाई स्कूल मगरोला	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
13	श्री मनोज कुमार जायसवाल	प्राचार्य	हाई स्कूल ईमली खेडा	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
14	श्री सचिदानंद कुशवाहु	विकासखण्ड प्रबंधक	मु.क.अधि.ज.प.शुजालपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
15	श्री मांगीलाल सोलंकी	विकासखण्ड समन्वयक	मु.क.अधि.ज.प.शुजालपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
16	श्री सुभाष माहेशवरी	पटवारी	तहसील कालापीपल	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
17	श्री महेश मालवीय	कृषि विस्तार अधिकारी	अनु.वि.अधि.कृषि शुजालपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
18	श्रीमति सोनम शर्मा	प्रभारी तहसीलदा	तहसील पोलायकलॉ	द्वितीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
19	श्री लखन पाठक	संचिव	ग्राम पंचायत मायापुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
20	श्री वल्लभ शर्मा	संचिव	ग्राम पंचायत प्रतापपुरा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला
21	श्री मदन सिंह मेवाडा	संचिव	ग्राम पंचायत बाडीगांव	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

क्र.-क-सा.नि.शा.-सा.लि.-S.O.E.M.P.-2024-1455

खण्डवा, दिनांक 11 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024 सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	श्री परसराम गारगा	उप वनक्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
2	श्री प्रेमसिंह दाहिया	उप वनक्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
3	श्री गरीबदास चौरसिया	उप वनक्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
4	श्री रणजीत जमरे	उप वनक्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
5	श्री संतोष कुमार मिश्रा	उप वनक्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
6	श्री आनंदराम खाण्डे	उप वनक्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
7	श्री कुवर सिंह रावत	वनपाल	वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8	श्री पूनम ओसवाल	कार्यवाहक वनपाल	मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
9	श्री दिपेन्द्र कुमार श्रीवास	कार्यवाहक वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
10	श्री हनुमान सिंह ठाकुर	उपवन क्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
11	श्री विनेन्द्र सिंह शर्मा	वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
12	श्री निमाजी महाजन	वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
13	श्री सत्यनारायण यादव	कार्यवाहक वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
14	श्री प्रेमसिंह सोलंकर	उपवन क्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
15	श्री जयप्रसाद पवार	उपवन क्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
16	श्री मोतीसिंह पवार	वनपाल	वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
17	श्री श्यामसिंह बघेल	वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
18	श्री कैलाश सोलंकी	वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
19	श्री बृजेश नहारवाल	वनपाल	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
20	श्री शिवम पाटिल	वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
21	श्री मुकेश देवड़ा	वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
22	श्री नन्दकुमार अग्नीहोत्री	कार्यवाहक वनपाल	वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
23	श्री विनोद चद्रायण	वनपाल	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
24	श्री अजय जगताप	वनपाल	मुख्य वनसंरक्षण आयोजना ईकाई खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
25	श्री सैयद आंसिफ अली	वनपाल	वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
26	श्री विजय सोनी	उप वनक्षेत्रपाल	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
27	श्री दीपक शर्मा	उप वनक्षेत्रपाल	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
28	श्री नागेश्वर डोगरे	वनपाल	वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
29	मोहम्मद हाफिज़ खान	वनपाल	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
30	श्री देवन्द्र सिंह वालके	कार्यवाहक वनपाल	वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
31	श्री विजय पालीवाल	उप वनक्षेत्रपाल	मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
32	श्री प्रवीण महोदय	वनपाल	अनुसंधान एवं विस्तार वृत्त खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
33	श्री नावूराम भोंसले	वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
34	श्री सतीश कारडेकर	वनपाल	वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
35	श्री राजेश लाड़	वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
36	श्री सदाराम अखण्डे	उपवन क्षेत्रपाल	मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
37	श्री अनिल राठौर	कार्यवाहक वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
38	श्री सुभाष उपाध्याय	वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
39	श्री मतलुव हुसैन	वनपाल	मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
40	श्री रंजनीश गौर	वन क्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी वनमंडल उत्पादन खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
41	श्री महेश मकवान	कार्यवाहक वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
42	श्री राजेश माली	कार्यवाहक वनपाल	परिक्षेत्र पुनासा सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
43	श्री दिनेशचंद्र श्रीवास	वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
44	श्री राजाराम कन्नौजे	उपवन क्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी उत्पादन वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
45	श्री हीरालाल विश्वकर्मा	उपवन क्षेत्रपाल	परिक्षेत्र चांदगढ़ सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
46	श्री मगन सिंह मेहड़ा	वनपाल	परिक्षेत्र चांदगढ़ सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
47	श्री सुखदेव डार	उपवन क्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
48	श्री गवरु मंसारे	वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
49	श्री भगवानदास पटेल	उपवन क्षेत्रपाल	परिक्षेत्र वलड़ी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए

क्र.सं.	आधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी व शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
50	श्री रामप्रसाद शास्त्री	कार्यवाहक वनपाल	परिक्षेत्र बलड़ी सामान्य वनमण्डल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
51	श्री सुमिल राजगुरे	कार्यवाहक वनपाल	परिक्षेत्र बलड़ी सामान्य वनमण्डल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
52	श्री हीरालाल ओघनिया	वनपाल	परिक्षेत्र सिंगाजी सामान्य वनमण्डल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
53	श्री गणेश काजले	वनपाल	परिक्षेत्र पूर्व कालीभीत सामान्य वनमण्डल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
54	श्री राजेश सोनारे	वनपाल	वनमंडलाधिकारी सामान्य वनमंडल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
55	श्री शंकर कासीर	वनपाल	परिक्षेत्र पश्चिम कालीभीत सामान्य वनमण्डल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
56	श्री पंजाबराव पण्डागरे	वनपाल	परिक्षेत्र पश्चिम कालीभीत सामान्य वनमण्डल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
57	श्री विजय कुमार तडवी	कार्यवाहक वनपाल	वनमंडलाधिकारी वनमंडल उत्पादन खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
58	श्री चन्द्रशेखर सोहनी	उपवन क्षेत्रपाल	परिक्षेत्र पश्चिम कालीभीत सामान्य वनमण्डल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
59	श्री शकिल खान	उपवन क्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी वनमंडल सामान्य खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
60	श्री अशोक डीकर	वनपाल	परिक्षेत्र आंबलिया सामान्य वनमण्डल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
61	श्री धीरज मालवीय	कार्यवाहक वनपाल	वन संरक्षण कार्य-आयोजना खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
62	श्री धनसिंह डावर	कार्यवाहक वनपाल	वन संरक्षण कार्य-आयोजना खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
63	श्री पंडरी फेंगड़े	वनपाल	वनमंडलाधिकारी वनमंडल सामान्य खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
64	श्री अभितेन्द्र सिंह रावत	कार्यवाहक वनपाल	वन संरक्षण कार्य-आयोजना ईकाई खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
65	श्री चंदरराव पवार	उप वनक्षेत्रपाल	वनमंडलाधिकारी वनमंडल सामान्य खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
66	श्री अमर सिंह रावत	कार्यवाहक वनपाल	वन संरक्षण कार्य-आयोजना ईकाई खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
67	श्री योगेन्द्र सिंह नवररिया	वनपाल	मध्यप्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
68	श्री महेश पांचाल	वनपाल	वनमंडलाधिकारी वनमंडल सामान्य खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
69	श्री गोपाल अंचल	कार्यवाहक वनपाल	वनमंडलाधिकारी वनमंडल सामान्य खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
70	श्री रितेश गोले	वनपाल	वनमंडलाधिकारी वनमंडल उत्पादन खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिराके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
71	श्री जन्मूलाल बारे	कार्यवाहक वनपाल	परिक्षेत्र पुनासा सामान्य वनमण्डल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
72	श्री राजेन्द्र गंगराडे	कार्यवाहक उप वनपाल	वन विकास निगम खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
73	श्री पापाराम साल्वे	वनपाल	वनमंडलाधिकारी वनमंडल सामान्य खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
74	श्री सचिन केथवास	कार्यवाहक वनपाल	वन विकास निगम	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
75	श्री साहेबराव लहमागे	वनपाल	परिक्षेत्र पुनासा सामान्य वनमण्डल खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
76	श्री सुभाष पटेल	वनपाल	वनमंडलाधिकारी वनमंडल सामान्य खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
77	श्री हरिशकृष्ण	वनपाल	वनमंडलाधिकारी वनमंडल सामान्य खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
78	श्री अनोरुप्रीलाल सिल्वे	वनपाल	वनमंडलाधिकारी वनमंडल सामान्य खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
79	श्री जितेन्द्र चौहान	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कार्यालय वरिष्ठ कृषि अधिकारी पुनासा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
80	श्री विजय सोलंकी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कार्यालय वरिष्ठ कृषि अधिकारी पुनासा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
81	श्री सुनिल कुमार करोले	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कार्यालय वरिष्ठ कृषि अधिकारी पुनासा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
82	श्री सुनिल जमरे	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कार्यालय वरिष्ठ कृषि अधिकारी पुनासा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
83	श्री पवन कुमार दोफिया	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
84	श्री विरेन्द्र सिंह टाकुर	ब्लॉक समन्वय अधिकारी	जनपद पंचायत हरसूद	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
85	श्री ओमप्रकाश उच्चारिया	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण कार्यालय खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
86	श्री मुकेश गुप्ता	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण कार्यालय खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
87	श्री हरीश डामर	सहायक बीज प्रमाणीकरण अधिकारी	मध्यप्रदेश राज्य बीज प्रमाणीकरण कार्यालय खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
88	श्री हौसीलाल गोयल	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
89	श्री देवीलाल सोलंकी	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
90	श्री भूपेन्द्र विरला	ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी	कार्यालय सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
91	श्री धनसिंह जमरे	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
92	डॉ. नरेन्द्र कन्नोड	पशु चिकित्सा विस्तार अधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
93	श्री विष्णु बिरला	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
94	श्रीमती लक्ष्मी शास्त्री	सहायक यंत्री	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुनासा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
95	श्री विगल सोनी	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
96	डॉ. कइया चौहान	शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
97	श्री रिषि बडेरिया	सहायक प्रबंधक	म.प्र. ग्रामीण विकास प्राधिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना खंडवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
98	श्री आर०एस० कलेश	प्रभारी	उप पंजीयक सहकारी समितिया खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
99	श्री संतोष चौहान	सहायक यंत्री	कार्यालय नर्मदा विकास उपसंभाग क्रमांक-28 पुनासा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
100	श्री आर.के. प्रधान	प्राचार्य	आई.टी.आई भगवानपुरा (मूंदी)	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
101	श्री महेश माण्डले	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
102	श्री सेराफिम तिकी	कार्यपालन यंत्री	नर्मदाघाटी विकास संभाग क्रमांक-25 नर्मदा नगर	प्रथम श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
103	श्री संजय माणिक	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
104	श्री युवराज सिंह सोलंकी	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
105	श्री आशीष गुप्ता	प्रशिक्षण अधिकारी	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
106	डॉ० अनिल वर्मा	जिला आयुष अधिकारी	कार्यालय जिला आयुष खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
107	श्री सुनिल पुनसिया	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुनासा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
108	श्री अमीन खान	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पुनासा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
109	श्री ज्योति आनंद	अव्युविभागीय अधिकारी	नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण संभाग क्रमांक-25 नर्मदा नगर	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
110	श्री अमित गुप्ता	अव्युविभागीय अधिकारी	नर्मदाघाटी विकास क्रमांक 25	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए

0

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
111	श्री शकील खान मंसूरी	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
112	श्री आर.सी. बोराना	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
113	श्री मोहनसिंग दांगी	अंकेक्षण अधिकारी	उपायुक्त सहकारिता विभाग खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
114	श्री अनिल भाटे	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी जामन्या	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
115	श्री आर. मेश्राम	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री नर्मदा घाटि विकास प्राधिकरण संभाग क्रमांक-13 खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
116	श्री ज्ञानसिंह राठौर	विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक अधिकारी	विकास खण्ड स्त्रोत समन्वयक बलड़ी (किल्लोद)	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
117	डॉ. अनिल डाबर	सहायक शल्यज्ञ	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
118	श्री प्रताप सिंह भावस्कर	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी गुलाई	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
119	श्री अनिष कश्यप	सहायक शल्य चिकित्सा अधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
120	श्री पी0के0 जैन	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री पी0आई0यू0 विभाग खण्डवा	प्रथम श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
121	श्री एन0पी0 तोमर	अनुविभागीय अधिकारी	अनुविभागीय अधिकारी विद्युत तथा यांत्रिकी लोक निर्माण विभाग खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
122	श्री विनित मण्डलोई	उपयंत्री	अनुविभागीय अधिकारी विद्युत तथा यांत्रिकी लोक निर्माण विभाग खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
123	श्री सुनिल बड़ोले	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
124	श्री अरुण ठाकुर	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
125	श्री मंजीत जामले	औषधी निरीक्षक	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
126	श्री बंशीलाल	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
127	श्री हरिप्रसाद मालवीय	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
128	श्री कार्तिक लिलोतिया	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
129	श्री दीपक मण्डलोई	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए

स.क्र.	आधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिराके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाया प्रस्तावित है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.30	श्री जेतन चांसरीया	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी हरशुद्ध	उपरवालयक पशु चिकित्सा सेवाएँ खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.31	श्री विवेक गुप्ता	उपयंत्री	जल संसाधन संभाग खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.32	श्री विवेक पाण्डे	प्रभागी संचालक	सहायक आयुक्त, आदियारी विकास खण्डवा	प्रथम श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.33	श्री शिवाकांत वरसने	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.34	श्री विमल कुमार केरकरुद्ध	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी पाण्डवा	उपरवालयक पशु चिकित्सा सेवाएँ खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.35	श्री सुनिल बोदड़े	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएँ खण्डवा	प्रथम श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.36	श्री हरीगोहच सोनी	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन संभाग खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.37	श्री तरुण भार्ग	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.38	श्री प्रदीप गढवाल	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन संभाग खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.39	श्री अर्जुन बघेल	अनुविभागीय अधिकारी	जल संसाधन संभाग खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.40	श्री करण सिंह वास्कले	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाएं विभाग खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.41	श्री जी.एल. वर्मा	उप संचालक	उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.42	श्री जगन्नाथ चौधरी	सहा.प्रबंधक,	म.प्र. ग्रामीण विकास प्राधिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना खंडवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.43	श्री रिदम शाह	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाएं विभाग खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.44	श्री जगदम्बा माणिक	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.45	श्री अजय कुमार तइवी	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.46	श्री सुरेश संचार	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.47	श्री गौरव रघुवंशी	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.48	श्री भूरूलाल गंगराड़े	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाएं विभाग खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
1.49	सुश्री नीलम मेढ़ा	कार्य० यंत्री	कार्यालय जल संसाधन संभाग खण्डवा	प्रथम श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
150	श्री जगदीश गोलकर	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
151	श्री नामदेव खातरकर	उपयंत्री	मध्यप्रदेश हाउसिंग बोर्ड खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
152	श्री पी०के० भण्डारी	कार्यपालन यंत्री	नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण क्रमांक-13 खण्डवा	प्रथम श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
153	श्री पूजा राठौर	परियोजना अधिकारी	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
154	श्री मुकेश रावत	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाएं विभाग खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
155	श्री नीरज वर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाएं विभाग खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
156	श्री बादशाह सिंह चौरसिया	लेखापाल	म०प्र० हाउसिंग बोर्ड खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
157	श्री रजनीश पटेल	सहायक आयुक्त	सभागीय उपायुक्त वाणिज्यकर कार्यालय खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
158	श्री राधेश्याम गोले	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
159	कु० कल्पना कोल्हे	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं विभाग खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
160	श्रीमती नमिता शिवहरे	सहायक संचालक	जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
161	श्री नवीन गढ़कर	श्रम निरीक्षक	श्रम पदाधिकारी खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
162	श्रीमती अमृता मोरे	सहायक संचालक कृषि	उप संचालक किसान कल्याण खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
163	श्री सचिन सितोले	उपायुक्त	आयुक्त नगर पालिक निगम खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
164	डॉ. नीरज कुमुद	सहायक पशु शल्य चिकित्सा अधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
165	सुश्री वर्षा घिचोडे	उपयंत्री	आयुक्त नगर पालिक निगम खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
166	श्री रविन्द्र गोले	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
167	डॉ. नवीन तिवारी	सहायक पशु शल्य चिकित्सक	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
168	श्री एच०आर० पांडे	प्रभारी कार्यपालन यंत्री	आयुक्त नगर पालिक निगम खण्डवा	प्रथम श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
169	श्री के.के. अग्रवाल,	स.प.चि.क्षेत्र अधिकारी	उप संचालक पशु चिकित्सा सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
170	सुश्री श्वेताली लुक	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं खण्डवा जनपद पंचायत बलडी किल्लौद	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
171	श्री जाकिर जाफरी	उपायुक्त	आयुक्त नगर पालिक निगम खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
172	श्री प्रदीप जैन	उपायुक्त	आयुक्त नगर पालिक निगम खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
173	श्रीमति नीता झारानिया	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं विभाग खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
174	श्री हेमेन्त शाह	उपसंचालक	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
175	श्री अरविंद पाटीदार	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं विभाग खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
176	श्री दिलीप कुमार कैथवास	सहायक यंत्री	जनपद पंचायत खंडवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
177	श्री अनुपम गहोई	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी सेवाएं विभाग खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
178	श्री व्ही.सी.शर्मा	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
179	श्री एस.एन. खातरकर	प्रशि.अधि.	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खंडवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
180	श्री एम.डी.सुनवैया	प्रशि.अधि.	शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खंडवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
181	श्री विरेन्द्र सिंह सोलंकी	उपयंत्री	कार्य पालन यंत्री जल संसाधन उप संभाग 63 खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
182	श्री मतमीत मण्डरई	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग पंधाना	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
183	श्री रवि दरबार	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
184	श्री ओम प्रकाश वर्मा	सहा.मत्स्य अधि.	जिला मत्स्य अधिकारी, खंडवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
185	श्री एस.एल. निगवाल	सहायक संचालक	उपसंचालक कृषि विभाग खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
186	श्री डी.के. माण्डले	प्रभारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
187	श्री जे.पी. मिश्रा	वन परिक्षेत्र अधिकारी	वनमण्डलाधिकारी सामान्य वनमण्डल खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
188	श्री शांतिलाल वरडे	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं जनपद पंचायत खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
189	श्री ए०एस० सिसौदिया	सहायक प्रबंधक	प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
190	श्री भूरसिंह निगवाल	सहायक भूमि संरक्षक अधिकारी	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
191	श्री अभिषेक सोनी	सहायक गन्तव्य अधिकारी	मत्स्य उद्योग सिविल लाईन खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
192	श्री राजेश कुमार गुप्ता	भूमि संरक्षण अधिकारी	संभागीय भूमि संरक्षण अधिकारी, नर्मदाघाटी विकास संभाग खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
193	श्री सुरेश संदूके	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
194	श्री नंदराम चौहान	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास विभाग खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
195	श्री रुपसिंह सिसोदिया	परियोजना अधिकारी	महिला बाल विकास विभाग खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
196	श्री तरुण पटेल	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी खण्डवा	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
197	श्री अशोक धनगर	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी खण्डवा	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
198	श्री पोरस बामन्या	उपयंत्री	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंधाना	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
199	श्री अजय चौहान	उप संचालक	उप संचालक उद्यान	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
200	श्री रमेश सावकारे	प्रशि. अधि.	प्राचार्य शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
201	मो. जाकीर कुरैशी	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी खण्डवा	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
202	श्री अजय कुमार तड़वी	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
203	श्री साबूलाल कास्टै	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
204	श्री किशोर कुमार चंदेल	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
205	डॉ. दीपक वास्केल	सहायक पशु चिकित्सा अधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
206	मो. शब्बीरुद्दीन	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
207	श्री आर.एस. विलवाल	संभागीय उपायुक्त	संभागीय उपायुक्त वाणिज्यकर कार्यालय खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
208	महेश यादव	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधिकारी	उपसंचालक उद्यान खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
209	श्री धर्मेन्द्र सावले	उपयंत्री	मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत पंधाना	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए

(साठ)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
210	श्री सफदर हुसेन सफदरी	वरिष्ठ भू-जलवीर	संभागीय भू-जल सर्वेक्षण खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डीधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है। खण्डवा जिले के लिए
211	श्री बद्रीलाल वकावले	सहायक परियोजना अधिकारी	जिला पंचायत खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
212	श्री देवेन्द्र कुमार खत्री	सहायक प्रबंधक	खादी ग्रामोद्योग जिला पंचायत खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
213	श्री सजल उपध्याय	अनुविभागीय अधिकारी	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
214	श्री रुमाल सिंह वावनिया	सहायक यंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं जनपद पंचायत छैयांवमाखन खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
215	श्रीमती अनामिका माईकल	उपयंत्री	ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
216	श्री विक्रान्त भास्कर दामले	सहायक संचालक	जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारी खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
217	श्रीमती आशा चौहान	सहायक आयुक्त	आदिवासी विकास खण्डवा	प्रथम श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
218	श्री आनंद सिंह सोलंकी	परियोजना संचालक	उपसंचालक कृषि आत्मा खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
219	श्री विवेक गुप्ता	उपयंत्री	जल संसाधन संभाग खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
220	श्री विपिन ठकुर	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग पी.आई.यू. खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
221	श्री ओ.पी.0 खेड़े	सचिव	कृषि उपज समिति खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
222	श्री मनोज रावत	प्रबंधक	जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र खण्डवा	द्वितीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
223	श्री राजेश सैनी	सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्राधिकारी	उपसंचालक पशु चिकित्सा सेवाएं खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए
224	श्री संजीव मिश्रा	खाद्य सुरक्षा अधिकारी	कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी खण्डवा	तृतीय श्रेणी	खण्डवा जिले के लिए

हस्ता./-
उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश

क्र.-क.निर्वा.-भण्डार-2024-1006

बुरहानपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2024

लोकसभा आम निर्वाचन 2024
विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने संबंधी प्रस्ताव
जिला बुरहानपुर
-: सेक्टर अधिकारी :-

क्र.	सेक्टर अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/ संवर्ग का नाम	जिला
01	श्री मृगमा बदारीया	जिला कार्यक्रम अधिकारी	महिला एवं बाल विकास विभाग	महिला एवं बाल विकास	जिला बुरहानपुर
02	शुश्री सोनाली कमल	अनुविभागीय अधिकारी	कृषि विभाग	कृषि संवर्ग	जिला बुरहानपुर
03	श्री प्रेम कुमार साहू	कार्यपालन सत्री	नगर पालिका निगम बुरहानपुर	नगरीय प्रशासन	जिला बुरहानपुर
04	श्री अरविज आश शाह	व्याख्याता	शासकीय पालिटैक्निक कालेज	शिक्षा विभाग	जिला बुरहानपुर
05	श्री सुपान्द्र सोलंकी	कृषि विकास अधिकारी	कृषि विभाग	कृषि संवर्ग	जिला बुरहानपुर
06	श्री रविंद्र रखा मिश्रा	प्राचार्य	शासकीय आधुनिक महा बुरहानपुर	शिक्षा विभाग	जिला बुरहानपुर

SST, VST, FST

क्र.	SST, VST, FST अधिकारी का नाम	पद नाम	कार्यालय का नाम	सेवा/ संवर्ग का नाम	जिला
01	श्री जगदीश मोरे	सहायक अध्यापक	प्राथ. शाला बनियानाला	स्कूल शिक्षा	जिला बुरहानपुर
02	श्री सुभाष बोदडे	माध्यमिक शिक्षक	प्राथ. शाला जैवतली असीर	स्कूल शिक्षा	जिला बुरहानपुर
03	श्री शराम कुमार गौर	प्राथमिक शिक्षक	प्राथ. शाला परेदा	स्कूल शिक्षा	जिला बुरहानपुर
04	श्री राताराज खिगार	सहायक अध्यापक	प्राथ. शाला वाकडो	स्कूल शिक्षा	जिला बुरहानपुर
05	श्री भादसिंह बहान	प्राथमिक शिक्षक	प्राथ. शाला भोलूफाल्या	स्कूल शिक्षा	जिला बुरहानपुर
06	श्री सुनील विन्मोरकर	सहायक प्राध्यापक	प्राथ. शाला इच्छापुर	स्कूल शिक्षा	जिला बुरहानपुर

हस्ता./-
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, (भा.निर्वा.) जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

क्र.-भा.निर्वा.2024-1029

अलीराजपुर, दिनांक 12 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024-FST, SST, एवं VST टीम को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 191 - अलीराजपुर FST की सूची						
स.क्र.	FST के कार्य हेतु लगाये गए अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।	
1	श्री आनंद बघेल	उपयंत्री	आर.ई.एस.अलीराजपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर	
2	श्री हेमंत खोटे	उपयंत्री	गृह निर्माण विभाग	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर	
3	श्री विष्णु मुजालदा	उपयंत्री	उपयंत्री लो.स्वा.यां.कि.विभाग अली.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर	
4	श्री सुमित निगवाल	उपयंत्री	उपयंत्री लो.स्वा.यां.कि.विभाग अली.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर	
5	श्री अमीरचन्द गंगवाल	उपयंत्री	उपयंत्री म.प्र.ग्र.स.विकास प्राधिकरण अली.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर	
6	श्री दिनेश गाडरिया	खाद्यसुरक्षा अधिकारी अली.	खाद्यसुरक्षा अधिकारी अली.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर	
7	श्री सुधीर चौहान	उपयंत्री	उपयंत्री जनपद पंचायत कट्ठीवाडा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर	
8	श्री ज्योतिसिंह डामोर	उपयंत्री	उपयंत्री जनपद पंचायत कट्ठीवाडा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर	
9	श्री विजय चौहान	मंडी उप निरीक्षक अलीराजपुर	मंडी उप निरीक्षक अलीराजपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर	

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 191 - अलीराजपुर SST की सूची

स.क्र.	SST के कार्य हेतु लगाये गए अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तियाँ प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	श्री सरदार सिंह पटेल	अनुविभागीय अधिकारी	PWD अलीराजपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
2	श्री रवि पटेल	उपयंत्री	ज.प. अलीराजपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
3	श्री मुकेश सोलंकी	सहा. यंत्री	सहा. यंत्री पी.डब्ल्यू.डी.अलीराजपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
4	श्री विनय जायसवाल	उपयंत्री	उपयंत्री जनपद सोण्डवा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
5	श्री सचिन कनास	AVFO	ए.वी.एफ.ओ. छकतला	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
6	श्री केलाश वसुनिया	AVFO	ए.वी.एफ.ओ. बखतगढ़	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
7	श्री अर्जुन चौहान	AVFO	ए.वी.एफ.ओ. बालपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
8	श्री मालसिंह वास्करले	उपयंत्री	उपयंत्री आर.ई.एस.अलीराजपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
9	श्री प्रेमसिंह चौहान	उपयंत्री	उपयंत्री पी.एच.ई. अलीराजपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
10	श्री सावरसिंह अंजनार	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधि.	ग्रामीण उद्यान विस्तार अधि. छकतला	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
11	श्री सुमनसिंह गाडरिया	ग्रामिण कृषि विस्तार अधि.	ग्रामिण कृषि विस्तार अधि. सोण्डवा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
12	श्री शेरसिंह जाजमे	ग्रामिण कृषि विस्तार अधि.	ग्रामिण कृषि विस्तार अधि. सोण्डवा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
13	श्री नितेश बागोले	उपयंत्री	उपयंत्री म.प्र.शा.स.वि.प्रा. अली.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
14	श्री गोपालसिंह सोलंकी	सहायक प्रबंधक	पी.एल.जी.एस.व्हाय अलीराजपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
15	श्री अनिल रणदा	उपयंत्री	उप यंत्री जल संसाधन विभाग अली.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
16	श्री चन्द्रसिंह बागनिया	AVFO	ए.वी.एफ.ओ. ब्लाक कटौतीवाडा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
17	श्री अब्दुल्ला खान	AVFO	ए.वी.एफ.ओ. ब्लाक कटौतीवाडा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
18	श्री सलीम खान	AVFO	ए.वी.एफ.ओ. ब्लाक कटौतीवाडा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर

स.क्र.	SST के कार्य हेतु लगाये गए अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
19	श्री जितेन्द्र बघेल	उपयंत्री	उपयंत्री आर.ई.एस. सोण्डवा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
20	श्री राकेश मण्डलोई	उपयंत्री	उपयंत्री अलीराजपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
21	श्री अजय चौहान	AVFO	ए.बी.एफ.ओ. पलास्टा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
22	श्री रविन्द्र भयडिया	AVFO	ए.बी.एफ.ओ. खण्डाला	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
23	श्री लोकेन्द्र सिंह गोहलोत	AVFO	ए.बी.एफ.ओ. उमराली	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
24	श्री सत्यद इमरान अली	सहायक यंत्री	जिला शिक्षा केन्द्र अली.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
25	श्री गलसिंह नगौवा	पटवारी	तहसील कटौवाडा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
26	श्री अंतरसिंह सिंघार	उपयंत्री	गा.या.से. संभाग अलीराजपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
27	श्री जीवन प्रकाश मण्डलोई	परिक्षेत्र सहायक	परिक्षेत्र सहायक	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
28	श्री मयूरालाल अहिरवार	पटवारी	तहसील कटौवाडा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
29	श्री राजकुमार	उपयंत्री	जनपद पंचायत सोण्डवा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
30	श्री विवेक कनेश	उपयंत्री	जल संशोधन विन्भाग अलीराजपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 191 - अलीराजपुर VST की सूची

स.क्र.	VST के कार्य हेतु लगाये गए अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	श्री राजकुमार आहिरवार	मुख्य नगरपालिका अधिकारी	अलीराजपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
2	श्री वेरसिंह मुजाल्दा	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत सोण्डवा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
3	श्री लाखनसिंह सिसौदिया	मुख्य कार्यपालन अधिकारी	जनपद पंचायत कठीवाडा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
4	श्री शान्तराम विबलावेकर	सहा.ग्रेड-03	रिजर्व	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 192-जोबट FST की सूची

स.क्र.	FST के कार्य हेतु लगाये गए अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	श्री बाबुसिंह वामनिया	APO	जन.पंचा. उदयगढ	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
2	श्री शेरसिंह वघेल	बी.ए.सी.	जन.शि.केन्द्र जोबट	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
3	श्री विक्रमसिंह गाडरिया	ग्रा.कृ.वि.अधि.	कृषि विभाग उदयगढ	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
4	श्री हिमांशु पाटीदार	उपयंत्री	नगर परिषद च.शे.आ.नगर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
5	श्री सुनील चरपोटा	आर.ए.ई.ओ	कृषि विभाग च.शे.आजाद नगर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
6	श्री मनीष डामोर	उपयंत्री	पी.डब्ल्यू.डी.च.शे.आजाद नगर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
7	श्री संजय भुरा	आर.ए.ई.ओ	कृषि विकास विभाग कट्टीवाड़ा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
8	श्री रमेश अजनार	उपयंत्री	आर.ई.एस.कट्टीवाड़ा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
9	श्री दिनेश वास्कले	उपयंत्री	मनरेगा ज.प.कट्टीवाड़ा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 192-जोबट SST की सूची

स.क्र.	SST के कार्य हेतु लगाये गए अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	श्री नरसिंह खराडिया	उपयंत्री	जनपद पंचायत उदयगढ	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
2	श्री जोगेन्द्रसिंह रावत	ए.वी.एफ.ओ.	पशु चिकित्सालय उदयगढ	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
3	श्री लक्ष्मण भाबर	उपयंत्री	पी.एच.ई.जोबट	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
4	श्री विशाल आलावे	उपयंत्री	आर.इ.एस. जोबट	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
5	श्री नगरसिंह मायड़ा	उपयंत्री	जल संसाधन उपसंभाग जोबट	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
6	श्री दरियाव सिंह इडवे	ग्रा.उ.वि. अधि.	उदयगढ	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
7	श्री ध्यानसिंह चौहान	ए.वी.एफ.ओ.	पशु चिकित्सालय च.शे.आ.न.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
8	श्री अनिल सौलकी	आर.ए.इ.ओ	कृषि विभाग उदयगढ	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
9	श्री जितेन्द्र चौहान	सहा. उपनिरी.	कृषि उपज मंडी च.शे.आ.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
10	श्री कैलाश डाबर	उपयंत्री	जनपद पंचायत च.शे.आ.नगर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
11	श्री राकेश भाबर	उपयंत्री	लोक.स्वा.यां. उप.च.शे.आ.न.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
12	श्री शैलेन्द्र कुमार गाडर	AVFO	पशु औषधालय माथना	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
13	श्री जावरिया कटारा	ए.वी.एफ.ओ.	पशु चिकित्सालय सेजावाडा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
14	श्री सजन चौहान	उपयंत्री	जन.पंचा. चन्द्रशेखर आ-न.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
15	श्री मोहनसिंह सोलकी	ए.वी.एफ.ओ.	पशु औ. बरझर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर

स.क्र.	SST के कार्य हेतु लगाये गए अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
16	श्री सुशील पटेल	सहा.यंत्री	जनपद पंचायत च.शे.आ.नगर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
17	श्री कलमसिंह डावर	ए.वी.एफ.ओ.	पशु चिकित्सालय बोरी	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
18	श्री धनसिंह गेहलोत	आर.ए.इ.ओ	कृषि विभाग उदयगढ	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
19	श्री नेमालाल कौशल	उ.व.क्षे.	वन परि.क्षेत्र कट्टीवाड़ा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
20	श्री मगनसिंह कनेश	वनपाल	वन परि.क्षे.कट्टीवाड़ा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
21	श्री लालसिंह धार्व	आर.ए.इ.ओ	कृषि विभाग चांदपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
22	श्री किशनसिंह तरोले	आर.ए.इ.ओ	कृषि विभाग चांदपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
23	श्री नितिन पाटीदार	आर.ए.इ.ओ	कृषि विभाग कट्टीवाड़ा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
24	श्री गिरधारी नरगावे	आर.ए.इ.ओ	कृषि विभाग कट्टीवाड़ा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
25	श्री दिनेश डावर	AVFO	पशु चिकित्सालय विभाग कट्टीवाड़ा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
26	श्री आशिष कनेश	उपयंत्री	मनरेगा. कट्टीवाड़ा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
27	श्री दीपक परमार्थी	ब्लॉक समन्वयक	जनपद पंचायत कट्टीवाड़ा	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर

विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 192-जोबट VST की सूची

स.क्र.	VST के कार्य हेतु लगाये गए अधिकारी / कर्मचारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा / संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दंडाधिकारी की शक्तिया प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	श्री अखिलेश शिवदे	पंचायत समन्वयक	जनपद पंचायत जोबट	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
2	श्री नेतियासिंह पारगी	उपयंत्री	जनपद पंचायत उदयगढ़	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
3	श्री गंभीरसिंह अचालिया	पंचायत समन्वयक	जनपद पंचायत च.शे.आ.न.	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर
4	श्री नफीसुद्दीन मकरानी	उपयंत्री	जनपद पंचायत अलीराजपुर	तृतीय श्रेणी	सम्पूर्ण जिला अलीराजपुर

हस्ता./-

उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला धार, मध्यप्रदेश

क्र.-1728-निर्वाचन-2024

धार, दिनांक 13 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों प्रदत्त करने के संबंध में संशोधित प्रस्ताव

जिले का नाम :- धार

स.क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	डॉ. गलसिंह डावर	पशु चिकित्सक अधिकारी	पशु चिकित्सालय लाबरिया तह. सरदापुर	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
2	श्री भुरसिंह देवडा	कृषि विस्तार अधिकारी	कृषि विभाग धार	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
3	श्री कमल किशोर मालवीय	सहायक विकास विस्तार अधिकारी	जनपद पंचायत नालछा जिला धार	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
4	श्री पंकज मालवीय	सहायक यंत्री	म ग्रा शा स विका प्रधिकरण मनावर जिला धार	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए
5	डॉ. सुरेश कनेल	पशु चिकित्सक अधिकारी	पशु चिकित्सालय नालछा जिला धार	कार्यपालक	संपूर्ण जिले के लिए

हस्ता./-

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश

क्र.-2392-भा.निर्वा-कर्म.व्य-स्था.-सेक्टर म.-

इन्दौर, दिनांक 11 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024 सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

जिले का नाम :- इंदौर

क्र	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी पदनाम की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
1	श्री नरेश कुमार झा	सहायक यंत्री	कॉम्पैरिट कार्यालय, म.प्र.प.क्ष वि.वि.क.नि. जी.पी.एस. केम्पस पोलीस ग्राउंड इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
2	राजेश कुमार निश	डिप्टी डायरेक्टर (सिविल)	इंदौर जल सन्धान Water Resources की जी सेक्टर स्कीम नंबर 04 सी विजय नगर इंदौर 492010	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
3	अरविन्द शर्मा	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सम्भाग क 1	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
4	नरसिंह बघेल	सहा. वाणिज्यिक कर अधिकारी	समाग्रीय उपयुक्त वाणिज्य कर, लभाग 1, इंदौर-इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
5	श्री बटवन्दी परधनराणी	अधीक्षक	सौजीएसटी कार्यालय मासिक बाग इन्दौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
6	इन्द्रा कल्याण	सहायक यंत्री	202.सेटलाइट भवन, प्रशासनिक संकुल परिसर, जिला-इन्दौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
7	श्री चक्रेश शर्मा	वैज्ञानिक	भारतीय सायबीन अनुसंधान संस्थान खडवा रोड भारतीय सायबीन अनुसंधान संस्थान खडवा रोड इंदौर	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
8	अमित कुमार	विकास अधिकारी	भारतीय जीवन बीमा निगम शहर शाखा क्रमांक 04 इन्दौर-इंदौर-इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
9	पूज्य कुचलन	वरिष्ठ वैज्ञानिक	भारतीय सायबीन अनुसंधान संस्थान खडवा रोड भारतीय सायबीन अनुसंधान संस्थान खडवा रोड इंदौर	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
10	श्री नरेश श्रीवास्तव	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	भारतीय जीवन बीमा निगम सिटी ब्रांच ऑफिस नं. 3 एमटीएच कम्पाउण्ड इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
11	अर्चना मुजाल्दा	उपयंत्री	जल सन्धान विभाग, संभाग इंदौर Water Resources Sub Division Indore	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
12	इमराना झूपाणी	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री शार्मिण यांत्रिकी सेवा, संभाग इंदौर 202.सेटलाइट भवन, प्रशासनिक संकुल परिसर, जिला-इन्दौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
13	श्रीमती सजल जैन	सहायक यंत्री	कार्यालय अधीक्षण यंत्री शार्मिण यांत्रिकी सेवा मंडल-इंदौर-इंदौरआयुक्त कार्यालय परिसर मोती बगला इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
14	श्री एकार टी.एल	वरिष्ठ वैज्ञानिक	भारतीय कृषि, भारतीय कृषि अनुसंधान सं. क्षेत्रीय केन्द्र इंदौर	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
15	विजय पुरोहित	प्रशिक्षण अधिकारी	औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था नदानगर इंदौर आईटीआई इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
16	श्री अरुण कटो	विकास अधिकारी	शाखा कार्यालय क्र. 3 इन्दौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
17	श्री कृष्ण कुमार निराना	सहायक वनरक्षक	मुख्य वनरक्षक सामाजिक वानिकी वृत्त आईटी पार्क खण्डवा रोड इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
18	श्री शक्तिपाल सिंह	नौजी सचिव	भारतीय सायबीन अनुसंधान संस्थान खडवा रोड भारतीय सायबीन अनुसंधान संस्थान खडवा रोड इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
19	नीलिका मंत्री	कार्यपालन यंत्री	मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल विहार कॉलोनी यशवंत क्लब पानी की टंकी के सामने	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
20	टीपक सिंह राजपूत	विकास अधिकारी	भारतीय जीवन बीमा निगम, शा. कृ.-3, पालिका प्लाजा, इंदौर, म.प्र	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
21	रविंद्र कारन	विकास अधिकारी	भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय डी.ए.डी. ब्रां 157 आर एटी मार्ग छावनी इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
22	श्री अमित कुमार अमित	सहायक यंत्री	कॉम्पैरिट कार्यालय, म.प्र.प.क्ष वि.वि.क.नि. जी.पी.एस. केम्पस पोलीस ग्राउंड इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए

लोकसभा निर्वाचन-2024 जिला इन्दौर

पूर्व में प्रेषित जानकारी के अतिरिक्त संशोधित/अतिरिक्त/रिजर्व नियुक्त सेक्टर मजिस्ट्रेट/झॉनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम :- इंदौर

सं. क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
23	श्री हेमंत कुमार जाधव	विकास अधिकारी	भारतीय जीवन बीमा निगम शाखा कार्यालय डी.ए.वी. रां १५२ आर.ए.टी मार्ग छावनी इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
24	श्री राजेश रामगौरिया	उपयंत्री	लाक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग महु इंदौर विकास प्राधिकरण, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
25	श्री जीतेन्द्र कोचर	उपयंत्री	७ रेस कोर्स रोड इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
26	अचिन्त्य दीक्षित	पशु चिकित्सा सहा. शल्य.	संचालक पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महु-इंदौर-वैटरनरी कालेज के पास आगरा बॉम्बे रोड महु	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
27	श्री अजमेर सिंह भंवर	बीज प्रमाणिकरण अधिकारी	म.प्र. राज्य बीज प्रमाणिकरण संस्था-इंदौर-इंदौर पशु चिकित्सा परिसर महु नाका इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
28	श्रीमती सावित्री मुवेल	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, 202 सेटेलाइट भवन प्रशासनिक संकुल परिसर, जिला इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
29	श्री वीरेन्द्र सिंह चौहान	उपयंत्री	म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना, द्वितीय तल 17/1, 17/2 एवं 18 असरवाद खुर्द, तपालघाटी खंडवा रोड इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
30	श्री जितेन्द्र सिंह चौहान	प्रशासनिक अधिकारी	भारतीय जीवन बीमा निगम महु (93 सिमेंटी रोड मेहता की चाल महु)	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
31	विकास सावनेर	उप प्रबंधक	मध्यप्रदेश वित्त निगम, प्रधान कार्यालय इंदौर २९, नवरतनबाग, सेंट्रल प्राइमरी स्कूल के सामने इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
32	दीपक कुमार मुजमेर	प्रशासनिक अधिकारी	यूनाइटेड इंडिया इन्सुरेंस मंडल कार्यालय 2 इंदौर विकास प्राधिकरण भवन इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
33	ओमप्रकाश टवानी	पशु चिकित्सा सहा. शल्य.	संचालक पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महु-इंदौर वैटरनरी कालेज के पास आगरा बॉम्बे रोड महु	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
34	श्री सिद्धार्थ वरगले	विकास अधिकारी	भारतीय जीवन बीमा शाखा क्रमांक ०१ इंदौर १९ महात्मा गांधी मार्ग इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
35	पद्मा गोमे	सहायक यंत्री	मुख्य अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग जल विहार कॉलोनी यशवंत क्लब पानी की टंकी के सामने	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
36	श्री आशीष दुवे	विकास अधिकारी	एलआईसी ऑफ इण्डिया, प्लॉट 28-30 स्कीम 54 रघुनाथ पेट्रोल पंप, विजयनगर इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
37	आरिफ अहमद खान	सहायक यंत्री	कॉर्पोरेट कार्यालय, म.प्र.प.क्ष वि.वि.कं.लि. जी.पी.एस. कंपस पोला गाउँड इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
38	श्री अभय कुमार कापाले	सहायक यंत्री	कार्या. सं. सं. वृत्त कार्यालय सिविल म.प्र.प.क्ष.वि.वि.कं.लि.	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
39	वत्संत सिंह	पशु चिकित्सा सहा. शल्य.	संचालक पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महु-इंदौर वैटरनरी कालेज के पास आगरा बॉम्बे रोड महु	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
40	समीर जैन	पशु चिकित्सा सहा. शल्य.	संचालक पशु स्वास्थ्य एवं जैविक उत्पाद संस्थान महु-इंदौर वैटरनरी कालेज के पास आगरा बॉम्बे रोड महु	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
41	दीपक भालवीय	डिप्टी डायरेक्टर (सिविल)	केंद्रीय जल ससाधन Water Resources NCA NARMADA SADAN SCHEME 74 C VIJAY NAGAR	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
42	श्री शेर सिंह सोलंकी	सहायक प्राध्यापक	कृषि महाविद्यालय इंदौर	प्रथम	संपूर्ण जिले के लिए
43	श्री निर्मल शाक्य	सहा वार्षिक कर अधिकारी	कार्यालय उपायुक्त वार्षिक कर इंदौर सभाग 2	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए

लोकसभा निर्वाचन-2024 जिला इन्दौर

पूर्व में प्रेषित जानकारी के अतिरिक्त संशोधित/अतिरिक्त/रिजर्व नियुक्त संकेतक मंडल/इकाई अधिकारियों को विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम :- इंदौर

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा स्तरों का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी पदनाम की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
33	अमरेंद्र शिव शर्मा	उप-अधिकारी	समाज सेवा केंद्र इन्दौर-11, मन्नाडवाला रोड इन्दौर	पथम	संपूर्ण जिले के लिए
34	विजय शर्मा	विभाग अधिकारी	भारतीय जल संचयन निगम शाखा कार्यालय ई.टी. रो. 112, अमरेंद्र शर्मा कुटुंब इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
35	सत्यम शर्मा	पर्यु चिकित्सा सेवा सहायक	सहायक पर्यु चिकित्सा सेवा इकाई इन्दौर मन्नाडवाला रोड इन्दौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
36	अश्विनी शर्मा	उपयंत्री	स.प. पुलिस अकादमी एवं अधीनस्थ विद्यालय इन्दौर-11, प्रथम तल एम आई डी कॉलोनी क्रिचन एग्जिनेट स्कूल के पीछे, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
37	अश्विनी शर्मा	उपयंत्री	क्षेत्रीय कार्यालय स.प. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
38	नुरजा फतेह	सहायक	राजकीय महाविद्यालय राउ इन्दौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
39	कल्पना चौहान	उपयंत्री	स.प. पुलिस अकादमी एवं अधीनस्थ विद्यालय इन्दौर-11, प्रथम तल एम आई डी कॉलोनी क्रिचन एग्जिनेट स्कूल के पीछे, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
40	राजेश पटेल	उपयंत्री	कार्यालय अधीनस्थ डॉ. दर्शन चड्ढा सेवा मंडल-इंदौर आयुक्त कार्यालय परिसर नो.1 बंगला इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
41	मालिका ठाकुर	उपयंत्री	लोक निर्माण विभाग (विद्युत / यांत्रिकी) संभाग इंदौर लोक निर्माण विभाग ऑफिस पलासिया इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
42	धूमिका चौहान	उप संचालक	उपसंचालक उदयन इंदौर, कार्यालय उप संचालक उदयन जिला इन्दौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
43	मेघत जावंट अली	अतिरिक्त उपसंचालक	उपसंचालक पर्यु चिकित्सा सेवाएं-इंदौर, उपसंचालक पर्यु चिकित्सा सेवाएं जिला इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
44	वी.एन. राठी	उपयंत्री	नगर परिषद राउ इन्दौर, नगर परिषद राउ इन्दौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
45	राजेश महारा	क्षेत्रीय सन्तन्वयक	समाजिक संपुर्ण संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग इंदौर, महिला संसाधन केंद्र समाज कल्याण परिसर परदेशीपुरा इंदौर	पथम	संपूर्ण जिले के लिए
46	श्री प्रवीण शर्मा	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग संधारण उपखंड क्र. 8	पथम	संपूर्ण जिले के लिए

लोकसभा निर्वाचन-2024 जिला इन्दौर

पूर्व में प्रेषित जानकारी के अतिरिक्त संशोधित/अतिरिक्त/रिजर्व नियुक्त FST दल हेतु विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम :- इंदौर

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	2	3	4	5	6
1	रोहित पटेल	सड़क सहायक अधिकारी	क्षेत्रीय सामाजिक विकास एवं वसायत पोषण केंद्र इन्दौर संभाग इन्दौर, क्षेत्रीय सामाजिक विकास परिषदां 112, अमरेंद्रशर्मा कुटुंब के समीप ए.टी. रोड इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
2	पदीप कुमार व्यास	मानचित्र कार	एम आई डी कॉलोनी क्रिचन एग्जिनेट स्कूल के पीछे, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
3	सुभाष चौहान	टेक्नीशियन ग्रेड 1	एम आई डी कॉलोनी क्रिचन एग्जिनेट स्कूल के पीछे, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
4	उत्पल नारायण पाटीदार	कनिष्ठ रेशन निरीक्षक	सहायक संचालक रेशन, इंदौर एवं सामुदायिक विभाग र. कार्यालय सहायक संचालक रेशन इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
5	श्री मनीष राठी	सहायक पर्यु चिकित्सा सेवा	उपसंचालक पर्यु चिकित्सा सेवाएं इंदौर कृषि संसाधन केंद्र इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
6	सचिन प्रता	सहायक पथक	मध्यप्रदेश विद्युत निगम, पथक कार्यालय इंदौर 22/2 साउथ सुकोला, सबई आगरा रोड इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
7	रजनीश बार्नल	प्रशासनिक अधिकारी	भारतीय जल संचयन निगम शाखा स.प. 83 CEMENTRY ROAD, MENTA KI CHAAL, MHOW MP	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
8	देवेन्द्र कुमार शर्मा	मानचित्रकार	सहायक आकाररक्षक संचालक एवं पकोट-इंदौर 11/12 सभरी कॉलोनी, स्टीम नंबर 84, विजय नगर इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
9	ललित केशवदेकर	प्रशासनिक अधिकारी	समाजिक हस्तारंभ कर्पनी लि, क्षेत्रीय कार्यालय BENCHMARK BUSINESS PARK, VIJAYNAGAR, INDORE	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
10	राहुल शर्मा	उपयंत्री	स.प. पुलिस अकादमी एवं अधीनस्थ विद्यालय इन्दौर-11, प्रथम तल एम आई डी कॉलोनी क्रिचन एग्जिनेट स्कूल के पीछे, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के लिए
11	राजेश शर्मा	उप संचालक	समाजिक हस्तारंभ कर्पनी लि, क्षेत्रीय कार्यालय 310-323, BENCHMARK BUSINESS PARK, VIJAY NAGAR, INDORE	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए
12	सुरेशचंद्र पौरवाल	सहायक सांख्यिकी अधिकारी	आयुक्त, सांख्यिकी, कार्यालय आयुक्त, सांख्यिकी कार, म.प. इन्दौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के लिए

लोकसभा निर्वाचन-2024 जिला इन्दौर
पूर्व में प्रेषित जानकारी के अतिरिक्त संशोधित/अतिरिक्त/रिजर्ज नियुक्त
SS1 टल हेतु विशेष मन्यपालक दण्डाधिकारी की परामर्श करने के संबंध में परामर्श

जिले का नाम :- इंदौर

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	श्रेणी/संवर्ग का नाम	शेष जिले के नि. विशेष कार्यालयक दण्डाधिकारी की शक्तिपूर्वक प्रदान की जाया प्रस्तावित है।
1	परमेश्वर शर्मा	परशासकीय अधिकारी	नेशनल इंडोरेस कंपनी लि. शीशिय कार्यालय BENCHMARK BUSINESS PARK, VIDAYNAGAR, INDORE	द्वितीय	संपूर्ण जिले के जिला
2	राजेश कुमार पांडे	नगरपालक सहायक	श्रीमती उषा कुमारी शीशिय कार्यालय, भाग्य 1, इंदौर इंदौर परमेश्वर शर्मा, नगरपालक कार्यालय, भाग्य 1, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
3	महेश्वर शर्मा	नगरपालक सहायक	परमेश्वर शर्मा, नगरपालक कार्यालय, भाग्य 1, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
4	अरवि शर्मा	सहायक परशासकीय अधिकारी	भारतीय कृषि आरक्षण कृषि नगरपालक कार्यालय, भाग्य 1, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
5	श्री अशोक शर्मा	पञ्चमी सहायक निरीक्षक	उषा कुमारी सहायक सहायक (1180) देवी शीशिय कार्यालय भाग्य इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
6	श्री अशोक शर्मा	सहायक सहायक	जिला हायकोर्ट कार्यालय एन.पी.ओ. कार्यालय इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
7	श्री अशोक शर्मा	परशासकीय अधिकारी	नेशनल इंडोरेस कंपनी लि. शीशिय कार्यालय BENCHMARK BUSINESS PARK INDORE, VIDAY NAGAR INDORE	द्वितीय	संपूर्ण जिले के जिला
8	महेश्वर शर्मा	सहायक पत्नी	उषा कुमारी सहायक सहायक (1180)	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
9	श्री अशोक शर्मा	उपनिरीक्षक सहायक	मध्य राज्य कृषि विभाग कोटि इन्दौर, नगरपालक कार्यालय, भाग्य 1, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
10	अशोक शर्मा	उपयंत्री	उपसहायक, नगरपालक, भाग्य 1, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
11	परमेश्वर शर्मा	परशासकीय अधिकारी	नेशनल इंडोरेस कंपनी लि. शीशिय कार्यालय BENCHMARK BUSINESS PARK INDORE	द्वितीय	संपूर्ण जिले के जिला
12	अशोक शर्मा	सांख्यिकी अन्वेषक	परमेश्वर शर्मा, नगरपालक कार्यालय, भाग्य 1, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
13	सुभाष परदेशी	परशासकीय अधिकारी	आरक्षण कृषि नगरपालक कार्यालय, भाग्य 1, इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के जिला
14	श्री अशोक शर्मा	परशासकीय अधिकारी	महेश्वर शर्मा, नगरपालक कार्यालय, भाग्य 1, इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के जिला
15	सत्यंशु शर्मा	सहायक निरीक्षक	उषा कुमारी सहायक सहायक (1180) 123 देवी शीशिय कार्यालय भाग्य इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
16	अशोक शर्मा	उप प्रबन्धक	दि न्यू इंडिया एरथवेस कंपनी लि. आरक्षण कृषि नगरपालक कार्यालय, भाग्य 1, इंदौर	द्वितीय	संपूर्ण जिले के जिला
17	अशोक शर्मा	उप प्रबन्धक	नेशनल इंडोरेस कंपनी लि. शीशिय कार्यालय BENCHMARK BUSINESS PARK	द्वितीय	संपूर्ण जिले के जिला
18	अशोक शर्मा	भूमि संरक्षण सर्वे आधी	सहायक भूमि संरक्षण अधिकारी, 703, Satellite Building Indore	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
19	श्री अशोक शर्मा	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड इंदौर लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड इंदौर उपखण्ड इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
20	महेश्वर शर्मा	सहायक	आरक्षण कृषि नगरपालक कार्यालय, भाग्य 1, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला

लोकसभा निर्वाचन-2024 जिला इन्दौर
पूर्व में प्रेषित जानकारी के अतिरिक्त संशोधित/अतिरिक्त/रिजर्ज नियुक्त
SS1 टल हेतु विशेष मन्यपालक दण्डाधिकारी की परामर्श करने के संबंध में परामर्श

जिले का नाम :- इंदौर

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	श्रेणी/संवर्ग का नाम	शेष जिले के नि. विशेष कार्यालयक दण्डाधिकारी की शक्तिपूर्वक प्रदान की जाया प्रस्तावित है।
1	अशोक शर्मा	सहायक	मध्य राज्य कृषि विभाग कोटि इन्दौर, नगरपालक कार्यालय, भाग्य 1, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
2	श्री अशोक शर्मा	नगरपालक सहायक	नगरपालक कार्यालय, भाग्य 1, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
3	श्री अशोक शर्मा	परशासकीय अधिकारी	परमेश्वर शर्मा, नगरपालक कार्यालय, भाग्य 1, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
4	श्री अशोक शर्मा	नगरपालक सहायक	नगरपालक कार्यालय, भाग्य 1, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला
5	श्री अशोक शर्मा	सहायक	नगरपालक कार्यालय, भाग्य 1, इंदौर	तृतीय	संपूर्ण जिले के जिला

हस्ता./-
 अपर कलेक्टर
 एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश

क्र.-निर्वाचन-सेक्टर-2024-1123

उज्जैन, दिनांक 10 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन 2024

विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

जिले का नाम : उज्जैन

स. क्र.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिनके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है।
1	डॉ नौरज सरवान	सहा. प्राध्यापक	शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
2	डॉ जी एल.तुगाडे	सहा. प्राध्यापक	शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
3	श्री जे.एल.बरमैया	प्राचार्य	शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
4	डॉ मोहन निबोले	सहा. प्राध्यापक	शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
5	डॉ चन्द्र दीप यादव	सहा. प्राध्यापक	शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
6	श्री व्ही.एस.पाण्डे	प्रोफेसर	उज्जैन इंजिनियरिंग कॉलेज	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
7	श्री अनसिंह बघेल	सहायक संचालक	लोक शिक्षण सभाग उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
8	डॉ जफर मेहमूद	सहा. प्राध्यापक	शा. माधव कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
9	श्री सजीत राय	क्रीडा अधिकारी	शा. माधव विज्ञान महाविद्यालय	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
10	श्री सुनील शर्मा	कार्यपालन यंत्री	ग्रामीण यात्रिकी सेवा उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
11	श्रीमती तरुणा शुक्ला	व्याख्याता	शा. पोलिटैक्निक कॉलेज, उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
12	श्रीमती राशि सकसेना	व्याख्याता	शा. पोलिटैक्निक कॉलेज, उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
13	श्री के.आर.पाटनकर	उपायुक्त	सहकारिता	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
14	श्री रत्नेश चन्द्र गुप्ता	एसोसिएट प्रोफेसर	उज्जैन इंजिनियरिंग कॉलेज	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
15	श्रीमती ज्योत्सना अग्रवाल	सहा.यंत्री	कार्या. अधीक्षण यंत्री, ग्रा.यां.से. उज्जैन मण्डल	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
16	श्री संजय त्रिवेदी	सहायक संचालक	लोक शिक्षण सभाग उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
17	श्री हरिश हरदेनिया	सी.डी.पी.ओ.	महिला एवं बाल विकास इंगोरिया	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
18	डॉ. जी.एस. डार	संयुक्त संचालक	पशु चिकित्सा उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए
19	डॉ. ए.पी. शुक्ला	सहा.बीज परीक्षण	बीज परीक्षण प्रयोग शाला उज्जैन	राज्य संवर्ग	संपूर्ण जिले के लिए

हस्ता./-

(महेन्द्र सिंह कवचे)

अपर कलेक्टर

एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी,

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भारत निर्वाचन), जिला रतलाम, मध्यप्रदेश

क्र.-1360-फा.क्र. 36-भा.नि.2024

रतलाम, दिनांक 15 अप्रैल 2024

लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024-सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

उड़न दस्ता (Flying Squad) विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने बाबत प्रस्ताव

क.	अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1	2	3	4	5	6
1	श्री सुनील कुमावत	ग्रामीण कृषि विस्तार अधि	कार्या. एसडीओ कृषि पिपलौदा	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिये
2	श्री माधवलाल डामर,	पीसीओ,	जनपद पंचायत बाजना	तृतीय श्रेणी कार्यपालिक	संपूर्ण जिले के लिये

हस्ता./-

अपर कलेक्टर

एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला मंदसौर, मध्यप्रदेश

क्र.-1153-भारत निर्वाचन-कानून व्य.-2024

मंदसौर, दिनांक 15 अप्रैल 2024

लोकसभा निर्वाचन-2024 संपन्न कराए जाने हेतु संशोधित/अतिरिक्त नियुक्त किए गए
FST/SST/VST दलों की सूची
जिला मंदसौर

क्र.	पूर्व में नियुक्त अधिकारी का नाम पदनाम/ कार्यालय का नाम	नवीन नियुक्त अधिकारी का नाम पदनाम/ कार्यालय का नाम	सेवा/संवर्ग का नाम	क्षेत्र जिसके लिए विशेष कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
(1)	(2)	(3)		(6)
1	श्री कैलाशचन्द्र व्यास, सहा.शिक्षक शा.बा.उ.मा.वि. भालोट	श्री रंगलाल डामोर, सहा.उप निरीक्षक कृषि उपज मण्डी दलोदा	तृतीय श्रेणी	संपूर्ण जिले के लिए
2	श्री बी.डी; मिश्रा, उपयंत्री जनपद मंदसौर	श्री रमणलाल, सहा.संचालक कृषि विभाग मंदसौर	तृतीय श्रेणी	"
3	श्री राजेश बिसोरिया, ब्लाक समन्वयक वाटरशेड जनपद पंचायत मल्हारगढ़	श्री राजेश डोंगी, सहा.उप निरीक्षक कृषि उपज मण्डी मंदसौर	तृतीय श्रेणी	"
4	श्री शंकरलाल कुंभकार, पी.सी.ओ. जनपद पंचायत मंदसौर	श्री फजले रसूल, उप निरीक्षक कृषि उपज मण्डी पिपलियामण्डी	तृतीय श्रेणी	"
5	श्री राजेश बगलैकर, उपयंत्री जनपद पंचायत मंदसौर	डॉ. रितेश प्रजापत सहा.राजस्व निरीक्षक नगर परिषद मल्हारगढ़	तृतीय श्रेणी	"
6		श्री राजेन्द्र चौहान उपयंत्री जल संसाधन मल्हारगढ़	तृतीय श्रेणी	"
7	श्री पंकज ग्वरीया, बी.सी., वाटरशेड जनपद पंचायत मल्हारगढ़	श्री कालुराम डिण्डोर, प्र.अ.मा.वि. पिपलियाबंध	तृतीय श्रेणी	"
8	श्री जितेन्द्र आँजना, एस.डी.ओ. कृषि विभाग मल्हारगढ़	श्री इंदरमल जाटव, प्राचार्य शा.हाई स्कूल मगराना	तृतीय श्रेणी	"
9	श्री यशवंत कमलवा, पी.सी.ओ. जनपद पंचायत सीतामऊ	श्री कमलसिंह वामनिया, उ.मा.शि. नाहरगढ़	तृतीय श्रेणी	"
10	श्री वालाराम घाटिया, शिक्षक शा.प्रा.वि. सेदरामाता	श्री सुनिल अमलियार, आर.ए.ई.ओ. कृषि विभाग सीतामऊ	तृतीय श्रेणी	"

11	श्री दलजीतसिंह उपयंत्री नगर परिषद सीतामऊ	श्री अंकीत वर्मा, उ.मा.शि. उ.मा.वि. तितरोद	तृतीय श्रेणी	"
12	श्री यश निगम उपयंत्री नगर परिषद सुवासरा	श्री दशरथ पाटीदार स.प.चि. क्षेत्र अधिकारी पशु चिकित्सालय रुनिजा	तृतीय श्रेणी	"
13	श्री विकल्पसिंह सेंधव सहा.राजस्व निरीक्षक नगर परिषद सुवासरा	श्री विक्रमसिंह उ.मा.शि. उमावि आगर	तृतीय श्रेणी	"
14	श्री संजय राठौर, राजस्व निरीक्षक नगर परिषद सुवासरा	श्री धीरज कुमार गेहलोद आरएईओ कृषि विभाग सीतामऊ	तृतीय श्रेणी	"
15	श्री संजय किराड़े, आरएईओ कृषि विभाग सीतामऊ	श्री प्रकाश डाबर, आरएईओ कृषि विभाग सीतामऊ	तृतीय श्रेणी	"
16	श्री अजय चौहान, ग्रा.कृ.वि. अधिकारी कृषि विभाग गरोठ	श्री सौरभ धनगर, स.प.चि.क्षेत्र अधिकारी पशु चिकित्सालय ढिकनिया	तृतीय श्रेणी	"
17	श्री आर.सी.कछावा, ग्रा.कृ.वि. अधिकारी कृषि विभाग गरोठ	श्री बंशीलाल ररोतिया, ग्रा.कृ.वि.अ; गरोठ	तृतीय श्रेणी	"
18	श्री प्रशांतसिंह उपयंत्री एसएसपीआईयु शामगढ़	श्री यशराज सोलंकी, ग्रा.कृ.वि. अधिकारी कृषि विभाग भानपुरा	तृतीय श्रेणी	"
19	श्री रविन्द्र नर्गेश, ग्रा.कृ.वि. अधिकारी कृषि विभाग भानपुरा	श्री दीपक धानुक सहा.शल्य पशु चिकित्सक भानपुरा	तृतीय श्रेणी	"
20	--	श्री मांगीलाल चौहान, पंचायत समन्वयक अधिकारी, जनपद पंचायत मंदसौर	तृतीय श्रेणी	"
21	--	श्री महेश परिहार, कराधन सहायक वाणिज्यक कर विभाग मंदसौर	तृतीय श्रेणी	"
22	--	श्री रामकृष्णन नायग, एवीएफओ. भावगढ़	तृतीय श्रेणी	"
23	--	श्री राहुलसिंह राजपुत सहा राजस्व निरीक्षक नगर परिषद नारायणगढ़	तृतीय श्रेणी	"
24	--	श्री रामप्रसाद कुमावत सहा.निरीक्षक सहकारिता मंदसौर	तृतीय श्रेणी	"
25	--	श्री राजेश डोंगी, सहा.उप निरीक्षक कृषि उपज मण्डी मंदसौर	तृतीय श्रेणी	"
26	--	श्री संजय यति, पंचायत समन्वयक अधिकारी जनपद पंचायत मल्हारगढ़	तृतीय श्रेणी	"

27	--	श्री कैलाशचन्द्र बोराना, ग्रा.कृ.वि.अ. कृषि विभाग मल्हारगढ़	तृतीय श्रेणी	"
28	--	श्री रितेश प्रजापति, सहा.राजस्व निरीक्षक नगर परिषद मल्हारगढ़	तृतीय श्रेणी	"
29	--	श्री राजू अवास्या, एवीएफओ धुंधइका	तृतीय श्रेणी	"
30	--	श्री सौरभ धनगर, एवीएफओ. ढिकनिया	तृतीय श्रेणी	"
31	--	श्री धीरज कुमार गेहलोद, ग्रा.कृ.वि.अ; कृषि विभाग सीतामऊ	तृतीय श्रेणी	"
32	--	श्री महेन्द्रसिंह ए.वी.एफ.ओ. कयामपुर	तृतीय श्रेणी	"
33	--	श्री प्रकाश ग्वाल, सहा.राजस्व निरीक्षक नगर परिषद गरोठ	तृतीय श्रेणी	"
34	--	श्री राधेश्याम पाटीदार, सहा.शिक्षक शा.प्रा.वि. सेमली	तृतीय श्रेणी	"
35	--	श्री रविकांत खरे, सहा.शल्य पशु चिकित्सालय बोलिया	तृतीय श्रेणी	"
36	श्री लोकेश दुबे, खण्ड प्रभारी जनपद पंचायत मंदसौर	श्री तुलसीराम गुन्दावत, व.स.नि. सहकारिता विभाग मंदसौर	तृतीय श्रेणी	"
37	श्री गजेन्द्र शर्मा उपयंत्री जनपद पंचायत मंदसौर	श्री अनिल निगवाल, उपयंत्री ग्रा.या.सेवा संभाग मंदसौर	तृतीय श्रेणी	"
38	श्री प्रभुलाल पाटीदार प्रा.शि. प्रा.वि. शमनगर	श्री दशरथ राठौर सहा.शि. प्रा.वि. मंगरोला	तृतीय श्रेणी	"
39	--	श्री रामेश्वर वाकतरीया, मा.शि.मा.वि. इसबसखेड़ी	तृतीय श्रेणी	"
40	श्री रोहित कैथवास, उपयंत्री नगर पालिका मंदसौर	श्री रामप्रसाद कुमावत, स.नि. सहकारिता मंदसौर	तृतीय श्रेणी	"
41	--	श्री शैलेन्द्रसिंह झाला, सहा उप निरीक्षक कृषि उपल मण्डी दलोदा	तृतीय श्रेणी	"
42	श्री चेतन पाटीदार वरि.कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग मंदसौर	श्री देवीलाल पटेल, ग्रा.कृ.वि.अ. मंदसौर	तृतीय श्रेणी	"
43	श्री गोपाल पाटीदार वरि.कृषि विस्तार अधिकारी कृषि विभाग मंदसौर	श्री प्रवीण कुमार पाठक सहा.निरीक्षक कृषि मण्डी मंदसौर	तृतीय श्रेणी	"

44	श्री ओमप्रकाश शर्मा, ग्रामीण उच्च विकास अधिकारी मल्हारगढ़	श्री राकेश कुमार डाबर, ग्रा.कृ.वि.अ. मल्हारगढ़	तृतीय श्रेणी	..
45	श्री कैलाचंद्र सांबल प्र.शि. प्र.वि. पिपलिया सोलंकी	श्री प्रेमचंद राठौर प्र.अ.मा.वि. पिपलिया दिशनिया	तृतीय श्रेणी	..
46	श्री देवेन्द्रसिंह चौहान, सहा.निरीक्षक मण्डी बोर्ड	श्री अरुण कुमार पेंवार, सहा.उप निरीक्षक कृषि उपज मण्डी पिपलियामण्डी	तृतीय श्रेणी	..
47	श्री प्रवीण कुमार पाठक, सहा.निरीक्षक कृषि मण्डी मंदसौर	श्री के.के. शुक्ला क्षेत्र संयोजक, जिला संयोजक जनजातीय कार्य तथा अनुसूचित जाति विकास	तृतीय श्रेणी	..
48	श्री हेमन्त देवड़ा, उपयंत्री जल संसाधन मल्हारगढ़	श्री कमलेश मीणा, मण्डी निरीक्षक पिपलियामण्डी	तृतीय श्रेणी	..
49	श्री संजय किराडे, आर.ए.ई.ओ. कृषि विभाग सीतामऊ	श्री रोडमल बगावत, पी.सी.ओ. जनपद पंचायत सीतामऊ	तृतीय श्रेणी	..
50	श्री बालुराम परमार शिक्षक उ.मा.वि. सुवासरा	श्री प्रवीण कुमार जोशी, मा.शि.मा.वि. गेलाना	तृतीय श्रेणी	..
51	श्री गिरजाशंकर कारपेन्टर, ब्लाक समन्वयक एस.वी.एम. जनपद पंचायत गरोठ	श्री टीकमचंद चौहान, उपयंत्री एसएसपीआईयु शामगढ़	तृतीय श्रेणी	..
52	श्री प्रखर जैन, ग्रा.कृ.वि.अ; कृषि विभाग गरोठ	श्री राहुल गणावा, उपयंत्री नगर परिषद गरोठ	तृतीय श्रेणी	..
53	श्री पवन शर्मा उपयंत्री जनपद पंचायत गरोठ	श्री मेहताबसिंह हिरोर, ग्रा.कृ.वि.अ. कृषि विभाग गरोठ	तृतीय श्रेणी	..
64	श्री पुष्पेन्द्र राजोरिया, उपयंत्री जनपद पंचायत गरोठ	श्री कोशलनारायण पाटीदार ए.वी.एफ.ओ. पशु चिकित्सालय गरोठ	तृतीय श्रेणी	..
55	श्री राकेश ब्राम्हणे, उपयंत्री लोक स्वा. विभाग भानपुरा	श्री बालाराम कछावा पी.सी.ओ. जनपद पंचायत भानपुरा	तृतीय श्रेणी	..
56	श्री प्रकाश डाबर, ग्रा.कृ.वि.अ. कृषि विभाग गरोठ	श्री दिपक कुमार पाटीदार उपयंत्री ग्रा.यां.सेवास मंदसौर	तृतीय श्रेणी	..
57	श्री प्रशान्त सोनी, उपयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी भानपुरा	श्री रविन्द्र नर्गेश ग्रा.कृ.वि.अ. कृषि विभाग भानपुरा	तृतीय श्रेणी	..
58	श्री सुनिल गुप्ता, ब्लाक समन्वयक जनपद पंचायत भानपुरा	श्री सौरभ डाबर, उपयंत्री जनपद पंचायत भानपुरा	तृतीय श्रेणी	..

59	श्री कपिल परमार, ब्लाक समन्वयक जनपद पंचायत सीतामऊ	श्री सुरेन्द्र कुमार सागर स. उप निरी. कृषि उपज मण्डी गरोठ	तृतीय श्रेणी	..
60	श्री सुनिल माहौर, ब्लाक समन्वयक जनपद पंचायत सीतामऊ	श्री दिलीप कुमार गुजराती सहा.पशु चिकित्सा अधिकारी	तृतीय श्रेणी	..
61	श्री गिरीराज कारपेन्टर, समन्वयक जनपद पंचायत सीतामऊ	श्री पन्नालाल मईडा समन्वयक जनपद पंचायत सीतामऊ	तृतीय श्रेणी	..

हस्ता./-
कलेक्टर
एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (भा.निर्वा.) जिला नीमच, मध्यप्रदेश

क्र.-भा.निर्वा.-सेक्टर मजि.-2024-1070

नीमच, दिनांक 15 अप्रैल 2024

लोकसभा आम निर्वाचन 2024-सेक्टर मजिस्ट्रेट/जोनल अधिकारियों को विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां.

लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु विशेष कार्यपालिक दण्डाधिकारी की शक्तियां प्रदत्त करने के संबंध में प्रस्ताव

क्र. अधिकारी का नाम	पदनाम	कार्यालय का नाम	सेवा/सर्ग का नाम	अवधि	क्षेत्र जिसके लिये विशेष कार्य, दण्डा. की शक्तियां प्रदत्त की जाना प्रस्तावित है
1 श्री सुरेंद्रसिंह चुण्डवत 9977313955	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त नीमच	वाणिज्य कर	निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से प्रदान समाप्ति तक	संपूर्ण जिला
2 श्री जानकीलाल चरणोटा 9302295776	सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त नीमच	वाणिज्य कर		
3 श्री अनिरुद्ध सिंह 7827589101	वाणिज्यिक निरीक्षक	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त नीमच	वाणिज्य कर		
4 श्री अंकित राय 9406555503	वाणिज्य कर अधिकारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त नीमच	वाणिज्य कर		
5 श्री रजनीव परिहार 9753550718	वाणिज्य कर अधिकारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त नीमच	वाणिज्य कर		
6 श्री देवेन्द्र परमार 8982327937	वाणिज्यिक निरीक्षक	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त नीमच	वाणिज्य कर		
7 श्री जयमल सिंह चवेल 8770856716	वाणिज्य कर अधिकारी	वाणिज्यिक कर अधिकारी वृत्त नीमच	वाणिज्य कर		
8 श्री कैलाशचंद्र यादव 9589399509	सहायक यंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा		
9 श्री एस के सोनी 9753330020	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा		
10 श्री राजेश कुमार आर्य 9179302267	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा		
11 श्री मुकेश चोहान 9165836137	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा		
12 श्री प्रविण चौधरी 7389285551	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा		
13 श्री अशोक कुमार कुमावत 7737848318	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा		
14 श्री मेरुलाल कतिवा 9926369488	कार्यपालन यंत्री	कार्यपालन यंत्री ग्रामीण यांत्रिकी सेवा	ग्रामीण यांत्रिकी सेवा		
15 श्री सत्यनारायण शर्मा 9425973170	उपयंत्री	सर्व शिक्षा अभियान जन.पंचा.जावर	शिक्षा विभाग		
16 श्री आर जी पाटीदार 9993920310	उपयंत्री	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन विभाग	जल संसाधन विभाग		
17 श्री कैलाश चन्द्र शर्मा 9424040908	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		
18 श्री शिवप्रसाद व्यास 8889894891	उपयंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		
19 श्री वैशव भावसार 9399955906	सहायक यंत्री	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी		

(A)

20	श्री अमित तिवारी 8871632881	उप प्रबंधक	परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, म.प्र. जल निगम मर्यादित	जल निगम	निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा से मतदान समाप्ति तक	संपूर्ण जिला
21	श्री लोकेश राठौड 8602213905	उप प्रबंधक	परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, म.प्र. जल निगम मर्यादित	जल निगम		
22	श्री विजय कुमार चोरेवार 9617749999	प्रबंधक	परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, म.प्र. जल निगम मर्यादित	जल निगम		
23	श्री जितेन्द्र सिंह राणावत 9826245489	महाप्रबंधक	परियोजना क्रियान्वयन ईकाई, म.प्र. जल निगम मर्यादित	जल निगम		
24	श्री बालकृष्ण मीना 9669911190	मत्स्य निरीक्षक	सहायक संचालक मत्स्योद्योग नीमच	मत्स्योद्योग		
25	श्री विनित मांढलिया 9669686489	कृषि विस्तार अधिकारी	वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी जावद	कृषि विभाग		
26	श्री राकेश चौहान 9165048466	उपयंत्री	नगर परिषद सरवानिया महाराज	नगरीय प्रशासन		
27	श्री अंकित मांझी 9098244575	उपयंत्री	नगर परिषद सिंगोली	नगरीय प्रशासन		
28	श्री उदयभानसिंह यादव, 7806094217	खेल अधिकारी	शास. स्नात. महाविद्यालय रामपुरा	उच्च शिक्षा		
29	डॉ. ज्ञानसिंह बघेल 6260503733	सहायक प्राध्यापक	शास. महाविद्यालय जीरन	उच्च शिक्षा		

हस्ता. / -

कलेक्टर

एवं जिला निर्वाचन अधिकारी.